



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 2—अगस्त 8, 2003 (श्रावण 11, 1925)
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 2—AUGUST 8, 2003 (SRAVANA 11, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक
सरकारी और बैंक लेखा विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
मुंबई, दिनांक 12 जुलाई 2003

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं० एफ०(8) 70/बी 5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं० 67 के अंतर्गत तथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 18 के अनुसरण मई 2003 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्ट्यता आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई को संसूचित करें। सूची दो भागों में विभाजित की गयी है। भाग क में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग ख में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"


प्रतिभूतियों की सं०	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिनिधि आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
भायखला, मुंबई सर्कल 10% राहत पत्र 1995 (जीपीएच)					
बी०सी० 8960	रु० 1,00,000/-	जमसेतजी जिजीभाय आएशा जेजिजीभाय	27.2.1998	जमसेतजी जिजीभाय आएशा जेजिजीभाय	06.25.70 12.2.2003
बी०सी० 16710	रु० 3,00,000/-	अमीत भानू शाह भानू कांतीलाल शाह सरला भानू शाह	21.11.1998	अमीत भानू शाह भानू कांतीलाल शाह सरला भानू शाह	06.25.68 24.1.2003

सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	विस व्यक्ति के नाम जारी किया	ककया व्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दवेचर का नाम	प्रतिभूति आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
भायखला, मुंबई सर्कल					
10% राहत पत्र 1995 (जीपीएच)					
बी.सी. 16088	रु. 4,00,000/-	अमीत भानू शाह भानू कंतीलाल शाह सरला भानू शाह	17.11.1998	अमीत भानू शाह भानू कंतीलाल शाह सरला भानू शाह	08.25.68 24.1.2003
बी.सी. 16714	रु. 4,00,000/-	अमीत भानू शाह भानू कंतीलाल शाह	21.11.1998	अमीत भानू शाह भानू कंतीलाल शाह	08.25.67 24.1.2003
9% राहत पत्र 1999 (जीपीएच)					
बी.सी. 2252	रु. 3,00,000/-	अमीत भानू शाह भानू कंतीलाल शाह	25.02.1999	अमीत भानू शाह भानू कंतीलाल शाह	08.25.67 24.1.2003
10% राहत पत्र 1995 (जीपीएच)					
बी.सी. 9905	रु. 50,000/-	सी. एस. कृष्णा अय्यर कमला कृष्णन	12.4.1998	सी. एस. कृष्णा अय्यर कमला कृष्णन	08.25.61 18.6.2002
10% राहत पत्र 1995 (जीपीएच)					
बी.सी. 2912 और 2913	रु. 50,000/- हर एक	सी. एस. कृष्णा अय्यर कमला कृष्णन	12.4.1998	सी. एस. कृष्णा अय्यर कमला कृष्णन	08.25.61 18.6.2002

सूची "ख"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	विस व्यक्ति के नाम जारी किया	ककया व्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दवेचर का नाम	प्रतिभूति आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
मुंबई (फोर्ट) सर्कल					
5 1/2% - भारत सरकार ऋण 1991					
बी.आई. 011723 एवं 011724	रु. 1000/- (कुल)	प्रमोद अरदेशिर बड़े, नरेश फिरोजशा मेहता, अरदेशिर नरवानजी विनोय, इराह अरदेशिर नरेशशाह, जाल हेरमुलजी अरदेशिर कमील, और हेमांग घूमजीशा नरवानला अथवा आदेशानुसार	(18/01/1989)	रघुनाथ माहदवान्न सभा	भारता सं. 20.04.2241/42, माहदवान्न के पिनक 214.03 के आदेश तथा केन्द्रीय कर्णालिय डायरी सं. 671 पिनक 2.5.03 के अनुसार
भायखला, मुंबई सर्कल					
9% राहत पत्र 1987					
(बी.पी.ए.) बी.सी. 7162	रु. 5,000/-	प्रेमी सापूतजी भावनगरी (मृत) रोशनी बिम्बी भावनगरी	03/03/1988	प्रेमी सापूतजी भावनगरी (मृत) रोशनी बिम्बी भावनगरी	06.25.58 23.3.2002


 (बी. एस. राजवरे)
 कृते मुख्य महा प्रबंधक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
(प्रधान कार्यालय : बड़ौदा)

एचओ/एचआरएम/95/378ए

मुंबई, 15.05.2003

मार्च 15, 2003 को भारत के गजट में प्रकाशित अधिसूचना के पृष्ठ 3156 एवं 3190 का शुद्धि पत्र

पृष्ठ संख्या 3156 पर,

- (1) बैंक ऑफ़ बड़ौदा, प्रधान कार्यालय, माण्डवी
बड़ौदा दिनांक 15 जनवरी 2003
को
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
प्रधान कार्यालय : बड़ौदा

मुंबई, दिनांक 15 जनवरी, 2003

पढ़ा जाए

- (2) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5/1980 का 40)
को
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5)
पढ़ा जाए.

- (3) 1. (1) ये विनियम बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2002 कहलाएंगे.

को

1. (1) ये विनियम बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2003 कहलाएंगे.

पढ़ा जाए.

पृष्ठ संख्या 3190 पर,

निम्न पाद टिप्पणियां शामिल की जाए :

पाद टिप्पणी : भारत के राजपत्र (अति-विशेष) में दिनांक 29.05.1995 को मूल विनियमन को अधिसूचित किया गया है और बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 में तदनुरूप संशोधन निम्न विवरणानुसार प्रकाशित किए गए हैं :

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक
1.	शून्य	शून्य
2.	शून्य	शून्य



(गुरुदास चक्रवर्ती)

महाप्रबंधक (एचआरएम)

इंडियन बैंक, 66, राजाजी सली,

चेनै-600 001, दिनांक 15 जुलाई 2003

संख्या एसआरसी / 47 बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इंडियन बैंक का निदेशक मण्डल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम 1976 में आगे संशोधन करने के लिए, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -

- (i) इन विनियमों को इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2003 कहा जा सकेगा।
- (ii) ये विनियम राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. इंडियन बैंक के अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 में, विनियम 18 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः -

" 18 पुनरीक्षण :

इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी पुनरीक्षण प्राधिकारी, अंतिम आदेश की तारीख से छह महीनों के भीतर किसी भी समय स्वयं के प्रस्ताव अथवा अन्यथा, कथित आदेश का पुनरीक्षण कर सकते हैं, तब जबकि कोई नई सामग्री अथवा साक्ष्य जोकि पुनरीक्षण के तहत आदेश को पारित करते समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका था अथवा उपलब्ध नहीं था और जिसके कारण मामले की प्रकृति में परिवर्तन हो सकता है, उनकी सूचना में आया अथवा लाया गया है और उसपर ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जैसाकि वे उचित समझते हों।

वर्षाते कि :-

- (i) यदि कोई वर्धित दंड जोकि पुनरीक्षण प्राधिकारी लगाना चाहते हैं, विनियम 4 के खंड (एफ), (जी), (एच),(आई) अथवा (जे) में निर्दिष्ट प्रमुख दंड है और मामले में ऐसी जांच पहले नहीं की गई है जिसका प्रावधान विनियम 6 के तहत है तो पुनरीक्षण प्राधिकारी निदेश देंगे कि विनियम 6 के प्रावधानों के अनुरूप ऐसी जांच की जाए और उसके बाद जांच के विवरण पर विचार करके ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जैसाकि वे उचित समझते हों।
- (ii) यदि पुनरीक्षण प्राधिकारी दंड बढ़ाना चाहें परंतु विनियम 6 के प्रावधानों के अनुरूप एक जांच पहले ही कर ली गई है तो पुनरीक्षण प्राधिकारी, अधिकारी कर्मचारी को कारण बताओ सूचना देंगे कि बड़ा हुआ दंड उसे क्यों न दिया जाए और अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, यदि हो पर ध्यान देते हुए एक आदेश पारित कर सकते हैं।

अ. ज. २०२

अशोक कुमार धर
उप महा प्रबंधक (कार्मिक)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक : 16.7.2003

संख्या : यू-16/53/2003/पंजाब/चि.शा. 2: कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियाँ प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टरों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर कार्यग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तरी क्षेत्र) दिल्ली द्वारा निर्धारित क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :-

क्र.सं.	अंशकालिक चिकित्सा निर्देशियों के पदनाम	केन्द्रों के नाम
1.	सी.एम.ओ. रोपड़	असरोन, रेल मरिया, टोनसा, बन्ना, फतेहगढ़
2.	सी.एम.ओ. भटिंडा	भटिंडा एवं कॉटिजूअस एरिया
3.	सी.एम.ओ. मंसा	मंसा
4.	एस.एम.ओ. सिविल अस्पताल, बरनाला	बरनाला एवं कॉटिजूअस एरिया
5.	एस.एम.ओ. मंडी गोविंदगढ़	मंडी गोविंदगढ़, खन्ना, सरहन्द
6.	एस.एम.ओ. सिविल अस्पताल, मलेरकोटला	मलेरकोटला, अहमदगढ़, जीतवालकला, अकबरपुर
7.	सी.एम.ओ. संगरूर	संगरूर
8.	सी.एम.ओ. मोगा	मोगा, कोटकपूरा
9.	सी.एम.ओ. पटियाला	पटियाला, बहादुरगढ़, नाभा
10.	एस.एम.ओ. (प्रभारी), सिविल अस्पताल, पठानकोट	पठानकोट, दीना नगर, मुकेरियन
11.	एस.एम.ओ. क.रा.बी. अस्पताल, होशियारपुर	होशियारपुर, साहिला खुर्द
12.	एस.एम.ओ. क.रा.बी. अस्पताल, जालंधर	जालंधर, जगत जीत नगर, हमिरा
13.	एस.एम.ओ. (प्रभारी) क.रा.बी. अस्पताल फगवाड़ा	फगवाड़ा, फिलोर, गौरेया
14.	क.रा.बी. अस्पताल, राजपुरा	राजपुरा
15.	एस.एम.ओ. (प्रभारी), क.रा.बी.	मोहाली, खरड़, छपराछिरी, छानलोन

	अस्पताल, मोहाली	
16.	एम.एस.क.रा.बी.अस्पताल, (क.रा.बी. निगम द्वारा संचालित), लुधियाना	लुधियाना एवं कॉर्टिजूस एरिया (all the 4 Los)
17.	एम.एस.क.रा.बी.अस्पताल, क.रा.बी. निगम द्वारा संचालित), चंडीगढ़	चंडीगढ़, (डेरबसी बाखनपुर, लालरू) (L.O. Lalaru)

२५ ० सिंह

(डा. (श्रीमती) एस. सिंह)

चिकित्सा आयुक्त

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मुख्यालय - भविष्य निधि भवन

14, भीकाजी कामा प्लेस

नई दिल्ली-110066, दिनांक 16 जुलाई 2003

सं० सम्मेलन-5(9)/97/महा./27085

संख्या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 जिसका यहां पर योजना के रूप में उल्लेख किया गया है, पैराग्राफ 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ (1) के अनुसरण में तथा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सम्मेलन-5(9)/87/एमएच/870 दिनांक 17.02.1994 जोकि दिनांक 12.03.94 को भारत के राजपत्र के भाग-III, खण्ड - 4 में प्रकाशित हुई है, का अतिक्रमण करते हुए अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि एतेद्वारा महाराष्ट्र राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :-

क्र.सं.	नाम तथा पदनाम	अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) द्वारा नियुक्त
1.	प्रधान सचिव (श्रम) महाराष्ट्र सरकार, उद्योग एवं श्रम विभाग, मंत्रालय, मुम्बई - 400032	अध्यक्ष (पैरा 4(1) (क) के अंतर्गत)
2.	श्रमायुक्त, महाराष्ट्र सरकार, वाणिज्य केन्द्र, तारदेव, मुम्बई - 400034	सरकारी सदस्य (पैरा 4(1) (ख) के अंतर्गत)
3.	उप सचिव (श्रम मामलों से संबंधित) महाराष्ट्र सरकार, वित्त विभाग मंत्रालय, मुम्बई-400032	
4.	श्री एस.के. बुद्धिराजा प्रबंध निदेशक, नेशनल रेयॉन कारपोरेशन एवार्ट हाउस, होमी मोदी स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई - 400023	सदस्य (नियोक्ता पक्ष) (पैरा 4(1) (ग) के अंतर्गत)
5.	श्री अरूण जैन, संयुक्त-अध्यक्ष जैनिथ स्टील लिमिटेड (खोपोली, जिला रायगढ़), मोती महल, 195, चर्चगेट, रेकलेमेशन, मुम्बई 400020	
6.	श्री कृष्णा शिवराम ब्रिड(इंटक) 203 ए, सिल्वर इन्स अपार्टमेंट, हाती शंकर रोड, प्रभा देवी, मुम्बई - 400025	
7.	श्री सूर्यकान्त बगई (एच.एम.एस.) ए-28, विनीत नगर, मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट क्वार्टर्स, काला चौकी, मुम्बई -400033	सदस्य (कर्मचारी पक्ष) (पैरा 4(1)(घ) के अंतर्गत)

8.	श्री अविनाश कृष्ण लाल दलाल, 103, वैनगार्ड अपार्टमेंट्स, 61, वैस्ट क्लार्क रोड, महालक्ष्मी, मुम्बई - 400011	
9.	श्री सुरेन्द्र एम मर्दिया मर्दिया हाउस, 96, सी.पी. टैंक रोड, मुम्बई - 400 004	नियोक्ताओं के प्रतिनिधि (योजना के पैरा 4(1) के परन्तुक के अंतर्गत अतिरिक्त सदस्य)
10.	श्री विजय जी. कलानी, 2, वहेदना अपार्टमेंट्स, 75 हिल रोड, बांद्रा (वैस्ट) मुम्बई - 4000 50	
11.	श्री विश्वनाथ सतम (बी.एम.एस.) कनिष्ठ को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, 12/120, सहकार नगर नं० 1, चेबूर मुम्बई-400071	
12.	श्री श्याम देशमुख 25, रामकृष्ण नगर खगाला, नागपुर - 25(महाराष्ट्र)	कर्मचारियों के प्रतिनिधि (योजना के पैरा 4(1) के परन्तुक के अंतर्गत अतिरिक्त सदस्य)
13.	श्री रामशरण कनौजिया, 21/7, ऐम्प्रेस मिल क्वार्टर्स चाचा नेहरू बाल भवन के सामने, सुभाष रोड, नागपुर (महाराष्ट्र)	
14.	श्री राम तरनेजा, अध्यक्ष बॉम्बे स्कूल ऑफ विजनेस, गोटैजॉय बिल्डिंग, रामभाऊ सलगौवकर मार्ग, कफ परेड, मुम्बई - 400055	केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य (पैरा 4(1) (ड.) के अंतर्गत)

क्षेत्रीय आयुक्त, महाराष्ट्र क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय समिति के सचिव होंगे।

समिति के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सरकारी राजपत्र में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से 3 वर्ष का होगा परन्तु प्रत्येक सदस्य सरकारी राजपत्र में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति के अधिसूचित होने तक कार्य करता रहेगा।

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

30 अगस्त 2003
(अजय सिंह)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2003

नं० 13-सी.ए./परीक्षा/एन./2003: चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 22 के अनुसार दि काउंसिल ऑफ दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि व्यवसायिक शिक्षा-प्रथम, व्यवसायिक शिक्षा-द्वितीय और फाइनल की परीक्षाएं निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

व्यवसायिक शिक्षा-प्रथम परीक्षा: पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1988 के रेगुलेशन 25-बी (4) के अन्तर्गत जारी की गई है के अनुसार:-

6, 7, 10 और 11 नवम्बर, 2003 (प्रातः कालीन सत्र - 8 बजे से 11 बजे तक) भारतीय समयानुसार।

व्यवसायिक शिक्षा-द्वितीय परीक्षा: पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1988 के रेगुलेशन 28-बी (5) के अन्तर्गत जारी की गई है के अनुसार:-

ग्रुप-I : 1, 3 और 4 नवम्बर, 2003

ग्रुप-II : 5, 6 और 7 नवम्बर, 2003

(दोपहर का सत्र-12 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 30 मिनट तक) भारतीय समयानुसार।

फाइनल परीक्षा: पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1988 के रेगुलेशन 31(2) के अन्तर्गत जारी की गई है के अनुसार:-

ग्रुप-I : 1, 3, 4 और 5 नवम्बर, 2003

ग्रुप-II : 6, 7, 10 और 11 नवम्बर, 2003

(प्रातः कालीन सत्र-8 बजे से 11 बजे तक) भारतीय समयानुसार।

परीक्षा केन्द्र**(1) भारत में परीक्षा केन्द्र :-**

01. आगरा	02. अहमदाबाद	03. अजमेर	04. अकोला
05. इलाहाबाद	06. एलेप्पी	07. अलवर	08. अम्बाला
09. अमृतसर	10. आसनसोल	11. औरंगाबाद	12. बंगलौर
13. बरेली	14. बड़ौदा	15. बठिन्डा	16. बेलगाँव
17. भीलवाड़ा	18. भोपाल	19. भुवनेश्वर	20. बीकानेर
21. कालीकट	22. घण्डीगढ़	23. चेन्नई	24. कौयम्बटूर
25. कटक	26. देहरादून	27. दिल्ली/नई दिल्ली	28. धनबाद
29. दुर्ग	30. इरनाकुलम	31. फरीदाबाद	32. गुवाहाटी
33. गाजियाबाद	34. गोवा	35. गुड़गाँव	36. ग्वालियर
37. हिसार	38. हुबली	39. हैदराबाद	40. इन्दौर
41. जबलपुर	42. जयपुर	43. जलंधर	44. जलगाँव
45. जम्मू	46. जमशेदपुर	47. जोधपुर	48. कानपुर
49. कोल्हापुर	50. कोलकाता	51. कोटा	52. कोटायाम
53. लखनऊ	54. लुधियाना	55. मदुराई	56. मंगलौर
57. मथुरा	58. मेरठ	59. मुरादाबाद	60. मुम्बई
61. मुजफ्फरनगर	62. मैसूर	63. नागपुर	64. नासिक
65. नौएडा	66. पालघाट	67. पानीपत	68. पटियाला
69. पटना	70. पूना	71. रायपुर	72. राजकोट
73. रांची	74. रोहतक	75. सहारनपुर	76. सेलम
77. शिमला	78. सिलिगुड़ी	79. शोलापुर	80. सूरत
81. तिरुचिरापल्ली	82. त्रिचुर	83. त्रिवेन्द्रम	84. उदयपुर
85. उडूपी	86. उज्जैन	87. वाराणसी	88. विजयवाड़ा
89. विशाखापटनम	90. यमुनानगर		

(2) विदेशों में परीक्षा केन्द्र :-

01. दुबई (यू०ए०ई०)
02. काठमांडू (नेपाल)

परीक्षा शुल्क की राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा इन्स्टीट्यूट के "सचिव" के पक्ष में होनी चाहिए और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो।

परिषद अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षाकेन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिए रद्द कर सकती है।

उक्त परीक्षाओं के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्रों जो 5 अगस्त, 2003 से उपलब्ध होंगे, पर ही किया जाना चाहिए जो कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के संयुक्त सचिव (परीक्षा) के इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 50/- रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। आवेदन पत्र इन्स्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं और नकद भुगतान करने पर 5 अगस्त, 2003 से प्राप्त किये जा सकते हैं।

उपयुक्त प्रमाण पत्रों और शुल्क के साथ डिमांड ड्राफ्ट लगाकर आवेदन पत्र इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह संयुक्त सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में 26-08-2003 तक पहुँच जाय। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के दिल्ली कार्यालय में 26-08-2003 के बाद 02-09-2003 तक 200/- रुपये विलम्ब शुल्क के साथ भी स्वीकार किये जायेंगे। 02-09-2003 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के कार्यालय नई दिल्ली में स्वयं भी आकर दिया जा सकता है, या इंस्टीट्यूट के विकेन्द्रित कार्यालयों मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई, कानपुर, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, जयपुर एवं पूना में 26-08-2003 तक जमा कराया जा सकता है।

इन नगरों में रहने वाले परीक्षार्थियों को इस सुविधा का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है।

विभिन्न परीक्षाओं के लिए देश परीक्षा शुल्क इस प्रकार है:-

<u>व्यवसायिक शिक्षा-प्रथम परीक्षा</u>	-	शुल्क	700/- रुपये
---------------------------------------	---	-------	-------------

व्यवसायिक शिक्षा-द्वितीय परीक्षा

	-	शुल्क	
दोनों ग्रुपों के लिए			750/- रुपये
केवल एक ग्रुप के लिए			450/- रुपये

फाईनल परीक्षा


	-	शुल्क	
दोनों ग्रुपों के लिए			900/- रुपये
केवल एक ग्रुप के लिए			550/- रुपये

दुबई केन्द्र से बैठने वाले व्यवसायिक शिक्षा-प्रथम, व्यवसायिक शिक्षा-द्वितीय और फाईनल के परीक्षार्थियों को अमेरिकन डालर \$150/- या उसके सममूल्य की भारतीय मुद्रा में परीक्षा शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक पेपर या एक ग्रुप या दोनों ग्रुपों में बैठ रहे हों।

काठमांडू केन्द्र से बैठने वाले व्यवसायिक शिक्षा-प्रथम, व्यवसायिक शिक्षा-द्वितीय और फाईनल के परीक्षार्थियों को भारतीय रुपये 1200/- या उसके सममूल्य की विदेशी मुद्रा में परीक्षा शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक पेपर, एक ग्रुप या दोनों ग्रुपों में बैठ रहे हों।

हिन्दी में उत्तर लिखने की एच्छिकता

व्यवसायिक शिक्षा-प्रथम, व्यवसायिक शिक्षा-द्वितीय और फाईनल परीक्षाओं के उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम से भी देने की सुविधा दी जाती है। विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न सूचना पत्र उपलब्ध है।



(वी शोबादि)
संयुक्त सचिव (परीक्षा)

कानपुर-208001, दिनांक 15 जुलाई 2003

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

नं० 3 सी. सी. ए. (4)(2) 2002-2003 चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान विनियम सन् 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1(ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों के नाम निर्धारित शुल्क न जमा कराने के कारण दिनांक 1.10.2002 से हटा दिया गया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
1.	001678	मि० तनेजा चेतन दास 117/एच-2/145 पाण्डु नगर, कानपुर	8.	010427	मि० जैन वंदी चन्द 115, चेतक सेंटर एनएच 12/2, आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर-452001
2.	002197	मि० अग्रवाल चन्द मल अलूदा हाउस एस० एम० एस० हाइवे जयपुर-302003	9.	011468	मि० मघावत राजेन्द्र कुमार 18 मरोथिया बाजार, प्रथम व तृतीय तल इन्दौर-452002
3.	004313	मि० लोधा प्रसन्न मल मोहम्मद मल 10 गंगवल पार्क जयपुर-302006	10.	012941	मि० रोहित कुमार ए-34, सेक्टर 14 नोएडा-201301
4.	004565	मि० अस्थाना कृष्ण मोहन 11 पंचवटी अपार्टमेन्ट 8/60, आर्य नगर कानपुर-208002	11.	013085	मि० नहाता चन्दनमल बी-304, वृन्दावन अपार्टमेन्ट, डी-2, मीरा मार्ग, बनी पार्क जयपुर-302018
5.	006151	मि० योगेश कुमार मोहन नं० 8, के सामने फैजाबाद रोड सेन्ट्रल बैंक के पास, लखनऊ-226007	12.	013856	मि० नागपाल जीतेन्द्र कुमार ई-9 हरी लेन, मित्तल कालोनी बोलपुर
6.	008736	मि० शुक्ता श्री गोपाल 16/95, दि माल कानपुर-208001	13.	014093	मि० बलोदिया ओम प्रकाश 31/3 नेहरू नगर (डब्ल्यू) जिला दुर्ग भिलाई-490001
7.	009989	मि० श्रीवास्तव सत्येन्द्र 7ए/171, आजाद नगर कानपुर-208002	14.	015238	मि० सुब्रमनियन चन्द्रशेखरन मैनेजर एकाउन्ट्स, टाटा केमिकल लि०, जिला बदायु बबाला-202521

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
15.	017182	मि० प्रसाद राजेन्द्र ई-7/413, एच. आई. जी. अरेरा कालोनी, भोपाल-462016	23.	047908	मि० राज सलीम अकबर 58, न्यू सैफी नगर, मानिक बाग रोड, इन्दौर-462014
16.	017554	मि० वेद सन्तोष कुमार प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेन्ट इण्डिया लि०, पी.डी.आई.एल. भवन ए-14 सेक्टर। नोएडा-201301	24.	048285	मिसेज मैथली अमय आर्टे मार्डन एक्स रे क्लीनिक, एम.एल.बी. रोड, लश्कर, ग्वालियर-474009
17.	028311	मि० डेनियल पी. 5, दि माल जबलपुर-492001	25.	049464	मि० चोपड़ा सुनील 90, इन्दिरा मार्केट, शीलवाड़ा-311001
18.	034676	मि० महेश्वरी अशोक कुमार 20 जैन बोर्डिंग मार्ग, उदयपुर-313001	26.	054900	मि० खान्खेलवाल रामस्वरूप एरिया एकाउन्ट्स आफिसर सीसीएल एट पी० ओ० अर्गादा जिला हजारी बाग-829101
19.	041838	मि० मैस्करहेन्स माइकल विन्सेन्ट मार्फत औदरेय मैस्करहेन्स, लोजिका पो. बाक्स-28379 लोजिका दुबई	27.	056600	मि० कोठारी देव किशन यूनीकर्थ लिमिटेड 923-945, उर्ला ग्रोथ सेन्टर, इन्डस्ट्रियल एरिया, पी० ओ० सरोरा (सी.जी.), रायपुर 493221
20.	042813	मि० शाह राजू जयन्ती लाल, बिल्डिंग ई-29, प्रथम तल, नुपुर कुंज ई-3, अरेरा कालोनी, निकट शालीमार इनक्लेव भोपाल-462016	28.	056846	मि० माथुर जीतेन्द्र 11/25, जे. अनु किरन कालोनी, वाया कोटा, भामा नगर-323307
21.	043117	मि० सोमानी संजय कुमार बेलैर अपार्टमेन्ट्स, 'बी' ब्लॉक, फ्लैट नं० 4सी, चतुर्थ तल, महावीर टावर के बगल में, मेन रोड, रांची-834001	29.	058057	मि० गुप्ता दीपक कुमार 20 प्रथी विहार सुरेन्द्र नगर, लखनऊ.
22.	043487	मि० अश्वानू प्रकाश मार्फत रोहित मोहित स्मृति संस्थान, होटल क्लार्क के पीछे अमेर जयपुर	30.	058392	मि० महेश्वरी विशाल इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि०, राजस्थान स्टेट आफिस, राधास्वामी सत्संग भवन के पास आदर्श नगर, जयपुर-302004

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
31.	058829	मि० कुन्दू सम्बित तिमकेन इण्डिया लि०, एस. आर. एकाउण्ट्स आफिसर, बारा पी० ओ० : अग्रीको जमशेदपुर-831009	40.	070639	मि० कोठारी दिनय एफ. एफ.एच.-194, स्कीम नं० 54, इन्दौर-452010
32.	068791	मिस मुखर्जी परोमिता सीनियर आफिसर टाटा स्टील, कैपिटल एकाउण्ट्स ग्रुप, जनरल आफिस, द्वितीय खण्ड, जमशेदपुर-831001	41.	070672	मि० श्री नारायण अग्रवाल 117/के-73, तपस्या अपार्टमेन्ट, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005
33.	058885	मि० गुप्ता सम्राट एकाउण्ट्स आफिसर, इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि० बरोनी रिफायनरी, जिला बेगुसराय, बरोनी-851114	42.	070688	मि० मिश्रा अमर नाथ 702, जगत ट्रेड सेन्टर, फ्रेजर रोड, पटना-800001
34.	080008	मि० सिंह शंकर कुमार श्रीकृष्ण नगर कालोनी, नया चक इश्क चक, मिरजन्हत रोड, भागलपुर	43.	070719	मि० बल्दी राजा राम बल्दी विला, ए 3/2 वेद नगर, उज्जैन-456010
35.	070173	मि० नीरज कुमार 25/7, राम बाग रोड, भुजफरनगर-251001	44.	070739	मि० मैथ्यू नेल्सन 154, कैलाश नगर, राजनन्दगांव-494441
36.	070197	मि० सोधा रनवीर सिंह लखनी धर्मकोटा के पास, हवा स्पाक 22 गोडाउन, जयपुर-302008	45.	070740	मि० रिजवी अख्तर जमाल 20/153, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226018
37.	070407	मि० माधुर प्रेम बिहारी नूतन "साई दीप" बिल्डिंग 7/29, तिलक नगर कानपुर-208002	46.	070753	मि० जैन प्रमोद 24 माब्ले एन्व्यू (सूइट # 2107) ओएनएम 9ए 4 x 8 टोरन्टो, कनाडा
38.	070410	मि० राजेश्वर सरन आर-2/201 राज नगर गाजियाबाद-201002	47.	071003	मि० आर्य महेश चन्द 188-ए कृष्णा नगर, भरतपुर-321001
39.	070575	मि० अग्रवाल प्रदीप कुमार चेतन कामर्शियल काम्प्लेक्स, छिपी टैक, मेरठ-250001	48.	071035	मि० तिवारी हरेन्द्र कुमार डिप्टी चीफ फाइनेन्स मैनेजर नार्दन कोल फील्ड लि० पी० ओ० निगाही प्रोजेक्ट सिन्धी-486884

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
49.	071063	मि० भट्टटंड सुभाष मुरलीधर डायरेक्टर, अजमेर गैस एफ 58-59 इन्डस्ट्रियल एरिया, प्रभातपुरा, अजमेर-305002	58.	071584	मि० उमेश चन्द्र कंसल ऐरीडे, छिपी टैंक, मेरठ-250001
50.	071103	मि० डागर सत्यवीर सिंह सवाई जयसिंह हाईवे, एच-5, न्यू मार्केट, बनी पार्क जयपुर-302006	59.	071582	मि० श्रीवास्तव अरुण कुमार तृतीय तल, सूरजदीप काम्प्लेक्स 1 जाफलिंग रोड, लखनऊ-226001
51.	071118	मि० गुप्ता सुनील मार्फत फेरो कैन, 6 अमृत कौर रोड, बेहरादूम-248001	60.	071582	मि० पाण्डिया रमेश चन्द्र बी-1017, इन्दिरा नगर, लखनऊ
52.	071146	मि० अजमानी राजीव मार्फत असेट 113/27, स्वरूप नगर, कानपुर-206002	61.	071597	मि० गुप्ता दिनेश चन्द्र चीफ एकाउण्टेन्ट सरजू सहकारी चीनी मिल्स लि०, बेलरायां, लखीमपुर खीरी
53.	071250	मि० सेठ संजय 26/62, गंगा ट्रेडिंग बिल्डिंग बिराहना रोड, कानपुर-206001	62.	071678	मि० ओसवाल सुनील 3957 के जी बी का रास्ता, जोहारी बाजार, जयपुर-302003
54.	071277	मि० श्रीवास्तव सुरेश चन्द्र 5/552, विकास नगर, लखनऊ	63.	071711	मि० अग्रवाल अभय कुमार डी 124, सेक्टर 41, नोएडा-201303
55.	071449	मि० अग्रवाल राजीव कुमार चेतन कामर्शियल काम्प्लेक्स, छिपी टैंक, मेरठ-250001	64.	071714	मि० मंगल अशोक फिल्म कालोनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर
56.	071512	मि० चौधरी सुनील 771 साई कृपा कालोनी, बाम्बे हास्पिटल के सामने, इन्दौर	65.	071813	मि० बेरीवाल आनन्द कुमार खुशबू, सी-435, समता कालोनी, रायपुर-492009
57.	071527	मि० खण्डेलवाल राजेन्द्र कुमार सी/43-44, ग्रामि नगर, उज्जैन-466010	66.	071818	मि० भार्गव योगेश वाई भार्गव एण्ड एसोसिएट्स 67, यूनीवर्सिटी रोड, उज्जैन-466001

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
67.	071831	मि० जैन विनोद कुमार मार्फत अभिनव अनिल एण्ड एसोसिएट्स 75/8, हालसी रोड, कानपुर-208001	76.	072294	मि० दत्ता प्रवीण कुमार 421, मरखाम रोड, एपीटीटी # 709, स्कारबोरोघ, ओ एन एमआईजे 3ई2, टोरण्टो, कनाडा
68.	071891	मि० बाजपेयी शिशिर एम-8, बादशाह बाग, फतमन रोड, वाराणसी-221002	77.	072377	मि० विश्वजीत चौधरी सेल एमटी 1 पी० ओ० डोरान्डा, रांची-834002
69.	072025	मि० वर्मा दिनेश कुमार सत्य भवन, खैलन्द मार्केट, अजमेर	78.	072453	मि० साबू घनश्याम दास 16 कृष्णा नगर, 3 दुकान, धेर का बालाजी, जयपुर
70.	072029	मि० गुप्ता अनिल कुमार 75/8 हालसी रोड, कानपुर-208001	79.	072454	मि० प्रवीण कुमार गुड मण्डी, हनुमानगढ़ टाउन, श्रीगंगानगर-335001
71.	072069	मि० शम्बर हुसैन 1 बेल्लरपुरा, सैफिया कालेज के पीछे भोपाल-462001	80.	072512	मि० दत्ता अरुण कुमार मैकरावर्ट हास्पिटल बंगला, 14/112 सिविल लाइन्स, कानपुर-208001
72.	072082	मि० राम अबतार काशी सहकारी चीनी मिल्स लि० उरई, (यू० पी०), सन्त रविदास नगर	81.	072546	मि० जैन सुधीर कुमार 408 विक्रम टावर, सपना संगीता रोड, इन्दौर
73.	072232	मि० शाह शंकर प्रसाद 10 गीता काम्प्लेक्स, तृतीय तल, फास्ट बोरिंग केनाल रोड बोरिंग रोड क्रासिंग के निकट पटना-800001	82.	072583	मि० महेश्वरी सुनील कुमार झारकादास, एम 20, महेश कालोनी, टोक फाटक, जयपुर-302015
74.	072250	मि० रिहान अहमद 7 गुलजार कालोनी, न्यू बेरी रोड, लखनऊ-226001	83.	072603	मि० जैन सुधीर आर-1/61, राज नगर, गाजियाबाद-201001
75.	072270	मि० अग्रवाल केशव प्रसाद नारायण कुटीर, पार्क रोड, गोरखपुर-273008	84.	072614	मि० गर्ग अनिल अनिल कमल गर्ग एण्ड कम्पनी कुबेर पैलेस, 35, जौरा कम्पाउण्ड माई हास्पिटल के पीछे, इन्दौर-452001

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
85.	072631	मि० अग्रवाल कौशल कुमार 84, नारायण विहार, राम मोहन नगर के निकट सिकन्दरा बादला रोड, आगरा-282007	94.	073745	मि० चतुर्वेदी कृष्ण चन्द्र प्रथम तल शारदा मार्केट, छत्ता बाजार, मथुरा-281001
86.	072823	मि० स्वर्ण सिंह 104ए/378, रामबाग, कानपुर-208012	95.	073793	मि० शर्मा प्रदीप कुमार 162, सुपर बाजार, मुरादाबाद-244001
87.	072848	मि० जैन अजय कुमार अजय भवन, गणेश राम नगर, रायपुर-492001	96.	073929	मि० गुप्ता आलोक कुमार 113/34, स्वरूप नगर, कानपुर-208001
88.	072869	मि० गोयल दिनेश कुमार मार्फत गोयल दिनेश एण्ड एसोसिएट्स एस.पी.7-ए, भाभा मार्ग, तिलक नगर, जयपुर-302004	97.	073940	मि० चतुर्वेदी संजय एफएच-44, स्कीम नं० 54, इन्दौर-425010
89.	073015	मि० गर्ग शशी कुमार 1 आशीष विहार, आशीष नगर कनाडिया रोड, इन्दौर	98.	074006	मि० शर्मा अनिल कुमार फ्लैट नं० टी-2, मंजूषा अपार्टमेंट्स, बी-7, रामप्रस्थ, गाजियाबाद-201011
90.	073067	मि० जैन सौरभ एफ-137, सेक्टर 41, नोएडा-201303	99.	074068	मि० बिशारिया शैलेन्द्र कुमार निकट रेलवे क्रॉसिंग, ज्योति काम्प्लेक्स के सामने, गजरौला
91.	073117	मि० राकेश कुमार 28 ^थ /102 संजय प्लेस, आगरा-282002	100.	074088	मि० खुर्दिया रतन लाल 178 अश्वनी मार्ग हुमद हाउस, दिल्ली गेट, उदयपुर-313001
92.	073362	मि० शर्मा राजवर्धन राजवर्धन एण्ड कम्पनी 2/336 नामनाथर आगरा कैण्ट, आगरा-282001	101.	074186	मि० विश्वनाथ वी 315 मुरली भवन लखनऊ-226001
93.	073424	मि० खण्डेलवाल सुरेश चन्द्र मार्फत मोदी रबड़ लि० 173ए दिल्ली रोड, अजन्ता सिनेमा के सामने, मेरठ-250002	102.	074286	मि० पारिक रवीन्द्र 303 एवं 304 श्री गोपाल टावर अशोक मार्ग, अहिंसा सर्किल, सी स्कीम, जयपुर-302001
			103.	074333	मि० शर्मा नवीन कुमार पी० बाक्स नं० 26764, दुर्ग यूएई

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
104.	074341	मि० झनवार ओम प्रकाश मार्फत बालाजी प्रोडक्ट्स, राय का बाग, जसोल, जिला बरमेर, बलोतरा	111.	074580	मि० कोठारी जितेन्द्र जितेन्द्र कोठारी एण्ड कम्पनी, 45/58, नर्सिंगपुर, फोयसागर रोड, अजमेर-305001
105.	074405	मि० जैन दिनेश रूप कमल 13, बैंक कालोनी, नवरंग नगर, बेवार-305901	112.	074597	मि० अजय कुमार ज्वाइन्ट मैनेजर फूड कॉर्पोरेशन आफ इण्डिया 5-8, हबीबुल्लाह इस्टेट, हजरतगंज, लखनऊ-226001
106.	074427	मि० सचदेवा हरीश चन्द्र 306 तृतीय तल अस्थाना टावर, 117/एच-1/383 पाण्डु नगर, कानपुर-208005	113.	074639	मि० जंगिद राकेश कुमार 28 श्याम कालोनी, नया बंगला के निकट, श्रीराम मंदिर सितारारी के सामने, टंक रोड, पी० ओ० संगानेर एअरपोर्ट, जयपुर-302011
107.	074459	मि० मिश्रा जयन्त जे मिश्रा एण्ड कम्पनी, 305 शनिवार दर्पण बिल्डिंग 27 प्रेस कॉम्प्लेक्स ए बी रोड इन्दौर-452008	114.	074689	मि० गोयल मुकेश 18, न्यू मार्केट, ज्योनी मण्डी, आगरा-282004
108.	074490	मि० सन्दिप राकेश प्लॉट नं० 92, स्कीम नं० 5, मंगल विहार, अलवर-301001	115.	074699	मि० बापना विनोद कुमार 643 पुष्प विहार, किशनपोल बाजार, जयपुर-302001
109.	074520	मि० गुप्ता अशोक कुमार 234 श्री शंकर निकेतन, आदर्श नगर, अजमेर रोड बेवार-305901	116.	074700	मि० सिंह संजीव कुमार एकाउन्ट्स ऑफीसर (इन्टरनल ऑडिट) टाटा यादोगावा लि०, गमहारिया, सिंहभूम-832108
110.	074540	मि० अग्रवाल रवि कुमार 15/32 सारोन कन्न, शाहगंज, आगरा-282010	117.	074813	मि० अग्रवाल सोम प्रकाश 4-ए-6, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर-335001

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
118.	074889	मि० लोधा सुनील कुमार 21 महावीर नगर दर्शन टाकीज के सामने, जोरा रोड, रतलाम-457001	127.	075689	मि० शर्मा राजीव ए-57/1, अमानी ब्राह्म रोड, शास्त्री नगर, जयपुर
119.	074901	मिसेज ग्रोवर शर्मिला डी-24, सेक्टर 28, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा	128.	075714	मि० गुप्ता अतुल कुमार 21 विवेकानन्द बाई, बाल देवबाग, जबलपुर
120.	074957	मि० रघुवंशी संदीप बी 59 सेक्टर ए, महानगर, लखनऊ-226001	129.	075719	मि० जैन विनोद जी-246 शास्त्री नगर, जोधपुर-342003
121.	074997	मि० अतुल गोपति 18-प्रताप नगर II, टंक फाटक, जयपुर-302015	130.	075725	मि० अजमेरा नवीन एन सी सी अ के निकट, सिंधु नगर, भीलवाड़ा-311001
122.	075021	मि० भाटी प्रमोद कुमार पी० के० भाटी एण्ड कम्पनी, एसबी-118, शास्त्री नगर, गाजियाबाद-201002	131.	075747	मि० सेठी अंशुल 2 शिव मार्ग गवर्नर हाउस के पीछे सिविल लाइन्स, जयपुर-302006
123.	075135	मि० बंसल विकास 46 पुरानी मण्डी, फिरोजाबाद-283203	132.	075757	मि० मलपानी जलज कुमार असिस्टेन्ट मैनेजर (फाइनेन्स) कास्ट एण्ड बजट सेक्शन, हस्पात भवन, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो-827001
124.	075454	मि० मिश्रा बृजेन्द्र कुमार 117/पी-1/555, शिवपुरी, काकादेव, कानपुर	133.	075762	मि० शर्मा अनिल कुमार एम-8, न्यू मार्केट, एस जे एस हाइवे, जयपुर-302016
125.	075601	मि० मल्होत्रा रवि डिप्टी मैनेजर (टैक्सेशन) एचएमटी लि०, बिहार रोड, अजमेर-305003	134.	075810	मि० हिरानी मलिक मिनिंग कालेज के सामने, पाण्डेय नगर रोड, शहडोल-484001
126.	075677	मि० अग्रवाल अरुण कुमार एफ-69, सुभाष मार्ग, सी स्कीम, जयपुर-302001	135.	075852	मि० अग्रवाल महेन्द्र कुमार डी-63, सवाई माधव सिंह रोड, बनी पार्क, जयपुर-302016

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
136.	075911	मि० गोयल विकास 65 शिवपुरी, सिंडीकेट बैंक बिल्डिंग, मेरठ-250001	148.	076197	मि० पारिक मनोज कुमार प्लॉट नं० 30, कल्याण कालोनी, टंक फाटक, जयपुर-302015
137.	075914	मि० सुनील चन्द मार्फत ओम प्रकाश 84/191, मनुराज मार्ग, मानसरोवर, जयपुर-302020	147.	076208	मि० कावादकर विजय रेनुका सी-190 ए, शैलेन्द्र नगर, रायपुर-492001
138.	075920	मिसेज पुंमबेकर विनीता 104 रानी सती अपार्टमेन्ट, 60 अहिल्या माता कालोनी, चरक हास्पिटल के निकट, इन्दौर	148.	076221	मि० बिरला शशी इ-98 ए डी एम कालोनी, हिन्डाल्को, जिला-सोनभद्र, रेनूकूट-231217
139.	075944	मि० मण्डारी कमलेश 1/332, मालवीय नगर, जयपुर-302017	149.	076336	मि० रोहित हरी 11 एस्अले हाल देहरादून-248001
140.	075955	मि० गागर दीन बन्धु डी-255, शास्त्री नगर, जोधपुर	150.	076379	मि० वीरेन्द्र कुमार 240, ए माल गोदाम रोड, श्याम पार्क मेन साहिबाबाद, गाजियाबाद-201005
141.	075958	मि० देवेन्द्र कुमार मार्फत डा० बिनोद कुमार आर्य लाइन टैंक रोड, चाडरी, रांची-834001	151.	076431	मि० सिंह सन्तोष कुमार 620/63, डब्ल्यू ब्लॉक, तुलसी विहार, कानपुर
142.	075967	मि० झा ललित कुमार शास्त्री नगर, खादी भवन, रामाना, मुजफ्फरपुर-842002	152.	076477	मि० मनीष चन्दा शहीदगंज, सहारनपुर-247001
143.	076012	मि० शुक्ला अखिलेश 117/22, पृथम तल, सर्वोदय नगर, कानपुर-208006	153.	076479	मिस पूनम मार्फत श्री एस० के० सक्सेना बी-279, सेक्टर 28, नोएडा-201301
144.	076136	मिस मदन ज्योत्सना 1000/2, शास्त्री नगर, मेरठ-250001	154.	076512	मि० सिसौदिया योगेश कुमार बाजार नं० 2, भीलवाड़ा-311001
145.	076157	मि० अग्रवाल बजरंग लाल मार्फत द्वारका प्रसाद अग्रवाल, पी० ओ० चरवास, वाया- घिरावा, झुनझुनु-333001	155.	076595	मि० गुप्ता अशोक कुमार सी-2, अरिहन्त काम्प्लेक्स, नाहरगढ़ रोड, जयपुर-302001

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
156.	076656	मि० सुल्तानिया सन्दीप कुमार एल बी एस एन ए ए चारी इवली, मसूरी-278179	164	077143	मिस टण्डन रितु ए-230, सेक्टर 19, नोएडा-201301
157.	076685	मि० महेश्वरी विशाल 117 एच-1/244, पाण्डुनगर, कानपुर-208005	165.	077190	मि० फैज उद्दीन फैजी मार्फत बिन जाईद युप (एकाउन्ट्स डिवीजन) पो० बाक्स # 11082, दुबई-यू ए ई
158.	076719	मि० झानवर दिनेश चन्दर मार्फत श्री नन्द किशोर पोरवाल 354 सेक्टर 8 शिव कालोनी, हिरन मागरी, उदयपुर	166.	077226	मि० धानुका मनोज मार्फत राजेश सोदानी, 301, जीवन अपार्टमेन्ट, 28/2 रेसकोर्स रोड, इन्दौर-452001
159.	076828	मि० गुप्ता दीपक प्रेम चुनरिया बिल्डिंग, स्टेशन रोड, मुरादाबाद-244001	167.	077287	मि० अश्वत्थ विजय कुमार डी-55, ज्योति मार्ग, बापू नगर, जयपुर-302015
160.	076852	मि० खामेस्रा कपिल ई-58, एडीएम कालोनी, रेनूकूट, सोनमढ-231217	168.	077363	मि० खुराना नवीन एसएफ-8, एस.डी.कालेज कॉम्प्लेक्स सिविल हास्पिटल के निकट, जी टी रोड, गाजियाबाद-201009
161.	076852	मि० समतनी पवन प्लॉट नं० 314/5, सेक्टर 11, नोएडा	169.	077382	मि० काल दिनेश कुमार 115, द्वितीय तल, बापू बाजार, उदयपुर-313001
162.	077048	मि० गर्ग सुनील कुमार 1 आशीष विहार, आशीष नगर कनाडिया रोड, इन्दौर-452001	170.	077447	मि० मण्डारी राकेश 331-332, गनपति प्लाजा, एम.आई. रोड, जयपुर-302001
163.	077135	मि० बंसल मुकेश एसएफ-8, एस डी कालेज कॉम्प्लेक्स सिविल हास्पिटल के निकट, जी.टी. रोड, गाजियाबाद-201009	171.	077505	मि० टण्डन राजीव 31, मनोहर नगर, हरदोई रोड, राधा ग्राम, लखनऊ-228003

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
172.	077546	मि० मिरानी विकेश अमीरात बैंक, पो. बाक्स 2823, दुबई, यू.ए.ई.	180.	077838	मिस हाजरा श्रीरूपा बी-109, सेक्टर 27, नोएडा-201301
173.	077554	मि० दासपुत्रे मनीष 584, स्नेह नगर, इन्दौर-452001	181.	077912	मि० चौहान अमित डी-17, जमुना नगर, अजमेर रोड, सोडला, जयपुर-302001
174.	077645	मि० अग्रवाल हर्ष 403/1, गोर्धन निवास, ओ/एस सोजाती गेट, जोधपुर	182.	077916	मि० सेठी विनय 72 अल्कापुरी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अलवर-301001
175.	077719	मि० जाजोदिया नीलेश कुमार 4, मंगल कालोनी देवांस, गायत्री नगर, अजमेर रोड, जिला अजमेर, बेवार-305901	183.	077927	मि० अमित मोदानी इन्दूसिंध बैंक लि० 15 ए बी रोड, ओल्ड प्लासिया, इन्दौर-00
176.	077725	मि० शाह हिमांशु कुमार 80, जयन्ती कुंज, महेश हास्टल के पीछे, विपरीत बाम्बे मोटर्स चौपांसी रोड, जोधपुर	184.	077982	मिस निशा लोधा 497-98, नमक की मण्डी, किशानपोल बाजार, जयपुर-302001
177.	077747	मिस विजय लक्ष्मी शिव मंदिर मार्केट, गोलगढ़, गोरखपुर-273001	185.	078057	मि० बंसल देवेन्द्र मार्फत मेसर्स अनिल कमल गर्ग एण्ड कम्पनी, कुबेर पैलेस, प्रथम तल 35 जोरा कम्पाउण्ड, इन्दौर
178.	077763	मि० नरुका नरेन्द्र सिंह ए 13, आदर्श कालोनी, शान्ती नगर, जयपुर-302006	186.	078060	मि० अग्रवाल पंकज ए-280, सेक्टर 19, नोएडा-201301
179.	077813	मि० धर्मेरा कुमार प्रथम तल नालन्दा जूनियर अकादमी, खण्डकपुर, बिहारशरीफ, नालन्दा	187.	078091	मि० बंसल अतुल कुमार 71, बैंक कालोनी, नवरंग नगर, बेवार-305901

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
188	078112	मि० पोखरना राकेश पोखरना सदन, हत्थी भाटा, अजमेर	197	078305	मि० अमर सुन्दर मार्फत डा० बी० एस० सुन्दर ए 02 सन्नाम विहार फ्लैट्स, रीवर्स मीट रोड, सोनारी, जमशेदपुर-831011
189	078115	मि० मुखर्जी अमिताभ 113-डी, मल्होत्रा हाउस, कामर्शिल आटोमोबाइल्स के पीछे, नैपियर टाउन, जबलपुर	198	078372	मिस सेठी सोनिया 71/4, बाकरवाला, नेशविला रोड, देहरादून-248001
190	078156	मि० बोम्ब भरत द्वारकेश मार्केट, बस स्टैण्ड के निकट, कनकरोली-1	199	078413	मिस माटिया मनीषा 48 टैगोर रोड, कैन्ट, कानपुर-208001
191	078169	मि० विश्वास उत्तम कुमार फार्इनेन्स डिवीजन, मेसर्स टेल्को लि०, जमशेदपुर-831010	200	078422	मि० अग्रवाल नितिन मोहन आर-5/95, राज नगर, गाजियाबाद-201000
192	078173	मि० संजय कुमार विपरीत जिला सहकारी बैंक, स्टेशन रोड, बदायूं	201	078427	मि० अग्रवाल लक्ष्मी नारायण डी अग्रवाल एस बिल्डिंग माध्यम-4, वार्ड-32, निर्मल नगर, बालाघाट
193	078209	मि० अग्रवाल मनीष तृतीय तल, सूरजदीप काम्प्लेक्स, लखनऊ	202	078432	मि० मुनीष कुमार मित्तल मार्फत अतुल कुमार गोयल ए-72, अशोक नगर, गाजियाबाद
194	078259	मि० राजन प्रनामी 1/5 सिन्धी कालोनी, रेलवे रोड, फर्रुखाबाद-208625	203	078486	मि० श्रीवास्तव रवि कुमार 1 शिव चरन लाल रोड, इलाहाबाद-211003
195	078272	मि० भटनागर प्रितेश 72/2 गोविन्द गढ़ देहरादून-248001	204	078484	मिस शुक्ला जाग्रति म० सं० 143, आनन्द नगर, रायपुर-492001
196	078275	मि० कुलवन्त सिंह फ्लैट नं० 1, बी-85, नानक अपार्टमेंट, कस्तूरबा नगर, भोपाल-462023	205	078514	मि० पोद्दार नरेष कुमार इण्डियन आयल नगर, साइट-11 डी-40, सेक्टर 55, नोएडा-201301

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
206.	078516	मि० अग्रवाल संजय एफ एण्ड ए ओ० (एफ एण्ड ए) इन्टरनल आडिट ओएनजीसी लि०, तेलमवन, देहरादून-248003	214.	078715	मि० पंजाबी किशन लाल इन्द्रा कालोनी, नीम का थाना, सिकार-332713
207.	078555	मि० प्रकाश चन्द 8/260 मालवीय नगर, जयपुर-302017	215.	078732	मि० बाजपेयी जीतेन्द्र नाथ 22/105, फील खाना, कानपुर-208001
208.	078587	मि० गाडिया अजय कुमार मार्फत श्री संजय कुमार गाडिया, 5 बी 7, गांधी नगर, जयपुर	216.	078759	मि० मो० नावेद 146/1, शकूर नगर, गली नं० 6, मेरठ
209.	078648	मिसेज पाठक मीनक्षी मनिशंकर 133/3 मंगल पाण्डेय नगर, यूनीवर्सिटी रोड, मेरठ	217.	078779	मि० पोरवाल केशव 227/2, शास्त्री नगर, कानपुर-208005
210.	078670	मि० महेश्वरी प्रदीप 42ए, 40 जवाहर नगर, जयपुर-302004	218.	078798	मि० शंखला रनवीर सिंह पुत्र श्री एन. एस. संखला, प्लॉट नं० 29, तिलक नगर II, भदवसिया, जोधपुर-342001
211.	078672	मि० पाहवा बेरिन्दरपाल सिंह नेशनल बैंक आफ फुजारियाह, पो० बाक्स 2979 दुबई यूएई	219.	078801	मि० आहूजा बृजेश 42/52, ए टोटा का ताल, लोहा मण्डी, आगरा-282002
212.	078694	मि० व्यास कमल किशोर 104, 11वां पाल रोड, सरदारपुरा, जोधपुर-342003	220.	078882	मि० भारद्वाज अनुराग 303 राजकिशोर अपार्टमेन्ट, कवि रमन पथ, बोर्डिंग रोड, पटना-800001
213.	078711	मि० पारिक सुनील कुमार प्रथम तल, कमल बिल्डिंग, 4, कमल का कुआं भूपालगंज, भीलवाड़ा-311001	221.	079017	मि० वेंकटा शरद कुमार मार्फत ए.के. वेंकटा एण्ड कं० सी.ए. सज्जन विला, एस. सी. रोड, जयपुर

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
222.	079103	मि० चोपरा राजेश 16, मोहनपुरा, जोधपुर-342001	231.	079516	मि० चोपड़ा सुर्य प्रकाश बी-71, वीर दुर्गादास नगर, पाली मारवार-306401
223.	079197	मि० जैन अनिल कुमार 214 गायत्री नगर, दुर्गापुरा जयपुर	232.	079550	मि० रंगनेकर अमूल 93-ई, राजेन्द्र नगर इन्दौर-452012
224.	079201	मि० बैजल सन्दीप खाटके का बादा नया बाजार लश्कर, ग्वालियर	233.	079635	मि० जैन संजय पी एन 111, पश्वनाथ नगर, विपरीत एअर पोर्ट, संगनेर, जयपुर-302011
225.	079272	मि० अग्रवाल संजय कुमार मेहता मोहल्ला बोरवार, नागौर-341502	234.	079652	मिस गुप्ता श्वेता 100 स्वराज्य पुरी मेरठ-250001
226.	079274	मि० गोयनका राहुल 55/57, काहू कोठी, कानपुर-208001	235.	079687	मि० सिंघल मयूर 6/345, कोठी केवल सहाय बेलनगंज, आगरा-282004
227.	079343	मि० राजेश कुमार सी2-15, जय प्रभा काम्प्लेक्स, पी० ओ० कदमा, जमशेदपुर-831005	236.	079892	मि० मुस्तफा मेहरीम 22 जवाहर मार्ग सैफी होटल के सामने, इन्दौर-452014
228.	079398	मि० जैन राहुल कुमार 10/3, आकाशगंगा काम्प्लेक्स, सुपेला, मिताई-490023	237.	079924	मि० अहूजा हरदीप सिंह एम-46 राजीव नगर, शंकर नगर, रायपुर-492007
229.	079446	मि. रावत सुनील 36, लवकुश नगर, प्रथम टैंक फाटक, जयपुर--302015	238.	080766	मि. गुप्ता विजय कुमार चीफ मैनेजर, बैंक आफ बड़ौदा, जोनल आफिस विश्व शान्ती काम्प्लेक्स, दिल्ली रोड, मेरठ-250002
230.	079452	मि. मित्तल मनीष 115, अग्रवाल नगर, (न्यू लैण्ड) इन्दौर-462001	239.	080957	मि. महेश्वरी राम स्वरूप 135 रतनदीप काम्प्लेक्स प्रथम तल, सिविल लाइन्स, बरेली-245001

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
240.	081130	मि० सेठी विनय चीफ फाइनेन्सियल आफिसर डिस्कस डेन्टल आईएनसी., सीए 90232, कुलीवर सिटी यूएसए	249.	083479	मि० नवीन कुमार सिंह एफ-47, जल वायु विहार, सेक्टर 21, नोएडा-201303
241.	081147	मि० सुरेश कुमार एस-3, संजय काम्प्लेक्स, जयेन्द्र गंज, लखनऊ, गवालियर-474009	250.	083697	मि० महेन्द्र सिंह अग्रवाल एण्ड गौर, डी-211, रामप्रस्थ, गाजियाबाद-201011
242.	081390	मि० डाफ्रिया राकेश बी ए-1, मेघ बिल्डिंग, 13/2, एम जी रोड, इन्दौर-452001	251.	083755	मि० सुरेन्द्र कुमार फ्लैट नं० 800 सेक्टर 37, अरुण विहार, नोएडा-201303
243.	082371	मि० जैन नेम चन्द मार्फत शिवा आटोमोबाईल्स जजेश कोर्ट के निकट, नैनीताल रोड, हल्द्वानी	252.	084280	मि० अरोड़ा प्रेम चन्द एसडी-377, शास्त्री नगर, गाजियाबाद-201002
244.	082435	मि० दत्ता विजय कुमार देव्यानी इण्टरनेशनल प्रा० लि० एफ-34, सेक्टर-6, नोएडा	253.	085004	मि० सिंगला सुभाष चन्द 1201 एचआईजी फ्लैट्स, सेक्टर 18-ए, वसुन्धरा, गाजियाबाद
245.	082545	मि० ठाकुर मनमोहन मैनेजर (एफ), ए-8ए ई ओ सी नोएडा-201301	254.	085903	मि० रिजवी अहमद परवेज 288 चौहट्टा शाहूपीर गेट, मेरठ
246.	082572	मि० राय मुनीन्द्र नारायण ए-35, प्रथम तल, मौर्य लोक काम्प्लेक्स, पटना-800001	255.	086144	मि० शर्मा विनोद कुमार सी-85, सेक्टर 2, नोएडा-201301
247.	083126	मि० ग्रोवर राम प्रकाश 111-ई/153, नेहरू नगर, गाजियाबाद	256.	086198	मिस भाटिया पूनम विपरीत दिल्ली गेट, उदयपुर-313001
248.	083389	मि० रिशेश्वर प्रसाद 18 भगवती रोड, नार्दन टाउन, जमशेदपुर-831001	257.	086202	मि० अजमेरा ओम प्रकाश बी-8, सेक्टर 14, नोएडा

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
258.	086480	मि० महेश्वरी जीवन किशोर जी-34, सेक्टर 58, विपरीत एसआईसी कालोनी, (जिला गौतम बुद्ध नगर) नोएडा-201301	266.	087827	मि० शर्मा दिनेश 211-ए, आशियाना प्लाजा, बुद्ध मार्ग, पटना-800001
259.	086673	मि० अग्रवाल अरविन्द कुमार जेड-403-ए, सेक्टर-12, नोएडा-201301	267.	088018	मि० जैन दिनेश कुमार 7 दयानन्द कालोनी, विपरीत ग्लास फैक्ट्री, टंक रोड, जयपुर-302015
260.	086738	मि० सिंह बलविन्दर श्याम कुल, सी-5/245, सेक्टर 31 नोएडा-201301	268.	088145	मि० मित्तल योगेश कुमार 1201 एचआईजी फ्लेट्स सेक्टर 16 ए, वसुधरा साहिबाबाद इन्डिस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद-201001
261.	086919	मि० माथुर हर्ष एमडीआर (इण्डिया) प्रा० लि०, डी-5, एसडीएफ, नेप्ज, नोएडा-201305	269.	088557	मि० मनोज देबनाथ फाइनेन्सियल कन्ट्रोलर, थेटीडेन्ट, फतहाबाद रोड, टेनागडी स्कीम, आगरा-282001
262.	087064	मि० माथुर संजय ए-639, सेक्टर 19, नोएडा-201301	270.	088605	मि० मल्होत्रा राजेश 18ए/11 (एचआईजी) वसुधरा, जिला गाजियाबाद, साहिबाबाद-201005
263.	087334	मि० जैन राजेश कुमार मार्फत श्याम बाबू महेश्वरी पो० चन्दास, अलीगढ़-202132	271.	088750	मि० रस्तोगी संजीव कुमार 19/231, सत्यम ब्लॉक, सेक्टर 19, वसुधरा, गाजियाबाद
264.	087424	मि० अनिल कुमार अब्दिन हाउस, फ्रेशर रोड, पटना-800001	272.	088898	मिस शर्मा शिल्पा 117/438 पाण्डु नगर, कानपुर
265.	087687	मि० जैन राजेन्द्र कुमार 107, वर्षा बीप, 10/1, साठ्य दूकोगंज, इन्दौर	273.	088943	मि० कौशल किशोर पांचवा तल, साडे भवन, फ्रेशर रोड, पटना-800001

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
274.	089095	मि० बक्शी विक्रम 17/डी-425, वसुन्धरा, गाजियाबाद	283.	092188	मि० अग्रवाल उमेश ए 236, विद्युत नगर, अजमेर रोड, जयपुर
275.	089205	मि० खुराना मनदीप सिंह 35, आटा वाला मोहल्ला, फिरोजाबाद-283203	284.	092250	मिस जैन राखी कुमारी 133 बी जैन कालोनी, नेमी नगर, छाजलानी मार्ग, इन्दौर-462009
276.	090096	मि० महतो श्याम कुमार 304, जगत ट्रेड सेन्टर, फ़ेशर रोड, पटना-800001	285.	092513	मि० मिश्रा आलोक कुमार 207 बी ब्लाक डी-10, उदयगिरि-द्वितीय सेक्टर 34, नोएडा
277.	090061	मि० अरोड़ा संजीव बी 395, सेक्टर 19, नोएडा	286.	092782	मि० मन्सली विक्रान्त 5/95, भवानी सिंह गली क्रय विक्रय संघ के पीछे, जयपुर-302001
278.	091019	मि० शर्मा राजेश केबिन नं० 9, प्रथम तल, वाइन्डलस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 11-ए, रायपुर रोड (उत्तरांचल), देहरादून-248001	287.	092784	श्रीमती चन्दा पूनम शहीद गंज सहारनपुर-247001
279.	091358	मि० बापना संजय पी 39, मधुवन पश्चिम द्वितीय, किशन मार्ग टंक रोड, जयपुर	288.	093099	मि० भाटिया रमेश तृतीय एम 37, नेहरू नगर, गाजियाबाद-201001
280.	091522	मि० बिहारी मुकुट 58-ए/36-डी, विपरीत राशन कार्ड दफ्तर, ज्योति नगर कालोनी, अर्जुन नगर, आगरा-282001	289.	093286	मि० सदर्ना समीर 466 सेक्टर-28, नोएडा-201301
281.	091917	मि० सिंह मनमीत फ्लैट नं० 102, लकी प्लाजा 8 इन्द्रापुरी कालोनी, भवर कौन, ए बी रोड, इन्दौर-452001	290.	094582	मि० सुरेश सिंह 141 पार्क रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून
282.	092187	मि० अग्रवाल मनोज कुमार 113/8, नवयुग मार्केट, ग्राउण्ड फ्लोर, गाजियाबाद-201002	291.	094722	मि० सिंह उमेश प्रसाद मार्फत श्री एम के सिंह विपरीत एस बी आई, डोरान्डा, फो०आर० हिनू, रांची-834001

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
292.	095091	मि० शर्मा गोपाल सिंहोत हाउस, अम्ली रोड, चन्दपोल गेट के पास, सिकार-332001	301.	097345	मि० सिंह दिनेश 2/155, विशाल खण्ड, गोमती नगर, (उत्तर प्रदेश) लखनऊ
293.	098145	मिस रुपाली 423 सी सेक्टर बी 1 महानगर, लखनऊ-226006	302.	098467	मि० गुप्ता सन्दीप बी-9/82 ए उदयगिरि-2 सेक्टर-34 नोएडा-201807
294.	098431	मि० अग्रवाल आशीष बी-27ए (एचआईजी), सेक्टर-23, (यू पी०), गाजियाबाद-201002	303.	098547	मि० नरेश कुमार म० सं० 18-ए, गोकुल नगर, बोदला रोड, शाहगंज, आगरा-282010
295.	098438	मि० बृजेश कुमार मार्फत श्री नरेश कुमार गली धरमपुर, पंचवटी मन्दिर के निकट कैनाल रोड, (बाघपत) बरोत-110082	304.	102355	मिस अग्रवाल दीपाली द्वितीय-ए/67, नेहरू नगर, गाजियाबाद-201001
296.	098437	मि० रावत अजय 58 आवास विकास हल्द्वानी-263141	305.	104903	मि० रानका संजय एस तृतीय तल, नाझाखड़ा, उदयपुर-313001
297.	098439	मि० जैन देवेन्द्र कुमार सी-5/256, सेक्टर-31, नोएडा-201301	306.	105027	मि० जैन विकास कुमार 21, खरी पाठक रोड, विदिशा-464001
298.	098456	मि० झा शैलेन्द्र कुमार मार्फत श्री अनिल मिश्रा बी/26-ए, श्री कृष्णापुरी, पटना-800013	307.	105682	मि० बंसल विवेक 9 लालन गली, बेवर-305601
299.	097184	मि० दिवान्सु कुमार केशरिया सेक्टर, बैंक मोर, भनबाद-820001	308.	105859	मि० तपाड़िया सृजित कुमार स्विस ओवरसीज सिंगापुर ओवरसीज इएनटी प्रा० लि० पो० बॉक्स 60757 दुबई यूएई
300.	097197	मिस नरुला पुनीत 1704, सेक्टर 29, बम्बुपुर अपार्टमेन्ट, नोएडा-201301	309.	107249	मि० जैन अमित एम-15/5, संजय काम्प्लेक्स, टी. टी. नगर भोपाल-462003

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
310.	107636	मि० जगदीश प्रसाद अग्रवाल मार्फत रिलायन्स इन्फार्म लि० 310-311 लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर-302001	319.	400111	मि० पूर्ण प्रदीप कुमार 68 गोविन्दा टावर्स, संध्या सिनेमा के निकट, पुरुलिया रोड, रांची
311.	108776	मि० जैन मनीष कुमार पुत्र श्री जम्बू कुमार जैन, रावका गली, सरगी मोहल्ला, बेवर-305801	320.	400170	मि० अग्रवाल आशुतोष द्वितीय-ए/67, नेहरू नगर, गाजियाबाद-201001
312.	110111	मि० राकेश जैन कुटिया रोड, झारखण्ड, गिरदीह-815301	321.	400239	मि० जैन अमित चन्द्र देवी मन्दिर के निकट, पुराना बाजार, ललितपुर
313.	110448	मि० मोदी लाल जैन मार्फत श्रीमती शशी चौधरी 8, टेक्नोक्रेट सोसाइटी, मोती मायी स्कीम, यूआईटी के निकट, उदयपुर-313004	322.	400356	मि० तुलस्यान नवीन कुमार सोना पदटी, झारिया, धनबाद-828111
314.	110745	मि० राजेश गायानी 54-बी, प्रताप नगर, चित्तौड़गढ़	323.	400366	मिस सिंह ज्योति 2/228 विक्रम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
315.	205868	मि० प्रकाश चन्द्र म० सं० 403, सेक्टर नं० 4 हिरन मायी उदयपुर-313002	324.	400380	मिस शर्मा मीनाक्षी 10 बसन्त कालोनी, अशोक मार्ग, अजमेर-305001
316.	400040	मि० बुगालिया देवेन्द्र टी-28, रायसर प्लाजा, इन्दिरा नगर, जयपुर	325.	400399	मि० दाद प्रदीप कुमार 2एच/13, आर सी व्यास कालोनी, भीलवाड़ा
317.	400062	मिस सोनी शिवा प्रतिभा बिल्डिंग जवाहर चौक, दुर्ग (सी जी)	326.	400438	मि० गुप्ता जगदीश नारायण 836, सेटी भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर-302003
318.	400104	मि० गुप्ता श्याम लाल 61 नातनी भवन, इन्दिरा कालोनी, अलवर-301001	327.	400589	मिस सिंह प्रियंका बी-65, सेक्टर-जे, रेल नगर, जेल रोड, लखनऊ-226012

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता
328.	400692	मि० अमरेन्द्र कुमार मार्फत कृषि केन्द्र, सूर्या कॉम्प्लेक्स, ग्राउण्ड फ्लोर, जमाल रोड, पटना 800001			

अशोक (मि०)
(डा० अशोक ह ल्हिया)
सचिव

मुंबई-400 005, दिनांक 7 जुलाई 2003

(चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स)

3-डब्ल्यू.सी.ए. (4)/1/2002-2003 :- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा (1) (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों का नाम निर्धारित शुल्क न जमा कराने के कारण 01/10/2002 से हटा दिया है।

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	000872	श्री सन्तूक बर्जर जहांगीर मोदी मेन्शन, 49 मेरीवेदर रोड, मुम्बई-400039	
2.	001120	श्री कपाडिया लक्ष्मीदास खिमजी 167/171, चतुर्थ तल, डा० विगास गली, मुम्बई-400002	
3.	001235	श्री तमहाने कमलाकर विश्वनाथ के.वी. तमहाने एण्ड कम्पनी, बी-1, हेरेमस पार्क, सुरेन्द्र मंगलदास रोड, पुणे 411001	
4.	002311	श्री बक्शी कौशिकराय कांतीलाल 68 टैगोर पार्क, सुरेन्द्र मंगलदास रोड, अहमदाबाद 380015	
5.	002759	श्री वेद कैशवजी मोरारजी 304 राधा कुंज सोसायटी, 160 मनमाला टैंक रोड, महिम, मुम्बई-400016	
6.	002977	श्री जोग दत्तात्रय प्रहलाद 1/18 कमाना छठी मंजिल, गजानन पुरी वाड़ी निकट सिद्धी, विनायक टेम्पल प्रभादेवी, मुम्बई-400028	
7.	003088	श्री खोखनी नवनीत राय हीरालाल खोखनी एण्ड कंपनी, अमृत भुवन, खोखनी लेन, घाटकोपर (पूर्व), मुम्बई-400077	
8.	003664	श्री वाडिया दारा फ्रेमरोज चमन चेम्बर्स, पांचवी मंजिल, फर्स्ट मेरीन स्ट्रीट, मुम्बई-400020	
9.	003697	श्री मरचेन्ट गुलामअली इस्माइल 101 कल्पक बेला 31, पेरी क्रॉस रोड, बान्द्रा, (पश्चिम), मुम्बई-400050	
10.	004475	श्री वाडिया अदी रूस्तमजी 2205-289 डेक स्ट्रीट, वेंकोवर, बी. सी., बी 6वी 5 जेड 5, कनाडा	

11. 004985 श्री देसाई प्रियवदन
जे/4.गोल्डन पेब्रल्स, रोड नं. 2, सुन्दर नगर,
कलीना, मुम्बई-400098
12. 005047 श्री पटवर्धन पदमाकर
11 उमा निवास कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी,
राम मारुति रोड लेन नं. 1, नौपदा, थाने-400602
13. 005189 श्री शाह बाबूभाई,
बी-1 डिम्पल फ्लेट, धारनिधर देरासर के पीछे,
नवा विकास गृहा रोड पाल्दी, अहमदाबाद-380007
14. 005458 श्री गिदवानी इन्दरसेन
250 साउथ एण्ड एवेन्यू, हडसन व्यू (पूर्व), अपार्ट.
2ई, न्यू योर्क, - 10280, यूएसए
15. 005668 श्री शाह विनोद चंद्र
9 राजरशी पहली मंजिल पोदार रोड, सान्ताक्रूज
(पश्चिम), मुम्बई-400054
16. 005722 श्री मुनीम युसूफ अली मुल्ला
वाई एफ मुनीम एण्ड कं. 179ए अब्दुल रहमान
एसटी, दूसरी मंजिल, रूम नं. 25, मुम्बई-400003
17. 005831 श्री टी. वी. राममूर्ति
फ्लेट नं. 44, बिल्डिंग नं. 314ए1, सेक्टर 3, श्रष्टि
हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, पेनकर पाड़ा, मीरा रोड
(पूर्व), मीरा रोड, 401104.
18. 006874 श्री समतानी प्रेम मेघराज
36 मार्केट प्लेस, लन्दन एनडब्ल्यू 11 6 जे पी,
यूके
19. 007017 श्री काटे अशोक रामाचन्द्र
आश काटे सी. ए. कन्सलटेंट,
202-288 (पश्चिम), 8 एवेन्यू, वेन कावर बीसी
वी 5 वाई 1 एन 5, कनाडा
20. 007468 श्री रेशमदलाल प्रवीन
25, चाचा नगर सोसायटी, अदमर मुठी, अन्धेरी
(पश्चिम), मुम्बई-400058
21. 007592 श्री चन्द्रशेखरन एस
एजीक्यूटिव वाईस प्रेसीडेंट, रेलिस इण्डिया लि.,
21, डी.एस. मार्ग, मुम्बई-400001
22. 007664 श्री कृष्णन चक्रवर्ती
12 वसन्त बिल्डिंग, 392 भौदजी रोड, माटूंगा,
मुम्बई-400019
23. 007764 श्री जवेरी यशवन्तराय
7 नन्ददीप, विद्यानिधि मार्ग, रोड 10, जेवीपीडी
स्कीम, मुम्बई-400049

24. 008127 श्री बेन्दाले अशोक गनपतराय
जी-5/13, कलपतरू हस्तिसिंग सोसायटी, एरोली,
नवी मुम्बई-400705
25. 008178 श्री होसंग नवरोजी सन्तोक
केरावाला बिल्डिंग, 789 जामे जमशेद रोड,
तीसरी मंजिल, दादर पारसी कालोनी,
मुम्बई-400014
26. 008307 श्री वर्मा वीरेन्द्र लालचन्द
6 चेतना अपार्टमेंट्स, 134 फार्मलेण्ड, न्यू रामदास
पीठ, नागपुर-440010
27. 008503 श्री गांधी मरवन होरमसजी,
एम एच गांधी एण्ड कम्पनी, 121 बीच टावर्स पी.
बालू मार्ग, प्रभादेवी, मुम्बई-400025
28. 008647 श्री दोशी अनिल कुमार मनीलाल,
सी-1, नीलकंठ सदन, हिंगवाला लन, घाटकोपर
(पूर्व), मुम्बई-400077
29. 008794 श्री रघुनाथन के.
ए 406, शिवधाम, न्यू लिंक रोड,
मलाड (पूर्व), मुम्बई-400064
30. 009027 श्री ईरानी गस्टड जहांगीर,
मैनेजिंग डायरेक्टर, डोसियर इंटरनेशनल लि., जी.
पी. ओ. बॉक्स 1269, हॉग कॉंग
31. 009492 श्री पटेल नारायण भाई,
21, न्यू सूर्यनारायण सोसायटी, घाटलोदिया,
अहमदाबाद-380061
32. 009578 श्री गुतराती जतिन हरिलाल,
सी/ओ. जतिन एण्ड रेखा गुजराती, 27 वालडोर
ड्राइव, एजिनकोर्ट, ओनटेरियो, कनाडा एमआईवी
आईएल 2, कनाडा
33. 010236 श्री सोमन विश्वास मनोहर,
वी एम सोमन एण्ड कम्पनी, सी-11 सहाकार
निवास प्रो. एजेश रोड, दादर, मुम्बई-400028
34. 010292 श्री वैद्य दत्तात्रया
एबलसोफ्ट कम्प्यूटर्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सॉफ्टवेयर
कन्सल्टेंट्स, 9 तेमासेक बोलिवर्ड 04-02, सनटेक
टावर्स 2, सिंगापुर-00, सिंगापुर
35. 010460 श्री पूथी विनीत,
2582 नोर्थ मेरिडियन स्ट्रीट, औरेंज, सीए
92867-2158, यूएसए
36. 010768 श्री तावडिया केकी मानिकशाह,
वत्वा बिल्डिंग, केप्टन कालोनी, टारडियो,
मुम्बई-400034
37. 010948 श्री अन्जारिया जयवन्त
ए/6, ऋषिकेश अपार्टमेंट, एल.जी. हॉस्पिटल के
सामने, मनीनगर, अहमदाबाद
38. 011036 श्री सम्पत रविन्द्र
11/3 प्रभात, 76 भूलाभाई देसाई रोड,
मुम्बई-400026
39. 011189 श्री पालेजवाला फसेद
एस/ओ. ए.एच. पालेजवाला, 29/ए आनन्दवन
सोसायटी, सामा रोड, वडोदरा-390008
40. 011757 श्री बिजूर प्रकाश आनन्द
9/22 सरस्वती कालोनी, तलमिकी रोड, सान्ताक्रूज
(पूर्व), मुम्बई-400054
41. 011916 श्री रमन कुमार सेठ,
3/1125 एन. नवजीवन सोसायटी, लेमिंगटन रोड,
मुम्बई-400008
42. 012069 श्री पाटील शिवकुमार,
पीओ. बॉक्स 75754, डीएआर ईएस सलाम,
तन्जानिया
43. 012099 श्री बोहरा भंवर लाल
भंवरलाल एण्ड कंपनी, 620 चर्चगेट चेम्बर्स,
छठी मंजिल, 5 न्यू मेरिन लाइन्स, मुम्बई-400020
44. 012707 श्री मेहता मनमोहनदास
6/234, शिव निवास, सिओन, मुम्बई-400022
45. 012803 श्री जतनिया सनतकुमार
सनत जतनिया एण्ड कंपनी 199, 199 प्रिंसिप एसटी
2 एफएल रूम नं. 3, गोपाल भुवन,
मुम्बई-400002
46. 013386 श्री खत्री हस्तकान्त शिवजी
107/ए, मनीष पार्क, पम्प हाउस, अन्धेरी (पूर्व),
मुम्बई-400093
47. 013535 श्री बर्मन दीपक
डी डर्मन एण्ड एसोसिएट्स, 110, अविष्कार
कॉम्प्लेक्स, जी ब्लॉक, दूसरी मंजिल, ओल्ड पादरा
रोड, वडोदरा-390015
48. 014141 श्री कापडिया कमलकांत,
65 ब्रूकव्यू क्रिसेन्ट, सेन्ट जोन, एन. बी. ई 2 एम
4 के9, कनाडा
49. 014456 श्री दोशी विजय रामलाल
जी/3 मंगल आशिष, 4 रोड, सान्ताक्रूज (पूर्व),
मुम्बई-400055
50. 014655 श्री शर्मा जुगल किशोर
जे. बी. शर्मा एण्ड कं. 3/306, पवन बिल्डिंग,
एस. वी. रोड, मलाड (पश्चिम), मुम्बई-400064
51. 014998 श्री देसाई हितेशकुमार
9-ए नटराज सोसायटी निकट डिलक्स सोसायटी,
निजमपुरा पी. ओ. फतेहगंज, चेन्नई रोड,
बडौदा-390002
52. 015351 श्री मेहता यशवंतराय
विश्व मोहिनी 198/5442, पन्त नगर घाटकोपर
(पूर्व), मुम्बई-400075

53. 015404 श्री पोपट निरंजन वसनजी
32, हन्टर्स ग्राव, हरो, मिडलसेक्स, एचए3 9एए,
मिडलसेक्स, यूके
54. 016037 श्री दत्तानी नरेश रतनसी
दत्तानी एण्ड कं. 178-बी ओल्ड पोस्ट, ऑफिस
लेन मंगलदास मार्केट, बिल्डिंग नं. 3-सी,
मुम्बई-400002
55. 016329 श्री भण्डारी रघुवीर
701, मेरिडीयन अपार्टमेंट्स नं. 5, वीर देसाई रोड,
अन्धेरी (वेस्ट), मुम्बई-400058
56. 016401 श्री तमहाने सुनील कमलाकर
9/85 मनोरथ, वी जयप्रकाश नगर, गोरगांव (पूर्व),
मुम्बई-400063
57. 016604 श्री शाह जयेश कान्तिराल
4 अशोकवाडी अपार्टमेंट्स, निकट पंचवटी बस
स्टॉप, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006
58. 016801 श्री चन्द्रा देबाशीष
106 डब्ल्यू 2 स्ट्रीट, 1630, कन्सस सिटी, एमओ,
64105, यूएसए
59. 016983 श्री इतलिया सोराब रूस्तम
ब्रह्मा होरिजन, बिल्डिंग नं. ए/5 फ्लैट नं. 1/ए,
कोन्डवा रोड, कोन्डवा, पूने-411040
60. 017063 श्री मनकतला प्रदीप
पी. मनकतला एण्ड कंपनी, 6 फेयर फील्ड रोड
नं. 4, चर्चगेट निकट रिट्ज होटल, मुम्बई-400020
61. 017299 श्री कपूर चन्दर शेखर
ए/5, बीच हाउस, गांधी ग्राम रोड, जूह,
मुम्बई - 400049
62. 017668 श्री अरूणाचलम टेलीचैरी,
14, गोल्डन कोर्ट, 50 ऑन्थ रोड, पूणे 411003
63. 018184 श्री सत्यनारायनमूर्ति वी
एल 1/1 टाटा हाउसिंग सेन्टर, लालूभाई पार्क रोड,
अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400058
64. 018223 श्री उदय शंकर नेत्रवली
6/95 श्री परलेश्वर सोसायटी, शाहजी राजे मार्ग,
विले पार्ले (पूर्व), मुम्बई-400057
65. 019657 श्री प्रभाकर बीए
बैंक ऑफ बरोडा, 16 पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, न्यू
दिल्ली-110001
66. 020317 श्री सुब्रमन्यम एस
जेनरल मैनेजर, ओमान सिक्वोरिटीज़ पोर्टफोलियो
क., पीओ. बॉक्स 3591, रूवी 112, सल्तनत
ऑफ ओमान, अल्तनत ऑफ ओमान
67. 020588 श्री वी. श्रीनिवासन
एम डी एण्ड सीईओ., आईसीआईसीआई इन्फोटेक
लि., इन्टरनेशनल इन्फोटेक पार्क, टावर्स 5, लेवल
4, वशी स्टेशन कोम्प्लेक्स वशी, नवी मुम्बई
68. 021641 श्री मालीवाल जी. एल
सी-2-16, टेरेस व्यू, बोरिवली (पश्चिम),
मुम्बई-400103
69. 023464 श्री वर्धराजन जी
10, रफील कोर्ट, सोमरसेट स्ट्रीट, ब्रिस्टल, बीएस
1, 6एफएफ युनाइटेड किंगडम यूके
70. 025685 श्री एल रमेश
सिटी बैंक, तीसरी मंजिल, सिटी टावर, 61 डॉ.
सी.एस. राय रोड, पारेल, मुम्बई-400013
71. 025829 श्री कुमार वाई
ब्लैक डेकर, 701 ईस्ट जोषा रोड, ओन-303,
टोसन एमडी 21286, टोसन एमडी 21386 यूएसए
72. 026598 श्री केनचर्या गुप्ता सी ए
सीनियर डिप्टी मैनेजर (एफएक्स), वैश्य बैंक
लि., मिन्नल टावर्स, ए-विंग, 210, नारीमन पोइंट,
मुम्बई-400021
73. 027407 श्री मुरली एस
ए-8, साई धीरती, साईबाबा कोम्प्लेक्स, सीबा
रोड, गोरगांव (पूर्व), मुम्बई-400063
74. 027806 श्रीमति चन्द्रा राजशेखर
एम-ब्लॉक नं. 308, श्रीनंद नगर 3, वेजलपुर,
अहमदाबाद-380051
75. 029019 श्री श्याम सुन्दर सी
एनसीआर कांफरेंस (इण्डिया) प्रा. लि., चकला,
अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400093
76. 029812 श्री शिरवाडकर सुरेश पी
जेड 204 प्रजापति गार्डन, सेक्टर 5, न्यू पनवेल,
पनवेल-410206
77. 030135 श्री गोपालकृष्णन एच
211/सी, शारदा दर्शन, लिंक रोड, दहीसर (पूर्व),
मुम्बई-400068
78. 030153 श्री त्रिवेदी दीपक
19/217 परिश्रम अपार्टमेंट्स, निकट जय शेफाली
रॉ हाउसिस, पी.ओ. पोलीटेक्नीक,
अहमदाबाद-380015
79. 030261 श्री भण्डारकर नारायण
11-सी अश्विन प्लोट नं. 27/1, मार्व रोड, मलाड
(पश्चिम), मुम्बई-400064
80. 030735 श्री मेहता नरेन्द्र
12 महावीर कोटेज, 125 गरोडिया नगर, घाटकोपर
(पूर्व), मुम्बई-400077

81. 030748 श्री शाह अशोक विरेन्द्र
पाम कोर्ट ब्लॉक ए 14-13 जलन बेरहाला,
ब्रिकफील्ड्स, कौलालमपुर-50470
82. 030754 श्री अग्रवाल गिरधारीलाल,
गिरधारीलाल अग्रवाल एण्ड कं., 005/बी मोना
अपार्टमेंट भूतल, कस्तूरबा रोड,
मलाड (पश्चिम), मुम्बई-400064
83. 030836 श्री शाह कौशिक शान्तिलाल
डायरेक्टर इन्टरनल ऑडिट, ए1 हबतूर ग्रुप
एलएलसी, पीओ. बॉक्स 25444, दुबई, यूएई
84. 030932 श्री काशी नाथ चतुर्वेदी,
ए/104, शान्तिधाम, छत्रपति शिवाजी रोड
कांदीवली (पश्चिम), मुम्बई-400067
85. 031286 श्री पेसमलानी राम देवनदास
राम डी पेसमलानी एण्ड कं., 3/16/10, सेवक
गेस्ट हाउस बिल्डिंग, निकट टावर एस. टी. रोड,
सिद्धपुर (एन. जी.), सिद्धपुर-384151
86. 031301 श्री पारिख सुशील कान्तिलाल
100/104 डी जी. चेम्बर्स, नानिक मोटवानी
मार्ग, फोर्ट, मुम्बई-400023
87. 031367 श्री भट्ट कौशिक
18, सुहास, गुलमोहर, रोड नं. 12, जे. वी. पी.
डी. स्कीम, मुम्बई-400049
88. 031443 श्री पटेल रोहितन नारिमन
जी-11ए पहली मंजिल, गोदरेज बाग, नेपियन
सी रोड, मुम्बई-400036
89. 031832 श्री विजय कुमार जैन
वी.वी लाइब्रेरी बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, स्टेशन
रोड, जलगांव-425001
90. 032063 श्री शाह मुकुल कस्तुरचंद
बी/905 ट्वीन टावर्स, लोखण्डवाला काम्पलेक्स,
वरसोवा, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400053
91. 032179 श्री कापड़िया बिमल पिताम्बर
बिमल कापड़िया एण्ड कं., 6 मल्हाराव बाड़ी
दादी सेठ, एगियारी लेन कलबादेवी रोड,
मुम्बई-400002
92. 032233 श्री ठक्कर शंकरलाल
दूसरी मंजिल, आशा कोम्पलेक्स, नवरंगपुरा
पुलिस स्टेशन के पीछे, नवरंगपुरा,
अहमदाबाद-380009
93. 032390 श्री झवेरी अनिल कल्याणभाई
5, चितवन अपार्टमेंट्स, वसन्त कुंज, निकट
जैन नगर, पल्दी, अहमदाबाद-380007
94. 032483 श्री हुडका विठ्ठलभाई
सी/14 मनमोहन मार्केट, जामनगर-361001
95. 032552 श्री जिमी एदल पोस्टवाला
ए/5 दासवानी कोपरेटिव अपार्टमेंट्स, दूसरी
मंजिल, 4 बंगला रोड, वरसोवा, अन्धेरी
(पश्चिम), मुम्बई-400058
96. 032660 श्री शंकरन कुट्टी जगदीश
7/254, किंगजवे हाउस, सिसोन (पूर्व),
थाने-400601
97. 032710 श्री पाटुर गौरी शंकर
8बी 41 ब्रिन्दावन सोसायटी, थाने (पश्चिम),
थाने-400 601
98. 032859 श्री श्रीधरन राजगोपालन
फ्लैट नं. 4 गीता को-ओ. हाउसिंग सोसायटी,
रामबाग लेन नं. 4, कल्याण-641009
99. 033129 श्री नजमी अब्दुल हुसैन
एम/एस अब्दुल हुसैन नमजी ऑडिटिंग ऑफिस,
पी/बी/नं. 3818, डियेरा, दुबई
100. 033209 श्री मेहरा सुनिल कुमार
बी 709 धीरज गार्डन, पूनम नगर, ऑफ एम सी
रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400093
102. 033326 श्री कोठरी घिसुलाल एफ.
503/504 5वीं मंजिल, राजगिर, ओल्ड नगरदास
रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400059
103. 033920 श्री दलाल इन्द्रवदन
लैड निवास, तीसरी मंजिल, आरदेशर डेडी सेन्ट,
मुम्बई-400004
104. 033925 श्री गांधी अमल
30 शिवाली अपार्टमेंट्स, निकट एन. सी. सी.
ग्राउन्ड, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज,
अहमदाबाद-380006
105. 033949 श्री शाह जितेन्द्र रामलाल
101. कमला नगर, बी-5 विंग, पहली मंजिल,
एम. जी. रोड, कान्दीवली (पश्चिम),
मुम्बई-400061
106. 033975 श्री नायर वेंगुगोपाल बलन
एफको सोसायटी फ्लैट नं. 2 बिल्डिंग ए 2/2,
निकट शान्ति आश्रम, जीवन बीमा नगर,
बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई-400103
107. 033989 श्री मेहता दीपक कुमार
सी/ओ वूल वर्थस एलएलसी, पोस्ट बॉक्स नं.
28091, दुबई, यूएई
108. 034048 श्री सिकन्दर निजमासाहब
काजी एण्ड एसो, 1505 सी लक्ष्मीपुरी,
कोल्हापुर-416002

109. 034151 मिस दलाल पारूल प्रकाश
दलाल एण्ड कम्पनी, 12-ए, यूनीक हाउस, 25
एस. ए. ब्रेरवी रोड, मुम्बई-400001
110. 034418 श्री मलुस्ती राजीव गोविन्द
54, जूठीका, 22 स्लेटर रोड, मुम्बई-400007
111. 034560 श्री शिन्दे अभिजीत वासुदेव
7-8 उमेश भगत लंन, महिम, मुम्बई-400016
112. 034638 श्री नगडा मूलचन्द मंशी
215/216 कामेर बिल्डिंग, 38 कवास्जी पटेल
स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400023
113. 034743 श्री अय्यर कन्नन रामामूर्ति
ए-15/3 श्री राम नगर एस. बी. रोड, अन्धेरी
(पश्चिम), मुम्बई-400058
114. 034757 श्री गौतम शरदेन्दु
"आदित्य" फ्लेट 28, 501 रथ पीठ,
पूने-411011
115. 034813 श्री नेरूरकर सन्तराम
22 सी शिवप्रभा, वित्रो फार्मा के सामने, सेक्टर 1,
चारकोप विलेज रोड, कान्दीवली (पश्चिम),
मुम्बई-400067
116. 034896 श्री मनियार राजू प्रभूलाल
सी/ओ अतुल मनियार, फ्लेट नं. 508, के 52
योगी सागर, योगी नगर, बोरीवली (पश्चिम),
मुम्बई-400092
117. 035061 श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता
फ्लेट नं. 1805, चेलेंजियर 4, ठाकुर विलेज,
कान्दीवली (पूर्व), मुम्बई-400101
118. 035176 श्री ठाकुर राजेश्वर
25, शिरीन मेन्शन, कोल्सा क्रोस लेन,
मुम्बई-400003
119. 035249 श्री अग्रवाल योगेन्द्र कुमार
बी-16 जमुना दर्शन, बंगुर नगर,
गोरेगांव (पश्चिम), मुम्बई-400090
120. 035281 श्री हरी कुमार
18 ए बरनेट एवेन्यू, माउण्ट रोसकिल,
ओकलैण्ड, न्यूजीलैण्ड-00, न्यूजीलैण्ड
121. 035315 मिस पूर्णमा अशोक प्रभू
केनरा इलेक्ट्रीकल्स, 19/21, अम्बाला दोशी
मार्ग, फोर्ट, मुम्बई-400023
122. 035336 श्री जतकार मिलिन्द
सी/ओ एमआर आर. जी. जतकार गोआ
गवर्नमेण्ट, डायरेक्टर ऑफ इन्फोरमेशन हाउस,
नं. सी-4 एनआर एसएफएक्स. पोर्टएस पणजी,
पणजी, गोआ-403001
123. 035622 श्री शाह ललित बाबूलाल
4/52 शान्ति भुवन, 47, ओल्ड हनुमान लेन,
मुम्बई-400002
124. 035800 श्री दीलीप कुमार पोपटलाल
602 योगी टावर, एस. एस. अजमेरा स्कूल के
सामने, एकसर रोड, योगी नगर, बोरीवली
(पश्चिम), मुम्बई-400091
125. 035804 श्री बोरा विपुल कुमार
एफ/51, पार्श्वनाथ टावर्स, सुभाष
चौक-मनीनगर, अहमदाबाद-380052
126. 035877 श्री शाह जाग्रति जयन्तीलाल
1, अमेय फ्लेट्स, निकट रेड रोज रेस्टोरेंट,
बी/एच एच. एल. कॉलेज ऑफ कोमर्स,
नवरंगपुरा, अहमदाबाद-38009
127. 035969 श्री श्रोफ राजीव जयन्त
ए-1 कमडर अपार्टमेंट्स, गोखले रोड, साउथ
दादर, मुम्बई-400028
128. 035981 श्री राठौड़ जगदीश
रांचौड़ निवास, आगरा रोड, डिस्ट्री. थाने,
कल्याण-421301
129. 036067 श्री जोशी रामचन्द्र
आर. जी. जोशी एण्ड एसोसिएशन, 22 जयकर
स्मृति आरे रोड, गोंरगांव (पश्चिम),
मुम्बई-400062
130. 036172 श्री डॉक्टर मौहम्मदी
पी.ओ. बॉक्स 7414, दुबई, यूएई, यूएई
131. 036294 पाण्डेया दीपक
262 शेख मेनन सेन्ट्रल एम. जे. बिल्डिंग, पहली
मंजिल, मुम्बई-400002
132. 036308 श्री मुरलीधरन बी.
705, नीलकण्ठ दर्शन, रूनवाल नगर के आगे,
खोपट, थाने-400601
133. 036625 श्री एलेना नजमुद्दीन नूर
4/16 केनेपस अपार्टमेंट्स, बोट क्लब रोड,
पूने-411001
134. 036636 श्री चन्द्रशेखर जी.
ए2/203, ओक्सफोर्ड विलेज, वनोवर्ली,
पूने-411040
135. 036706 श्री दिक्षित अनिल अरविन्द
102 थानावाला अपार्टमेंट्स, विक्रम बुक डिपो
के सामने, खारकर अली, थाने-400601
136. 036764 श्री मेहता जितेन्द्र एस.
फ्लेट नं. 602 बिल्डिंग नं. 6, सी बीच टावर्स,
सेक्टर-16, पाम बीच रोड, नेरूल (पश्चिम),
नवी मुम्बई-400706
137. 036894 श्री नवाब जुजेर
फाइनेंशियल कन्ट्रोलर, टेक्नीकल ट्रेडिंग कं.
एलएलसी., पी.ओ. बॉक्स 1693 रूवी, पोस्टल
कोड, सल्तनत ऑफ ओमान

138. 037009 श्री बपत शशिकान्त
2 वासुदेव बिल्डिंग नं. 1, एसटी. फ्रांसिस
एजेवियर्स स्ट्रीट, ठाकुरद्वार, मुम्बई-400002
139. 037033 श्री शुक्ला धिरेन
सी 18 एक्वेस्ट, टारडियो, मेन रोड,
मुम्बई-400034
140. 037085 श्री पटेल फैयाज हुसैन अली
11, न्यू साकेत, 68 टेगोर रोड, सान्ताक्रूज
(पश्चिम), मुम्बई-400010
141. 037214 श्री अलमवादिया सुनील डब्ल्यू. लाल
11, रेनबो, दौनर बाग सोसायटी, निकट
टेलिकोम फेक्ट्री, दौनर, मुम्बई-400088
142. 037393 श्री परूजनवाला हरीशचन्द्र
एच.सी. परूजनवाला एण्ड कं., ऑफिस नं.
1209 आर, 12वीं मंजिल, नवजीवन सोसायटी,
बिल्डिंग नं. 3, लेमिंग्टन रोड, मुम्बई-400008
143. 037475 श्री सेठ अनिल कुमार
706 साकार-5, नटराज सिनेमा के पीछे, आश्रम
रोड, अहमदाबाद-380009
144. 037538 श्री मुछला अपूर्व
प्लोट नं. 291, ब्लॉक नं. 24, रोड नं. 4 जवाहर
नगर, गोरेगांव (पश्चिम), मुम्बई-400062
145. 037700 श्री सर्वया हेमन्तकुमार
702 रघुनाथ टावर, देवीदास लेन, बोरीवली
(पश्चिम), मुम्बई-400103
146. 037761 श्री मरू मधु सुदन
ए/503 भद्रलोक अपार्टमेन्ट्स, ओल्ड पादरा
रोड, वडोदरा-390015
147. 037774 श्री पुष्प अशोक शाह
समर्त कम्प्यूट्रिन्ट प्रा. लि., 111, मेकर चेम्बर्स,
पहली मंजिल, नारीमन पोइंट, मुम्बई-400021
148. 037786 मिस त्यागराजन
103 आशियाना, ऑफिस जे. पी. रोड, अन्धेरी
(पूर्व), मुम्बई-400054
149. 037883 श्री अफीनवाला मुकुन्द
बी-64 शिवम सोसायटी, निकट लालबाग
सीआर, मंजलपुर, वडोदरा-390011
150. 038303 श्री सुब्रमन्यम राजगोपाल
सी-5 ए-विंग, 02 दीपक कालोनी, शास्त्री नगर,
येरावाड़ा, पुणे-411006
151. 038675 श्री नायर गिरीश
सी/ओ नेशनल इन्वेस्टमेन्ट्स कं., पीओ.
25667, सफत, कुवैत-13117
152. 038814 श्री ठक्कर तुषार
502 पुष्पांजलि आशानगर, डब्ल्यू ई हाईवे,
कान्दीवली (पूर्व), मुम्बई-400101
153. 038821 मिस फर्नांडिस फ्रांसिस ओल्गा
नं. 3 बेप्टिस्ट भुवन सेंट जोन, बेप्टिस्ट रोड,
बान्द्रा, मुम्बई-400050
154. 038902 श्री सरफ राजेन्द्र वसन्त
फ्लैट नं. 202 मधुबन बी., पार्वती नगर,
सिन्हागढ़ रोड, पुणे-411030
155. 038935 श्री जुनेजा गिरीश श्रीराम
97/बी, गिरगांव रोड, कोर्नर ऑफ ब्राह्मण हॉल
लेन, मुम्बई-400004
156. 039057 श्री शाह संजय चंदलाल
ए/401, पंचम अपार्टमेंट नं. 1, हेमूकलानी रोड
नं. 2, कान्दीवली (पश्चिम), मुम्बई-400067
157. 039326 श्री फतकदावाला फखरुद्दीन
40 देवूड मंजिल, तीसरी मंजिल रूम नं. 15,
सुतर चौल सेन्ट, मुम्बई-400002
158. 039499 श्री पवाने मोहम्मद इस्माइल
स्वीफ्ट फ्रेट इंटरनेशनल, पोस्ट बॉक्स 50177,
दुबई, यू ए ई
159. 039535 श्री चन्द्रशेखरन एस.
सी/ओ एस.एस. अय्यर, 13/138 पूर्णिमा, कनाडा
हाई स्कूल के सामने, इन्दूलाल भूवा मार्ग,
वडाला, मुम्बई-400031
160. 039550 श्री देसाई भारत रमनिकभाई
405-बी महानन्दा बिल्डिंग, ऑफिस एल. टी.
रोड, बाभई नाका, टीपीएस. 3, बोरीवली
(पश्चिम), मुम्बई-400092
161. 039684 श्री शेटी सन्तोष देजू
912 पीरामल नगर, एस. वी. रोड, गोरेगांव
(पश्चिम), मुम्बई-400062
162. 039780 श्री शाह मुकेश हरीलाल
8 लोटेश्वर धम्म सेनिटोरियम लेन, चाटकोपर
(पश्चिम), मुम्बई-400086
163. 039830 श्री पटवर्धन मनोहर
3/51 डाईक बंगला, ब्राह्मणवाडी, कुर्ला,
मुम्बई-400070
164. 039843 श्री केन्दुरकर राम प्रभाकर
विश्राम टिकेकर रोड, धंतोली, नागपुर-440012
165. 040009 श्री जोशी विजय अनन्त
6 रश्मि सोसायटी सिंधद रोड, पार्वती पायथा,
पुणे-411030
166. 040182 श्री सुबुद्धी रंजन कुमार
सी/ओ एम/एस ए. एम. जैन एण्ड कम्पनी, 37
हमाम स्ट्रीट, हमाम हाउस के सामने,
मुम्बई-400023
167. 040265 श्री सुरेन्द्र यशवन्त
50 सुन्दर नोवास, सन्त नामदेव पीठ,
डोम्बीवली (पूर्व) 421201

168. 040288 श्री फोदा आजम नसीर
3501 ओकग्लेड, मिस्सिसोगा, ओन्तेरियो एल 5
एल सी. एल. 5 सी. आई एक्स 4, ओन्तेरियो,
कनाडा
169. 040294 श्री चारी वेंकट रघुनाथ
बी/17/18, अनन्त आनन्द अपार्टमेन्ट्स,
मालाबार हिल्स रोड, मुलुन्द कालोनी,
मुम्बई-400082
170. 040368 श्री पोरवल हिमांशु जीतमल
20/79 यशवन्त नगर, गोरेगांव (पश्चिम),
मुम्बई-400062
171. 040374 श्री राठी रवि कान्त
ए4/504 सिद्धार्थ नगर, भोर इन्डस्ट्रीज के सामने,
बोरीवली (पूर्व), मुम्बई-400066
172. 040609 मिस बीना सुचेत पधेय
सीटीबैंक एन. ए., असिस्टेंट वाईस प्रेसिडेंट,
83-84 सखर भवन, नारीमन पोइंट,
मुम्बई-400021
173. 040729 श्री पाटकर तुषार शान्तराम
103 राज टावर, होटल गुल्फाम के सामने,
रावलपाड़ा, डब्ल्यू एक्सप्रेस हाईवे, दहीसर
(पूर्व), मुम्बई-400068
174. 040894 श्री चौहान कीरित
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, पीओ. बॉक्स 999, दुबई,
यूएई
175. 040962 श्रीविजय वेंकटराम
कोमर्जबैंक, एजी., फ्री प्रेस हाउस, नारीमन
पोइंट, मुम्बई-400021
176. 040982 श्री सुब्रमन्यम वेंकटकृष्णन
15 विनिता, 444ए रोड 10, चेम्बूर,
मुम्बई-400071
177. 041030 मिस वैद्य रूचिरा विजय
11, हरी कृपा, 25, नाथ पाई नगर, निकट विद्या
भवन, घाटकोपर (पूर्व), मुम्बई-400077
178. 041245 मिस जाधव सुप्रिया दिनेश
4बी/56 सुदामा अपार्टमेन्ट्स, बोम्बे पूने रोड,
थाने-400605
179. 041508 मिस पण्डित मुग्धा
बलराज मार्ग, धानतोली, नागपुर-440012
180. 041542 मिस देसाई संगीता ईश्वरलाल
94 आरामनगर 2 वरसोवा रोड, अन्धेरी
(पश्चिम), मुम्बई-400061
181. 041699 मिस शबनम मौ. अमीन
505 सी ग्रीन रहेजा कॉम्प्लेक्स, 7 बंगला
वरसोवा रोड, मुम्बई-400061
182. 041879 श्री डिसूजा ओविन अरूण
पीओ. बॉक्स 40263, नैरोबी, ईस्टे अफ्रीका,
केन्या
183. 041987 श्री नडकरनी प्रणीती
48, प्रोक्टर रोड, ग्रान्ट रोड (पूर्व),
मुम्बई-400007
184. 042044 श्री जोशी विरेन्द्र महेन्द्र
फ्लेट नं. 1 फेयरफील्ड, सी विंग, ईसी-8
एवरशाईन सिटी, वसाई (पूर्व), वसाई-401202
185. 042089 श्री खण्डेलवाला सौराब पेसी
9 नागिन महल, 82 वीर नारीमन रोड,
मुम्बई-400020
186. 042090 श्री गोम्स सेवियो सेबेस्टीयन
गीतान्जली नं. 3, एस. वी रोड, बान्द्रा
(पश्चिम), मुम्बई-400050
187. 042118 श्री डिसूजा रे स्टेनिसलौस
सिटीबैंक एन. ए., क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट,
पीओ. बॉक्स 749, दुबई
188. 042122 श्री शाह चेतन रामनिकलाल
दीपा अपार्टमेन्ट्स, फ्लेट नं.7, मालविय रोड,
विले पार्ले (पूर्व), मुम्बई-400057
189. 042125 मिस हरजई लीना राकेश
सी/ओ राकेश कुमार हरजई, नोरसीया
सर्विसेस (एचकेजी) लि., 22/एफ, 9-डीईएस
बोयक्स रोड (पश्चिम), शेयंग वान,
होंगकॉंग-400069
190. 042178 श्री चौहान मनीष रंजीत
1285 जाफरीन लेन, एम. जी रोड, पूने-411001
191. 042186 मिस टेरेसा कोल्हो
1157 किप्लिंग एवेन्यू, टोरंटो ओन्तेरियो, एम9पी
3एम4, ओन्तेरियो- कनाडा
192. 042237 श्री अय्यर रवि पद्मनाभन
10 बी ग्लेनवूड ड्राइव, ओल्ड ब्रिज, एन. जे.
8857, यूएसए
193. 042267 श्री पटेल हिमांशु योगेश
सी/7 गंगा जमुना एल. टी. रोड, बोरीवली
(पश्चिम), मुम्बई-400092
194. 042280 श्री शाह विपिनचन्द्र
16 गिरीकन्द, पन्चमृत सोसायटी, विबहाग-2,
निकट टी.बी. हॉस्पिटल, गोत्री रोड,
वडोदरा-390021
195. 042314 श्री छाबड़ा गुरचरन सिंह
पी.ओ. बॉक्स 2923, दुबई
196. 042339 श्री शाह मनोज ननजी
5वीं मंजिल, सोवला चेम्बर्स, 40 क्वालिङ पटेल
सेंट, फोर्ट, मुम्बई-400001

197. 042350 श्री सदरुद्दीन अब्दुलकरीम
12/13, के. के. चेम्बर्स, 361/64 नाना पीठ,
पूने-411002
198. 042400 श्री पिन्टू राज फ्रेडरिक
605-20 पैस्ले बिल्डिंग (पश्चिम), मिसीसागा,
ओन्तोरियो, कनाडा एस 5 बी आई सी 8 कनाडा
199. 042402 श्री करानी आनन्द बालमोहन
पी. ओ. बॉक्स 18639, नैरोबी
200. 042418 मिस चौकसी दीपाली अजीतभाई
पी. ओ. बॉक्स 18639, नैरोबी
201. 042490 श्री दलाल हरीन पदमाकान्त
एच. दलाल एण्ड एसोसिएट्स, बी/2 वर्षा
कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि., 4 बंगला
लोखण्डवाला रोड, अन्धेरी (पश्चिम),
मुम्बई-400058
202. 042510 श्री बपत सतीश सदाशिव
सी-3-21 समृद्धि कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी,
गोखले रोड (दक्षिण), दादर, मुम्बई-400028
203. 042573 श्री डी. क्रूज वर्नन एडगर,
लिलोड विले, 17 वेस्ट एवेन्यू सान्ता क्रूज
(पश्चिम), मुम्बई-400054
204. 042585 श्री गुजर पंकज भगवानदास
110 इंडस्ट्री हाउस, मारवाडी एस्टेट, अन्धेरी
(पूर्व), मुम्बई-400062
205. 042938 श्री विरा खुशालचंद
3308 नेलवूड लेन, होमवूड,
इलीनोइस-360430, यूएसए
206. 043013 श्री वैद्य विपुल
बी/503 क्रिस्टल अपार्टमेंट्स, एम. जी. रोड,
धनुकर वाडी, कान्दीवली (पश्चिम),
मुम्बई-400067
207. 043195 श्री देहलीवाला सलील सुरेश
503, छठी मंजिल, कर्मश्रेष्ठ, निकट श्यामल,
3-बी सेटेलाई, अहमदाबाद-380015
208. 43208 श्री देशपाण्डे मदन
एम. डी. देशपाण्डे एण्ड कं., 14 मे फ्लो,
ईआर. फ्लोट नं. 3, ग्रीन फ्लोवर हाउसिंग
सोसायटी, अमरतन, गोरेगांव (पूर्व),
मुम्बई-400063
209. 43273 श्री ठाडनी रमेश अर्जन
फ्लेट नं. 3, दौलत बिल्डिंग, 31 डी. कोलाबा
रोड, कोलाबा, मुम्बई-400005
210. 043362 श्री अशोक कुमार दहयाभाई
टी/20, विक्रम चेम्बर्स, आश्रम रोड,
अहमदाबाद-380013
211. 043518 श्रीमति सीमा प्रकाश पोटदर
402/1, 402/2, 402ए, गुरुवार पीठ, पावर
टावर्स के सामने, एस पैलेस स्ट्रीट,
सतारा-415002
212. 043625 श्री शंकरनारायण श्रीराम
बी 504 ब्लू हेवन, रहेजा विहार, ऑफ चांदीवली,
पोवई, मुम्बई-400072
213. 043641 श्री नायक सुरेश सुब्रया
6/146, नूतन विला, गारडोआ नगर, घाटकोपर
(पूर्व), मुम्बई-400077
214. 043697 श्री चौधरी महावीर
402 फैज-ए-कुतबी, 375 नरसी नाथा एसटी.,
कथा बाजार, मुम्बई-400009
215. 043708 श्री शर्मा दीपक नरेन्द्र
शोप नं. 18, साई कला, सेक्टर 30, सांज्वा फ्लोट
22/23, संपदा रेलवे स्टेशन के सामने, नवी
मुम्बई-400705
216. 043733 श्री जैन अनिल कुमार
सेन्चुरी रेयोन कालोनी, फ्लेट नं. ए-2-9, डिस्ट्री.
थाने, शाहद-421103
217. 043804 श्री शाह अपूर्व अजीत
पहली मंजिल शिव कृपा, नरोली, वाया भिलाड,
यूटी ऑफ दादरा एण्ड नागर हवेली,
भिलाड-396106
218. 043927 श्री अरसीवाला मुस्तफा
38 सैफी जुबली स्ट्रीट, मोहन मंजिल, तीसरी
मंजिल, मुम्बई-400003
219. 043941 श्री गोखले प्रदीप श्रीपद
सी-80 शतदेव कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी,
आजाद स्ट्रीट, ऑफ एस. वी. रोड,
अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400058
220. 043983 मिस गुप्ता गीता गयाप्रसाद
239, शिवाजी नगर, एन. एम. जोशी मार्ग,
मुम्बई-400013
221. 044037 श्री राजे सचिन रमेश
175/4886 पंतनगर, घाटकोपर (पूर्व),
मुम्बई-400075
222. 044054 मिस भोट मेहरनज यन्दी
1/29 ए. एच. वाडिया बाग, पारेल टैंक रोड,
मुम्बई-400033.
223. 044056 श्री ~~मुस्तफा~~ अमोल जनार्दन
एट तीवाली वाडी, एस. टी. डिपो के सामने,
वसाई, वसाई-401201
224. 044063 मिस महालक्ष्मी राजन
ए/405 रेडवूड्स, वसन्त नगर, निकट स्वप्न
नगरी, ऑफ एल बी एस मार्ग, मलाड
(पश्चिम), मुम्बई-400080

225. 044084 श्री वर्मा राजेन्द्र कुमार
सी-2/11 सोलंकी विहार, पूणे-411048
226. 044132 श्री शाह संजय कुमार
संजय शाह एण्ड एसोसिएट्स, फ्लेट नं. 412,
चौथी मंजिल, एश कोर्ट बिल्डिंग, परमार पार्क,
वेनोरी, पूणे-411040
227. 044190 मिस जतकार अजित मिलिंद
बेनिन शेरेटन होटल, बी. पी. 1901 कोटोनो,
रिपब्लिक ऑफ बेनीन, पश्चिम अफ्रीका
228. 044195 मिस दाते वैशाखी सतीश
सी/ओ एम आर एस. कै. करान्दिकर, 1536
लक्ष्मी चेम्बर्स, सदाशिव पीठ, तिलक रोड,
पूणे-411030
229. 044303 श्री सुब्रमन्यमन बालकृष्णन
नलीनी-6 प्लोट 304, सिओन ट्रोम्बे बिल्डिंग,
चेम्बूर, मुम्बई-400071
230. 044349 श्री अयंगर श्रीराम गोपालन
603 वैभव छठी मंजिल, होली क्रोस एक्सटेंशन,
मुकुंद नगर, आई सी कालोनी, बोरीवली
(पश्चिम), मुम्बई-400103
231. 044363 श्री दिक्षित सुधीर मनोहर
बी-11 मनकामे पार्क एक्स रोड, विले पार्ले
(पूर्व), मुम्बई-400057
232. 044364 श्री पाटील दयाराम
प्लोट नं. 55, से. नं. 20 कृष्णा नगर, चिंचवड,
पूणे-411019
233. 044401 श्री शाह भारत कुमार
केशव कुंज, अद्यांश पोल, सुल्तानपुर,
वडोदरा-390001
234. 044538 श्री जैन गोकुल सुवालालजी
पीओ. बॉक्स नं. 2047, कोड 112, रूवी
मस्कट, सल्तनत ऑफ ओमान
235. 044545 श्री शर्मा जय प्रकाश
ए/8/506 रूनवाल प्लाजा, वरतक नगर,
थाने-400606
236. 044556 श्री मोदी मोनीष अरूण
93-सी, विदर्भ सम्राट सोसायटी, 2/10,
वल्लभभाई पटेल रोड, विले पार्ले (पश्चिम),
मुम्बई-400056
237. 044584 श्री लालपुरिया पवन कुमार
503-505 जे. एस. एस. रोड, चिरा बाजार,
मुम्बई-400002
238. 044639 श्री अय्यर मुरली प्रिया
54/1858 पुष्कराज, सुभाष नगर, गोविन्द रोड,
चेम्बूर, मुम्बई-400072
239. 044781 श्री बहेती ओंकारमल
सी/ओ गुलाबचंद आर. शर्मा, 61/721 वैशाली
फ्लेट्स, बापू नगर, अहमदाबाद-380024
240. 044839 श्री अदी केकी मोतफराम
6 तारदियो एयर कंडीशन मार्केट, 7वीं मंजिल
तारदियो, मुम्बई-400034
241. 044939 श्री शाह मेहल भूपेन्द्र
10 वन्दना, चौथा एन. एस. रोड, जूहू स्कीम,
विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400056
242. 044940 श्री शाह अल्पा मेहल
10 वन्दना, नोर्थ साउथ रोड नं. 4, जूहू स्कीम
अवले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400056
243. 045034 श्री राजेश कृष्णप्पा
50 पार्क व्यू, कूलूपवाडी रोड, निकट नेशनल
पार्क बोरीवली (पूर्व), मुम्बई-400066
244. 045057 श्री जेजो जोर्ज
बी 4 हवा हीरा कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी,
नाडियाडवाला कालोनी नं. 2, मलाड
(पश्चिम), मुम्बई-400064
245. 045083 श्री श्रीधर स्वामी
4, बसन्त गार्डन्स, अतुर पार्क के आगे, यू. एन.
पूरव मार्ग, चेम्बूर, मुम्बई-400071
246. 045142 श्री सुरेश श्रवण
ए-1103 गार्डनिया वसन्त वेली, फिल्मसिटि रोड,
मलाड (पूर्व), मुम्बई-400097
247. 045208 श्री अनुप मोहन जोहरी
201 बी, हेलीक्स, राज ट्रेड सेन्टर, सयाजीगंज,
वडोदरा-390005
248. 045227 श्री जयन गोविन्दन मेनन
सी-304 आईसीआईसीआई अपार्टमेन्ट्स,
केसर रोड, अम्बोली विलेज, अन्धेरी (पश्चिम),
मुम्बई-400058
249. 045229 श्री ओम प्रकाश इनानी
महीन्द्रा गुजराज ट्रेक्टर लि., निकट विश्वामित्र
रेलवे ओवरब्रिज, विश्वामित्र, वडोदरा-390011
250. 045260 श्री अजमेरा अनिल कुमार
बी/3 फ्लेट नं. 303 ग्रीन पार्क, चांगिद
कॉम्प्लेक्स के सामने, निकट गणेश प्रोविजन
स्टोर, मिरा रोड (पूर्व), मिरा रोड-401107
251. 045284 श्री सुगन्धी गणेश
पीओ. बॉक्स नं. 200, मस्कट 113,
सल्तनत ऑफ ओमान
252. 045298 श्री डंगरवाला उमेश कुमार
मन्सीधाम निकट अरविन्द आश्रम, डान्डिया
बाजार, वडोदरा-390001

253. 045320 श्री संगतानी कमल
शोप नं. 18, आनन्द सागर, प्लोट नं. 34, सेक्टर
17, वाशी, नवी मुम्बई
254. 045333 मिस अकीला कल्याणरमन
4/34 गीता बिल्डिंग, इण्डियन जिमखाना के
सामने, माटूंगा, मुम्बई-400019
255. 045380 श्री गोखले सचिन
सीडी/2 रक्षलेखा सोसायटी, गजेन्द्रनगर,
दत्तावाडी, पूने-411030
256. 045403 श्री ओजा हितेश महेन्द्रा
11/बी-4 एस. सी. इण्डिया कालोनी, एम. बी.
रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400069
257. 045419 श्री दासगुप्ता प्रताप
8 भावना, गौशाला रोड, मुलुंद (पश्चिम),
मुम्बई-400080
258. 045434 श्री उम्ल मोहित
हाउस नं. 1 पाम कोर्ट, 9 रोड अलमेडा पार्क,
बान्द्रा (पश्चिम), मुम्बई-400050
259. 045455 श्री नहार राकेश
601 डीए श्रद्धा कॉम्प्लेक्स, आशा नगर,
कान्दीवली (पूर्व), मुम्बई-400101
260. 045504 श्री परेरा क्लेटस फेलीक्स
डी/63 निर्वना कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी,
भागोजी कीर मार्ग, महीम, मुम्बई-400016
261. 045519 श्री शेटी जगन्नाथ
1222/11 जवाहर नगर, गोरेगांव (पश्चिम),
मुम्बई-400062
262. 045552 मिस भिवांडकर नमोता
ई-48 दीनदयाल नगर, मुलुंद (पूर्व),
नवघार रोड, मुम्बई-400081
263. 045591 श्री पारेख मिनरकुमार
403 सुमीत्रा अपार्टमेन्ट्स, बी/एच,
हाई टेक कम्प्यूटर्स, नेहरू पार्क, वस्त्रापुर,
अहमदाबाद-380015
264. 045619 श्री राजेश कुमार प्रहलाद
419-ई तीसरी मंजिल, जोशी वाडी,
कलबादेवी रोड, मुम्बई-400002
265. 045643 श्री सौम्य नवीन
डी-21 कोजीहोम, 251 पाली हिल रोड,
बान्द्रा(पश्चिम), मुम्बई-400050
266. 045661 श्री योगेश कुमार
पीओ. बॉक्स 10271, नैरोबी, केन्या
267. 045815 श्री गांधी अरूण अम्बालाल
प्लोट नं. 48, इन्दानी, वैकटेश नगर, जलना
रोड, औरंगाबाद
268. 045903 श्री पारसेकर सन्दीप विजय
सी/ओ एमआर. डी. बी. पेंडेकर, ए-12
चित्रकूट सीएचएस., निकट सीकेपी. हॉल,
गादकरी पथ, डोम्बोवली-421201
269. 045992 श्री भण्डारी अजय
13 सिगुल एंजेलोर सोसायटी, पेस्टोम सागर
चेम्बूर, मुम्बई-400089
270. 046137 श्री केलकर निवेदिता सतीश
4/68 जय विजय सोसायटी, सहर पी.ओ. विले
पार्ले (पूर्व), मुम्बई-400099
271. 046167 श्री फांसे राजेश श्रीपद
सी/5 भाटिया बिल्डिंग, दीलिप गुप्ता रोड,
महीम, मुम्बई-400016
272. 046196 श्री शर्मा राजेश ओमदत्त
सी-3/4, विभा कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि.,
31 रामचन्द्र लेन, मलाड (पश्चिम),
मुम्बई-400064
273. 046413 श्री वैद्य अमित राजेन्द्र
1 भव सागर ओल्ड नगरदास क्रोस रोड, अन्धेरी
(पूर्व), मुम्बई-400069
274. 046462 श्री फर्नांडिस यूलाजीयो
11, वाईटरोज, मेरी गेट, महीम,
मुम्बई-400016
275. 046511 श्री सोलापुरकर रोहन प्रमोद
ए/72 फ्लोरिडा अपार्टमेन्ट्स, माउण्ट मेरी रोड
बान्द्रा, मुम्बई-400050
276. 046642 श्री हर्षद अनरुद्ध
सी/ओ जकतदार ए/ड शाह, 27, पाटिल
आरकेड, 19 इरेनड घेन, ऑफ कार्वे रोड,
पूने-411004
277. 046659 श्री विश्वनाथ प्रसाद
2/93 अराधना, मुम्बई-400031
278. 046702 श्री वरागुर कृष्णमूर्ति
डिप्टी मैनेजर (एकाउन्ट), कृषक भारती
कोपरेटिव लि., पीओ. कृष्को नगर,
सूरत-394515
279. 046720 मिस संभुस अनिता रमाकांत
31, सनफ्लोवर, ओर्चिड्स सोसायटी, माजीवाडे,
धाने-400601
280. 046741 श्री गौरी मिलीन्द पटवर्धन
फ्लेट नं 305, इन्द्रापुरम कोपरेटिव हाउसिंग
सोसायटी, सर्वे नं. 38/2, मधुवन कालोनी, कार्वे
नगर, पूने-411052
281. 046912 श्री जेन राजेन्द्र कुमार
पीओ. बॉक्स 737, डार ईएस. सलाम,
तन्जानिया, ईस्ट अफ्रीका

282. 046962 श्री विरागी विनोद गिरिश
105, निर्माण इण्डिया एस्टेट, गार्डन व्यू होटल के
सामने, मलाड़ लिंक रोड, मलाड़ (पश्चिम),
मुम्बई-400064
283. 047076 श्री शाह मौलिक
3, गणेश शिव कृपा अपार्टमेंट्स, इच्छानाथ,
सुरत-395007
284. 047149 श्री गगरानी विनोद कुमार
सेक्टर-10, बी-2/404, शान्ति नगर, मीरा रोड
(पूर्व), मीरा रोड-401107
285. 047223 श्री जैन सन्तोष जयन्त
नं. 9, सविता, 16 रोड, चेम्बूर, मुम्बई-400071
286. 047293 श्री शाह निखिल जयन्त
4 अंकुर दूसरी मंजिल निकट टाउन हॉल,
एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006
287. 047303 श्री स्वरूप समीर
फ्लैट नं. सी-801, स्प्रिंग वैली, डॉक्टर हाउस के
सामने, पीरामल क्रोसिंग, पाल्दी,
अहमदाबाद-380004
288. 047308 मिस अय्यर लता
4/31 श्रद्धानन्द सीएचएसएल, वी. पी. रोड,
डोम्बोवली (पूर्व), डोम्बोवली-421201
289. 047370 श्री वैगास माइकल जोर्ज
सी-205 श्रीनाथ नगर, शिव वल्लभ रोड, दहीसर
(पूर्व), मुम्बई-400068
290. 047407 श्रीमति भाविनी राविन
19/93 खोसा निवास, सेकण्ड फ्लोर, स्कीम 6,
रोड नं. 10, भयोदजी क्रोस रोड, माटुंगा (सेन्ट्रल
रेलवे), मुम्बई-400019
291. 047431 श्री धूरू मिलिन्द दिलीप
फ्लैट नं. 9 उनमेश, सी एच एस भगत रोड,
महीम, मुम्बई-400016
292. 047477 श्री अग्रवाल राज कुमार
बी-26/1-20 महावीर नगर, दहानुकर वाड़ी,
कान्दीवली (पश्चिम), मुम्बई-400067
293. 047491 श्री अर्जुन एल, आर, रमन एल. एस.
203 योगी टावर, प्लॉट नं. 57/58, योगी नगर,
बोरीवली, मुम्बई-400091
294. 047512 श्रीमति चित्रा योगेश ग्रोवर
पी. ओ. बॉक्स 7409, कमपाला, यूगांडा,
यूगांडा, ईस्ट अफ्रीका
295. 047532 श्री मेहता महेन्द्र
12ए महावीर अपार्टमेंट्स, केप्स कोर्नर,
शालीमार होटल के पीछे, मुम्बई-400036
296. 047644 श्री चुनरा फिरोज बरकत अली
सी-33 404 सेक्टर 9, शान्ति नगर, मीरा रोड
(पूर्व), मीरा रोड-401107
297. 047748 श्री नालावडे संतोष अंकुश
डी, 212 सेक्टर 7, सनपड़ा, नवी
मुम्बई-400305
298. 047759 श्री शेषाद्री राघवन
5/89 चन्द्र, गोरोडिया नगर, घाटकोपर (पूर्व),
मुम्बई-400077
299. 047781 मिस दिप्ती मेहूल पाठक
डी2 सेक्रेड हर्ट टाउन सोसायटी, वानवाड़ी,
पूने-411040
300. 047875 श्री श्रीधर श्रीनिवासन
फाइनेंशियल ओपरेशन मैनेजर, ओसिस लिजिंग,
पीओ. बॉक्स नं. 28922, आबू धाबी, यूएई
301. 047889 श्री समर चन्द्रेश
ए 509 देवकी नगर, एक्सर रोड, बोरीवली
(पश्चिम), मुम्बई-400092
302. 047926 श्री नारायण स्वामी कन्नन
सी/ओ सीटीबैंक एन. ए, सीटीबिजनेस, 41
कन्नक बिल्डिंग, चौंगी लेन, कोलकाता
303. 047963 श्री कुट्टी अंगीपत राजीव
चेम्पाजन्ती कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी,
फ्लैट नं. 43, बिल्डिंग नं. 3, पी. एल. लोकण्ड
मार्ग, चेम्बूर, मुम्बई-400043
304. 048001 श्री खण्डवाला हबीब
599 ए सहेन्सी सुजान पार्क, रूम नं. 3 गुलमोहर
पार्क, रूम नं. 3 गुलमोहर ओरचिड्स, लल्ला
नगर, पूने-411040
305. 048005 श्री अग्रवाल महावीर कुमार
सी/ओ ब्राउन क्राफ्ट इंडस्ट्रीज लि., सिल्वर
लाईन, पहली मंजिल, जे. बी. नगर, एस. बी.
मार्ग, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400059
306. 048039 श्री राय रामनाथ देवदास
2/14 ईश्वर भवन, रानी सती मार्ग, मलाड़
(पूर्व), मुम्बई-400097
307. 048060 श्री पाठक मनोज अशोक
3061 एडविन एवेन्यू, आईई, फोर्ट ली,
एनजे. 07024, यूएसए
308. 048131 मिस कसाद मेहर एदल
1बी, 14 टाटा मिल्स कोपरेटिव सोसायटी,
एलिफिन्स्टोन रोड, पारेल, मुम्बई-400012
309. 048147 श्री मिस जैन सरिता
404 बी महावीर दर्शन, आउटसाइड पीरामल
मिल, लोअर पारेल, मुम्बई-400013
310. 048196 श्री जैन रजनीश इन्दरचन्द
12 बी बालडोटा भवन, पाँचवी मंजिल, 117
महर्षि कार्वे रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400020

311. 048197 मिस पांढकर श्यामल कमलाकर,
काशीनाथ सोसायटी, ब्लॉक -4 एडजेसेन्ट
घण्टाली टेम्पल, नौपदा, थाने-4000602
312. 048295 मिस नार्वेकर शैलेजा
12, जयदेव, प्रभात कालोनी, सांताक्रुज (पूर्व)
मुम्बई - 400055
313. 048461 श्री बीरा राघवन पी. आर
9, हेमनन्द अपार्टमेन्ट्स, प्लॉट नं० 1-2,
निकट गुलमोहर हॉल, पाण्डे लेआउट, खामला,
नागपुर - 440025
314. 048511 श्री राम चन्दानी सुनील
10, जीवन ज्योत सोसायटी, निकट अमन सिनेमा,
उल्हास नगर - 421003
315. 048543 मिस मोनिका प्रनव दलाल
14/ए गुडविल बिल्डिंग, मनमाला टैंक रोड,
महिम, मुम्बई - 400016
316. 048546 श्री पंजवानी दिनेश किशन
12/ए, शान्ति निकेतन, 7 बंग्लोस, अंधेरी पश्चिम
पुराना वरसोवा रोड, मुम्बई - 400061
317. 048580 श्री थाटे हरशद श्याम
बी/12, इंडियन होटल्स सोसायटी, एन दत्ता मार्ग,
4 बंग्लोस, अंधेरी पश्चिम मुम्बई - 400053
318. 048618 श्री जया राम जी शैदी
32, तृतीय मंजिल, 14/16, भण्डारी क्रॉस लेन,
जंजीकार स्ट्रीट, मांघवी, मुम्बई - 400003
319. 048642 श्री मलघानी राजेश
बी/302, जासमीन, पूनम काम्प्लेक्स, आशा नगर
कान्दीवली पूर्व, मुम्बई - 400066
320. 048665 मिस छाया दिलिप सुन्दरम
301, ओसियन व्यू, यूनियन पार्क, खाप,
मुम्बई - 400052
321. 048669 श्री कालरा योगेश
नित्यानन्द को-ओपरेटिव, एच एस जी सोसायटी,
बिल्डिंग नं० 4-बी, फ्लेट नं० 4, महल रोड
चैम्बर, मुम्बई - 400074
322. 048706 श्री नार्वेकर अविनाश
ऑरथर एंडरसन एण्ड कम्पनी, एस्प्रेस टॉवर,
पहली मंजिल, नारीमान पॉइन्ट, मुम्बई-400021
323. 048754 मिस रोडरिक्स रोमेने
4, हितन अपार्टमेन्ट्स, सेन्ट एनीस रोड,
शैरली, बान्द्रा, मुम्बई - 400050
324. 048759 श्री अग्रवाल नटवरलाल
ऑफिस नं० 5, पहली मंजिल, राउंड बिल्डिंग,
प्रिसिज स्ट्रीट, मुम्बई 400002
325. 048966 श्री आहुजा गोविन्द पीताम्बर
तीसरी मंजिल, भावती निवास, प्लॉट नं० 468,
14वाँ रोड, खार, मुम्बई - 400052
326. 048999 श्री जैन गणेश बृजलाल
ए-10, अलकनन्दा, सेक्टर 14, वाशी,
नवी मुम्बई - 400705
327. 049010 श्री मेहता अनिल बंसीधर
101, लिंक पैलेस, लिंकिंग रोड, सान्ताक्रुज,
मुम्बई - 400054
328. 049027 श्री मेनकर मनोज अनन्त
सुयोग, प्रथम मंजिल, प्लॉट नं० 90, क्रॉस रोड
नं० 9, श्रीकृष्णा नगर, बोरीवली, पूर्व
मुम्बई - 400066
329. 049087 श्री चाकोसाजी
1/9, रामदेव भवन, आर. आर. ठकुर मार्ग,
ठाकुर नगर, जोगेश्वरी ई, मुम्बई - 400060
330. 049090 श्री महेश्वरी रजनीश
बी-9, राज टॉवर, सिल्वर कोयन रेस्टोरेन्ट के
सामने, आई सी कॉलोनी, बोरीवली, पश्चिम
मुम्बई 400103
331. 049104 श्री परबसंजीव पाण्डु रंग
अमरतारू टी ए फ्लेट 15, ब्लॉक 3,4 न्यू नगरदास
क्रॉस रोड, अंधेरी पूर्व, मुम्बई - 400069
332. 049184 श्री मंत्री संजीव
302, ओडम एक्लेव, सेक्टर 7, प्लॉट नं० 97,
कॉपर खैरनैर, नवी मुम्बई - 400701
333. 049234 श्री शर्मा शिवांगिनी
सी/ओ एन एस मेडोरा, डी-3, स्टेयरिंग,
को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी ड्राइव के पीछे,
इन सिनेमा मेम नगर, अहमदाबाद 380052
334. 049270 श्री एन्वराइट जोसफ डी
302, एबेनेजर, 14 स्ट्रीट डोमनीक रोड,
बान्द्रा, मुम्बई - 400050
335. 049310 श्री मालपानी आलोक ओमप्रकाश
एफ/14, सोमगोकुल अपार्टमेन्ट्स, निकट: रामवाडी,
पी.ओ. चान्दलोडिया, अहमदाबाद-382481
336. 049345 श्री मोदी केरव कन्दर्प
54, "अजब" आर्ट्स, पांचवी मंजिल, 25 पीडर
रोड, मुम्बई - 400026
337. 049481 श्री दलाल प्रनव अरविन्द
14/ए, गुडविल बिल्डिंग, मलमाला टैंक रोड,
महिम, मुम्बई - 400016
338. 049549 श्री शाह यतिन चंपकलाल
102 दर्शन अपार्टमेन्ट्स, सोनी नी वाडी वे सामने,
सिम्पली, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई- 400092
339. 049572 श्री मराठे अजीत अरूण
11/बी, सिद्धिविनायक टॉवर ए विंग, वोल्ड्रास
स्वीचगियर के सामने, ऑफ ईस्टर एक्सप्रेस
हाई वे, थाने - 400601

- 340 049578 श्री सलियां राजेश
बी-2/154, आनन्द विहार, न्यू आनन्द नगर,
सान्ताकुज पूर्व, मुम्बई - 400055
- 341 049608 श्री नारायण रामालिंगम
हिन्दुस्तान लिबर लि., फ़ोजन प्रोडक्ट्स, प्लोट
नं. ए- 8,9, एमआईडीसी इन्डस्ट्रीयल एरिया,
मालेगांव, सिरर
- 342 049635 श्री प्रसाद नरहारी लेंक
लेंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, धुसवाडी,
ठाकुरद्वार, मुम्बई-400002
- 343 049670 श्रीमति लेंक मृन्मयी
लेंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, धुसवाडी,
ठाकुरद्वार, मुम्बई-400002
- 344 049755 श्री प्रभु अश्विन रामनाथ
4, आशीर्वाद बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, एल जे
कोस रोड 3, महीम, मुम्बई-400002
- 345 049772 मिस दलाल मिताली सुरेश
एम/एस आर्थर एन्डरसन, स्टाफ कन्सल्टेंट,
17वीं मंजिल एक्स्प्रेस टावर, मुम्बई-400021
- 346 049801 मिस अय्यर मृदुला कृष्ण
एफ1/2 महिन्द्रा नगर, मलाड (पूर्व),
मुम्बई-400097
- 347 049817 श्री मेहता भावेश
304 राजदीप कॉम्पलेक्स, गोपाल टावर्स के
सामने, स्टेशन रोड, मनीनगर, अहमदाबाद-8
- 348 049863 श्री घई आकाश राजिन्द्र
ए-8/51 ग्रीन फील्ड्स, महाकाली केव्स,
अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400093
- 349 049886 श्री हमीरवासिया दिनेश
सी-8-118 सेन्चुरी रेयोन कालोनी,
शाहद-421103
- 350 049892 श्री दास विक्रम
सी/ओ प्राइस वाटर हाउस, पीओ. बॉक्स
26403, मनामा, बाहरेन
- 351 049894 श्री मेहन राजेश महादेव
सी 401 सुमेया अपार्टमेंट्स, निकट सेन्ट
एंजीवियर्स लोयला, मेमनगर रोड,
अहमदाबाद-380052
- 352 049946 मिस जिवानी लैला अब्दुलअजीज
16, फिदाई सेन्टर, फिदाई बाग, अन्धेरी
(पश्चिम), मुम्बई-400058
- 353 049969 मिस प्रारटिस रोशनी थोमस
7, यशस्वी सीएचएस, जी. बी. रोड, चरई,
थाने-400601
- 354 051000 श्री पालचौधरी स्वप्न
पीओ. बॉक्स 242, सफत, कुवैत-13003
- 355 051049 श्री रतन लाल जैन
फ्लेट नं. 701 एण्ड 702, बिल्डिंग 1बी, ग्रीन
मिडोज, लोखण्डवाला कॉम्पलेक्स, अकुली
रोड, कान्दीवली (पूर्व), मुम्बई-400101
- 356 051096 श्री मोर सुनील कुमार
501 देवश्री अपार्टमेंट्स, 204 सीमेन्ट रोड,
धर्मपीठ एक्सटेंशन, नागपुर-440010
- 357 052048 श्री राजीव धरमानी
फ्लेट नं. बी/302 तीसरी मंजिल, मनीष गार्डन
कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, मनीष नगर, जे.
पी. रोड, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400058
- 358 052874 श्री दिलीप चक्रवर्ती
सी/ओ अन्तर् बालाजी लि., सेक्टर 2, प्लोट नं.
64, गांधीधाम (गुजराज)
- 359 053559 श्री प्रदीप कुमार गरोटिया
डी-204 तक्ष कॉम्पलेक्स, गोत्री मेन रोड,
वडोदरा-390007
- 360 053842 श्री सुरेन्द्र कुमार साहू
सी/ओ एस. के. साहू, 205 कन्वन गंगा, दत्तानी
पार्क, बोरीवली (पूर्व), मुम्बई-400066
- 361 053863 श्री मनोज कुमार सोनी
मैनेजर फाइनेंस कार्ड प्रोडक्ट, हॉगकॉग बैंक,
3/4 डॉ. डी. एन. रोड फोर्ट, मुम्बई-400023
- 362 054631 श्री गोयल बिरेन्द्र कुमार
पी-51 विवेकानंद नगर, तिलौह, हावड़ा,
हावड़ा-711204
- 363 055647 श्री शान्तनु घोष
हिन्दुस्तान लिबर लि., हिन्दुस्तान लिबर हाउस,
165/166 बेकवे रिक्लेमेशन, मुम्बई-400020
- 364 055713 श्री राज कृष्ण
ए 33 इन्द्रप्रस्थ फ्लोर्स, जेल रोड, निकट
दूधसागर डेयरी, स्टेट हाईवे, मेहसाना-384002
- 365 055967 श्री संजीव कुमार
सी/ओ टी आर चन्द्र एण्ड कं., 106 निर्माण
केन्द्र, डॉ. ई. मोसेस रोड, महालक्ष्मी,
मुम्बई-400018
- 366 055973 श्री श्रीनिवासन एन
फ्लेट नं. 101, इवेन्टाईड कोपरेटिव सोसायटी,
सी. डी. मार्ग, खारन्दा, खार (पश्चिम),
मुम्बई-400052
- 367 056161 श्री रवि नारायण मिश्रा
7वीं मंजिल, निर्माण बिल्डिंग, निर्माण पॉइंट,
मुम्बई-400021
- 368 056248 श्री अग्रवाल मनोज
एम/एस पीरामल इन्टरप्राइजेज लि.,
एडमिनेस्ट्रेटिव बिल्डिंग, मोरारजी मिल्स, डॉ.
अम्बेडकर रोड पारेल, मुम्बई-400012

- 369 056538 श्री अमिताव सुर
कोमसेट मेक्स लि., डी 222/24 टीटीसी
इन्डस्ट्रीयल एरिया, एमआईडीसी नेरूल, विलेज
शिरवाने, नवी मुम्बई-400706
- 370 057188 मिस जोसफ मारिया
फ्लेट 602 दीपाली अपार्टमेन्ट्स, सी विंग,
बिल्डिंग 2, यारी रोड, वरसोवा, अन्धेरी
(पश्चिम), मुम्बई-400067
- 371 057478 श्री बन्दीपाध्याय अर्जित
वीएसएनएल, एल. वी. एस. बी. काशीनाथ धू
मार्ग, प्रभादेवी, मुम्बई-400028
- 372 057520 श्री अन्जली परब
फ्लेट नं. 18 स्नेहा कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी,
अम्बेडकर नगर, वरली, मुम्बई-400018
- 373 057695 मिस खालिद रेशमा
असिस्टेंट फाइनैस मैनेजर (एफ एण्ड सी),
वोल्टास लिमिटेड, जे. एन. हरेडिया मार्ग,
बलार्ड एस्टेट, मुम्बई-400001
- 374 058058 श्री कुन्दु संदीप
असिस्टेंट मैनेजर (प्रोजेक्ट फाइनैस एण्ड रिसर्च
एण्ड डवलपमेंट), एल आईसी हाउसिंग फाइनैस
लिमिटेड बोम्बे लाईफ, दूसरी मंजिल 45/47,
वीर नारीमन रोड, मुम्बई
- 375 058549 श्री सुब्रमन्यम वी. शिवा
फ्लेट नं. 2 एमआईडीसी इन्डस्ट्रीयल एरिया,
टलोजा तालूका पारवेल, रैगड-410208
- 376 058639 श्री डिडवानिया सन्दीप
602-ए, ब्रूकहिल टावर, तीसरी क्रोस लेन,
लोखण्डवाला कॉम्प्लेक्स, अन्धेरी (पश्चिम),
मुम्बई-400058
- 377 058823 श्री भास्कर अभय चतुर्वेदी
मेनेजमेन्ट ऑडिट डिपार्टमेन्ट, द एसोसिएटिड
सिमेट कम्पनी लिमिटेड, सिमेट हाउस, 121,
महात्माजीकरवे रोड, मुम्बई - 400020
- 378 058979 श्री नेयर रणजीत
रौ हाउस, फ्लॉट नं. 81, सेक्टर 15, कोपरशरने,
नवी मुम्बई - 400709
- 379 059055 श्री शर्मा राजेश कुमार
सी/ओ हर्ष ए जोशी, एन-703, इन्द्रप्रस्थ टॉवर,
ड्राईव इन रोड, अहमदाबाद- 380054
- 380 059378 श्री बल्लुवा दीपक
डी/402, वृन्दावनम अपार्टमेन्ट्स, माडर्न कालोनी,
1094, शिवाजी नगर, (निकट-दीप बंगला चौक)
पुणे- 411016
- 381 059480 श्री मुखर्जी रघुवीर
सिटी बैंक एन ए, वर्ल्ड वाइड सेक्योरिटिज सर्विसेस
प्रथम मंजिल, राम नोड हाउस, 77 डा० ऐनीवेसेन्ट
वर्ली, मुम्बई
- 382 059705 श्री तिवरेवल कमलेश
एकाउन्ट्स एण्ड फाइनैस ऑफिसर, ओ.एन.
जी.सी. एकाउन्टेंट्स सेक्शन, जिला- खेड़ा पी ओ
कन्सारी, कम्बे खेड़ा - 388620
- 383 071363 श्री विजय कुमार गोयल
गोयल विजय एण्ड कम्पनी, डी-9/209, योगी
नगर, बोरीवली (पश्चिम) मुम्बई - 400091
- 384 072129 श्री विनय प्रकाश
फ्लेट नं. 7, अहिया अपार्टमेन्ट्स, 16वां रोड,
सान्ता क्रुज (पश्चिम) मुम्बई- 400054
- 385 073464 श्री मिश्रा आलोक
फ्लैट नं. 101, एच.डी.एफ.सी. हाउस,
डा० बी. वेन. शिरोडकर मार्ग, पारेल,
मुम्बई - 400012
- 386 073674 श्री दिनेश कुमार मंत्री,
ए/303, ग्रीनफिल्ड सोसायटी, ठाकूर काम्प्लेक्स,
कान्दीवली (पूर्व), मुम्बई- 400101
- 387 074884 श्री संजीव खंडेलवाल
13/13, अनामिका अपार्टमेन्ट्स, 10, गुलमोहर
क्रॉस रोड, जे.वी.पी.डी. स्कीम, अन्धेरी (पश्चिम)
मुम्बई - 400058
- 388 075664 श्री राजमल नाहर
ए 403 सोनी पार्क 1, चिक्कूवाडी, सिम्पोली
विलेज, बोरीवली (पश्चिम) मुम्बई - 400092
- 389 076374 श्री भारद्वाज दीपक
एस्सार स्टील लिमिटेड, एकाउन्ट्स डिपार्टमेन्ट,
एडीएम बिल्डिंग, हाजीरा, सूरत - 394270
- 390 076648 श्री सुराना दिलीप लक्ष्मी लाल
सी/ओ जैन एण्ड वैथ्या एसोसिएट्स, 110, लारेन्स
सेन्टर, निकट: के.टी. विज्ञान, जिला- थाने,
वसाई रोड-पश्चिम, वसाई - 401202
- 391 078301 श्री बाबू सिंह राजपुरोहित
सी/ओ पी.आर. पुरोहित, ऑफिस नं. 9, चामुंडा
हेरीटेज, कोलडुंगरी शार रोड, जीवन विकास
अस्पताल (अन्धेरी) के पीछे, मुम्बई
- 392 078380 श्री मेहता सौरभ
कमरा नं. 4, द्वितीय मंजिल, करीमजी हाउस,
111 एम जो रोड, फोर्ट, मुम्बई
- 393 078714 श्री अरविंद अग्रवाल
फास्कल लिमिटेड, छठी मंजिल, साकार-II,
एलिसब्रिज, अहमदाबाद - 380006

394	079143	श्री माधुर आशिष बी-708 सत्यम अपार्टमेंट्स, डॉन बॉस्को स्कूल के पीछे, न्यू लिंक रोड, बोरीवली (पश्चिम) मुम्बई	409	100099	श्री कसमानी जाहिद इस्माइल 3-बी/0001 श्री अमित नगर कोपरेटिव हाउसिंग, यारी रोड, अंधेरी वेस्ट मुम्बई-400061
395	079789	श्री रंका सुधीर कुमार 605 ए विंग, अधीनाथ अपार्टमेंट्स, 8/281 तारदेयो रोड, ग्रांट रोड, पश्चिम, मुम्बई - 400007	410	100107	श्री संमर्षी अनुरुद्ध अरूण ए/11 आनन्द कोर्ट, डॉ. वी. रघुनाथ मार्ग, चौन्दा (पश्चिम), मुम्बई-400050
396	080118	श्री मनमोहन कपूर 134बी, ट्वीन टॉवर्स, प्रभादेवी, मुम्बई-400025	411	100123	श्री बद्रीनारायण वेदन्थन 2 कमलेश, 4 रोड, चेम्बूर, मुम्बई-400071
397	082076	श्री गर्ग विपिन कुमार बी-3 आशरय, गुलमोहर क्रॉस रोड नं० 7, जे.वी.पी.डी. स्कीम, मुम्बई - 400049	412	100227	श्रीमति शामला निलेश पोटनिस सी-12 विटासंचय सोसायटी, आरसीएफ रोड, निकट वशी गांव, चेम्बूर, मुम्बई-400074
398	084061	श्री राकेश कुमार सेठी ए 2/63 अविलियन ग्रीनफिल्ड अपार्टमेंट्स, जोगेश्वरी विखरोली लिंग रोड, ऑफ महाकाली केक्स रोड, अन्धेरी पूर्व, मुम्बई - 400093	413	100355	श्री पटेल मिनेश जसभाई गायत्रीकृपा-92, अजीतनगर निकट उर्मी सोसायटी, प्रोडक्टिविटी रोड, अकोटा, वडोदरा-390020
399	088015	श्री पसरिचा नलिन जारडिन फ्लेमिंग, आमेरचन्द मेन्सन, मदाम कामा रोड, मुम्बई - 400001	414	100381	श्री पंडा जितेन्द्र कुमार ए-101 स्टर्लिंग, ऑफ निंक रोड, दहीसर (पश्चिम), मुम्बई-400068
400	088609	श्री चौधरी रमाकान्त 31/2, एयर इण्डिया कालोनी-1, कलिना, सान्ता क्रुज (पूर्व) मुम्बई- 400029	415	100432	मिस शाह फाल्गुनी विनोदकुमार 119/5 मस्काती महल, कान्तिनाल एम. शर्मा मार्ग, मुम्बई-400002
401	092637	श्री शर्मा यशस्वी फ्लेट नं. 404, बिल्डिंग नं. 67- मुचाकुंड, वसन्त विहार, पोखरण रोड नं. 2, (महाराष्ट्र), थाने	416	100490	श्री कपाड़ी गौतम गुरुदास ईएमपी. 33 फ्लेट नं. 301 एवरशाईन मिलेनियम पेराडाईज, ठाकुर विलेज, कान्दीवली (पूर्व), मुम्बई-400101
402	094136	श्री राजीव लोचन पट्टनायक कलिंगा आर्ट्स, रूम नं. 6, माधव सेठ, दत्ता मंदिर रोड, मलाड (पूर्व), मुम्बई-400097	417	100495	श्री सिंह घनश्याम बासुदेव 102, 'परीजत अपार्टमेंट्स, ईसराज नगर, खोपट, थाने-400601
403	094413	श्री विनीत श्रीवास्तव सी/ओ कार्पोरेशन बैंक, इन्डस्ट्रियल फाइनेंस ब्रांच, 14 मुम्बई-पूने रोड, वारकवाडी, पूने-411003	418	100596	श्री मोहन्ती बादल सी/ओ आर. दूबे एण्ड कं., 12 कपाड़िया चेम्बर्स, ब्रोच एसटी. मस्जिद (पूर्व), मुम्बई-400009
404	097053	मिस वोहरा शालिनी म. नं. 404, मुचाकुण्ड 67, वसन्त विहार, थाने	419	100712	श्री सेवला सतीश गंगजी 192/12 पुष्पकुंज, स्टेशन रोड, वडाला, मुम्बई-400031
405	097513	श्री धार इशत डी सी रेजिडेंस हाउस, सेशंस हाउस के सामने, होशियारपुर	420	100858	श्री विजय शमराव गंगाजले फ्लेट नं. 13 श्रीहरीप्रसाद अपार्टमेंट्स, 2052 बी माने गली, निकट शाहू कोपरेटिव बैंक (एचए), मुगलवार पीठ, कोल्हापुर-416012
406	097682	मिस एस. सौम्या फ्लेट नं. 11 विश्व भवन, 7 क्रोस रोड, चेम्बूर, मुम्बई-400071	421	100927	श्री श्रीनिवासन आनन्द जी, 2-ए द्वारका कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, हिन्दुस्तान कालोनी, अमरावती रोड, नागपुर- 440010
407	098116	श्री गोयल संजीव फ्लेट नं. बी-501 बी विंग, कुन्ती पार्क अपार्टमेंट्स, मारोल मिलीट्री रोड, मारोल, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-110059	422	100952	श्री श्रीधर राघवन सी-2/13 चितरंजन नगर, राजावाडी, घाटकोपर (पूर्व), मुम्बई-400077
408	100037	श्री भलवाल रविन्द्र 406, मयूर अपार्टमेंट्स, जितेन्द्र रोड, मलाड (पूर्व), मुम्बई-400097			

423	100988	श्री गौतम जयराम 68 ए-3, ब्रिन्दावन सोसायटी, थाने-400601	438	101688	श्री मुरारका राजेश आशीर्वाद बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के उपर, एस. एन. रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400069
424	100998	श्री अग्रवाल अभिषेक 81 प्रनीत, जयन्त पाल्कर मार्ग, पोद्दार होस्पिटल वर्ली के सामने, मुम्बई-400025	439	101696	श्री घोरपडे प्रमोद ए/25 58 अम्बिका सिद्धि, जगदीश नगर, गोलीबार रोड, घाटकोपर (पश्चिम), मुम्बई-400086
425	101122	श्री वरसाला श्रीधर ए/15 साई मिलन, साईबाबा कॉम्प्लेक्स, गोरेगांव (पूर्व), मुम्बई-400063	440	101709	श्री प्रभू जयदेव श्रीनिवास 2, ए 6-17 यशदयीनी, एलआईसी, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई-400103
426	101186	श्री पोरवाल भाविना कांतिलाल फ्लेट नं. 502, 5वीं मंजिल, स्काई हाई टावर, शंकर लेन एक्सटेंशन ओरलम, मलाड (पश्चिम), मुम्बई-400064	441	101780	श्री दोशी पियूष गोरधनदास सी/2 दौलत विहार, दादाभाई रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400056
427	101196	मिस जाकर कोमल निशिकान्त ई-310 तीसरी मंजिल, न्यू भवानी कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, हनुमान नगर, कल्याण (पूर्व), कल्याण-400064	442	101785	मिस मोनिका निर्भय वेद्य 61, अनिल अपार्ट. गोवन्द पथ, गोखले रोड, थाने-400602
428	101269	श्री गोन्साल्विस निजेल पेट्रीक, धुन महल, दूसरी मंजिल, गार्डन रोड, कोलाबा, मुम्बई-400039	443	101805	श्री लेड नरेन्द्र जी. 355 निनन्द, सर्विस रोड, बान्द्रा (पूर्व), मुम्बई-400051
429	101284	श्री लेंडोन लुईस डेसा फ्लेट नं. 6 मायानी मेनर, सर एम. बी. रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400069	444	101856	श्री डहाद आकाश 3 अवनी अपार्ट. 2093 सदाशिव पीठ, पूने-411030
430	101354	श्री मनीष असावा आर. जी. जवाहर, 32, ओसीयना अपार्ट. केलोस्कर रोड, शिवाजी पार्क, मुम्बई-400028	445	101895	श्री शाह हिमान्यू 5 जकारिया बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, जकारिया मस्जिद, मस्जिद बुंदेर रोड, मुम्बई-400003
431	101404	श्रीमति फोरूम जयदीपसिंह 7 चैताली सोसायटी, बी/एच विवेकानन्द फ्लेट्स, सेटेलार्ड अम्बावाडी, अहमदाबाद-380015	446	101995	श्री गावडे नितिन महादेव सी/3, नौरे बाग अपार्ट. कुर्ला (पूर्व), मुम्बई-400024
432	101434	श्री महेश एस. करकी हाउस नं. 628 महारल पाड़ा, पीओ वारप, कल्याण मुराद रोड, कल्याण-421301	447	102078	श्री पवार संजय देवीदास 1829 4 सदाशिव पीठ, देशमुखवाडी, पूने-411030
433	101437	श्री वैद्य निर्भय अभय डी 101 सीता विहार निकट धमनी एस्टेट, नौपदा, थाने-400602	448	102151	श्री पारीक रमेश चन्द्र 91, हीराभाई मार्केट, दीवान बल्लूभाई रोड, अहमदाबाद-380022
434	101559	श्री त्रिवेदी मृजेन 604/5 सागर संगीत, ए, बी नायर रोड, जूहू, मुम्बई-400049	449	102155	श्री शाह अनीश रमनलाल 22, लाईब्रेरी शोपिंग सेन्टर, 14, हिल रोड बान्द्रा (पश्चिम), मुम्बई-400050
435	101616	मिस शारदा बी. शाह 26/बी तक्षशिला, महाकाली केव्स रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400093	450	102194	श्री भट्ट अजय धर्मदत्त 103 राज विन्दू कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, अतुल टावर के सामने, मथुरादास एक्स. रोड, कान्दिवली (पश्चिम), मुम्बई-400067
436	101658	श्री मुकुन्दन सुन्दरंजन नं. 7, कामटे भुवन न्यू सम्भाजी पथ, विष्णुनगर, नौपदा, थाने-400602	451	102214	श्री ट्रेसाई तारेल मयंकभाई 104 ब्रुकलिन हिल्स, लोखण्डवाला कॉम्प्लेक्स, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400053
437	101677	श्री दलाल दिव्येश कीरत 38 सागर महल, 65 बालकेश्वर रोड, मुम्बई-400006			

452	102219	श्री शाह केयूर भारत ए/504 वैशाली अपार्टमेंट्स, क्लब अक्वारिया के आगे, देवीदास लेन, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई-400103	465	102692	मिस सावंत मनीषा-विजय ए-22/88 सुंदर नगर, कलीना, सान्ताक्रूज (पूर्व), मुम्बई-400098
453	102244	श्री धोपटे श्रीकान्त एच2/453 पनोरमा, लक्ष्मीनगर, पार्वती, पूने-411009	466	102731	श्री शाह राजनकुमार 4, हेमनिवास, किलाचंद रोड, कान्दिवली (पश्चिम), मुम्बई-400067
454	102261	श्री बोहरा अशोक भंवरलाल सी-15 प्रेम नगर-1, सुपर रोड, एमसीएफ गार्डन के सामने, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई-400103	467	102763	श्री सोनी सुशांत जयकृष्ण टेकदी रोड, सीताबुल्दी, नागपुर-440012
455	102275	श्री इन्डोरेवाला हुसैन 15/17 मिर्जा स्ट्रीट, यूकामेशन, वी फ्लोर रूम नं. 3, मुम्बई-400003	468	102817	श्री कृष्णन सुरनारायनन 21, लक्ष्मी, जीवन लक्ष्मी चेम्बर्स, डॉ. आर. पी. रोड, मुसुंद (पश्चिम), मुम्बई-400080
456	102291	श्री भावे अमित अविनाश बंगला नं. 4, एस. पी. कोलेज केम्पस, सदाशिव पीठ, तिलक रोड, पूने-411030	469	102833	श्री सेठ कुमार हर्षद 357/ई वर्द साहूपूरी, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416001
457	102294	श्री राठी रितेश मोतीलाल 1/401 अनमोल अपार्ट., अन्धेरी, कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400059	470	102840	श्री गांधी धर्मेरा विनोद बी-8, रूप नगर, 80, एस. वी रोड, कान्दीवली (पश्चिम), मुम्बई-400067
458	102320	श्री खाटू राजेन्द्र सदानन्द 3/8/एफ कामत चौल, रूम नं. 44, ठाकुरद्वार, मुम्बई-400002	471	102851	श्री घई जीतिन सिंह अजपाल 717 सुन्दर विला, 12 रोड, खार (पश्चिम), मुम्बई-400052
459	102336	श्री बी. अजीत कुमार पेट्रो असि. मैनेजर - फाइनेंस, एसोसिएटिड सीमेन्ट सीओएसर. लि., रिफ्रेक्टरीज डिवि., चौथी मंजिल, पुष्पकुंज, नं. 26, सेन्ट्रल बाजार रोड, नागपुर-440010	472	102927	श्री दवे मितल महेशभाई रौ हाउस नं. 3, श्रद्धा कॉम्प्लेक्स, आशा नगर, ठाकुर कॉम्प्लेक्स के आगे, कान्दीवली (पूर्व), मुम्बई-400101
460	102348	मिस हुजुरबाजार अश्विनी बी/8 भाग्योदया कोपरेटिव सोसायटी, टीपीएस 6 लिंगिंग रोड एक्स., प्लोट नं. 9/10 सान्ताक्रूज (पश्चिम), मुम्बई-400054	473	103009	श्री अंजकुलठ अनिरुद्ध 401 सिंदेला अपार्ट., 602 साचापीर स्ट्रीट पूने-411001
461	102520	श्री अरोड़ा अनमोल नरेन्द्र 403 सुगन बिल्डिंग 6, कुम्बाला हॉल रोड, मुम्बई-400036	474	103122	मिस सिंह रागीनी राज बिल्डिंग नं. 1, बी. पी. सी. एल. कालोनी, आजीया बाग, चेम्बूर, मुम्बई-400074
462	102542	श्री वैद्य सलील सुधीर वैद्य हाउस, टेलीफोन एक्सचेंज, नौपदा, थाने-400602	475	103138	मिस दीपा नारायण 311/3सी नेस्टले अपार्टमेंट्स, पी.बी. मार्ग, वरली, मुम्बई-400013
463	102566	श्रीमति धरना निमेश शाह एफ-2 आशा कॉम्प्लेक्स, निकट श्रीजी बाग सोसायटी, बी/एच नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380013	476	103156	श्री अय्यर गिरीश शंकर राम 7/497 ए शंकर विलास, 13 रोड, चेम्बूर, मुम्बई-400071
464	102618	श्री नवीन कुंडोमल देवजनी फ्लैट नं. 706 सिल्वर आर्च, शास्त्री नगर, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400053	477	103191	मिस चन्दीरमानी रेशमा स्टेण्डर्ड चाटर्ड बैंक, चौथी मंजिल, न्यू एक्सेलसियर बिल्डिंग, ए. के. नायक मार्ग, फोर्ट, मुम्बई-400001
			478	103285	मिस मीता सुरेश आडवानी 403 शिवाला, सोबानी रोड, कफ परेड, मुम्बई-400005
			479	103344	श्री राकेश खेतावत 259 गिरगौम रोड, मेन भवन, दूसरी मंजिल, मुम्बई-400004

480	103396	श्री जैन श्रीपाल 505 रीना अपार्ट. 6 ममलेडरवाडी, मलाड (पश्चिम), मुंबई-400064	495	103916	मिस पतानकर फोजिया 35, जवाहरबाद 9 वॉ रोड, टी.पी.एस.4, बांद्रा, मुंबई-400050
481	103485	मिस मोपियासी गांगुली केपीएमजी, पीओ. बॉक्स 510, मनामा, बाहरेन, यूएई,	496	103918	श्री दादगे अमोद अरविंद ए-9, शांति प्रसाद, 9वाँ रोड, दहानुकर कॉलोनी, कोठरूड, पुणे-411029
482	103497	मिस कुलकर्णी साधना बी/16, तेजल कुंज, कारवे रोड, कोठरूड, पुणे-411029	497	103924	मिस अग्रवाल श्वेता डी/62, वृंदावन आगरा रोड, घाटकोपर पश्चिम मुंबई-400086
483	103500	श्री शाह भावेश 204/बी पारेख प्ला, वल्लभभाई पटेल रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई-400056	498	104030	श्री अंबाखुतवाला नईम 143/145 सारंग स्ट्रीट शफाना मंजिल, मुंबई-400003
484	103514	श्री कपूर विशाल विनोद ए-15 नवचैतना, आर. बी. मेहता रोड, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई-400077	499	104057	श्री पोटदर विनय भारत 12, वातसल अपार्टमेंट्स नेहरू पार्क, वस्त्रपुर, अहमदाबाद-380015
485	103520	श्री बाग चन्द बसर 10 बी-2/404, शान्ति नगर, मीरा रोड-401107	500	104100	श्री भाटिया तरुण लक्ष्मणदास 145 फार्मलंद रामदेस पैठ, नागपुर-440010
486	103534	श्री ध्रुव प्रकाश शेदटी 0-डी ब्लोक पहली मंजिल, अफजल बिल्डिंग, डॉ. ए. आर. नायर रोड, मुंबई सेन्ट्रल, मुंबई-400008	501	104114	श्री अभिष्ट अरोरा फ्लेट नंबर 71 शांतिनिकेतन, प्रभात कॉलोनी, सांताक्रुज पूर्व, मुंबई-400055
487	103628	श्री सुरेश कुमार चौधरी एम/एस के. के. बागडिया एण्ड कं., 103 कैमी हाउस धुलवाडी, डॉ. कवस्जी होरमस्जी सेंट, मैरीन लाईन्स, मुंबई-400002	502	104127	श्री मणिधिया अपूर्व 1652, गोधा रोड नियर राजाराम एनओ एवीईडी, भावनगर-364001
488	103661	श्री गंधी पलक के. 67/401 विजय नगर, नरनपुरा, अहमदाबाद-380013	503	104254	श्रीमति ममता कश्यप 202, लाभस्मृति बपतिसता रोड, विले पारले पश्चिम, मुंबई-400056
489	103675	मिस मनीषा के अग्रवाल बी 704 प्रेसिडेंशियल टावर्स, एनासिन.क. के सामने, एल. बी. एस. मार्ग, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई-400086	504	104300	श्री नानावरे संजय 2/67 गुजरात रेफिनरी टाऊन शिप जवाहर नगर, वडोदरा-391320
490	103708	श्रीमति अश्वनी एस. सावरीकर केपीएमजी हाउस, कमला सिटी, सेनापति बापत मार्ग, लोअर पारेल, मुंबई-400013	505	104302	श्री किंगर दीपक कन्हैयालाल पोस्ट बेग नंबर 7044 भवानी शंकर पोस्ट ऑफिस, दादर, मुंबई-400028
491	103773	श्री राय ब्रिजेश एच. ए-18 निवारा, एल. बी. एस. रोड, मुलुंद (पश्चिम), मुंबई-400080	506	104388	श्री मेहता तेजस अरविंद भाई 34, लीला निवास एल.एन.रोड, माटुंगा (सी.आर.), मुंबई-400019
492	103877	श्री गुप्ता अनिल ओमप्रकाश 52 ए/6-15 ब्लू ग्रेटो, एलआईसी कालोनी, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई-400103	507	104403	श्री दोकनिया गौरव श्याम 63, ममता ए विंग ए मराठी मार्ग, प्रभादेवी मुंबई-400025
493	103905	मिस स्वाति प्रभाकर 204 भाग्य लक्ष्मी केनेडी ब्रिज, ऑपर हाऊस, मुंबई-400004	508	104412	मिस स्मिता दमराजू फ्लेट नंबर 2/4, जी 27, पंचज्योत को-ऑपरेटिव सोसायिटी, सेक्टर-29, वशी, नवी मुंबई-400705
494	103908	श्री अनुराग श्रीवास्तव 505, नीलगिरी, अनुशक्ति नगर, मुंबई-400094	509	104442	श्री सुरेश भंडारी 3039 जश टेक्सटाईल और यान मार्केट, रिंग रोड, सुरत-395002
			510	104499	श्री नीरज अशविन शाह 10 बी गीता भवन, 93, बी.डी. रोड, ब्रीच केन्डी, मुंबई-400026

511	104525	श्री अजय लक्ष्मण मिरानी 302, 5/डी ग्रीन मेडोस लोखंडवाला कोम्प्लेक्स, कांदिवली पूर्व, मुंबई-400101	525	105398	श्री एकनाथ श्रीपट मेधेकर आदर्श बालक मंदिर के पास, सांभाजी नगर, आकर्दि, पुणे-411035
512	104542	श्री निखिल रमेश नाईक 2ए, अचल, मुरारीघाग मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई-400025	526	105554	श्री अमुल सुरेश लालवानी 108/ए सत्यपुरम सोसाइटी पुणे सासवद रोड, फुरसंगी, पुणे-412308
513	104624	श्री नरेश जयप्रकाश श्राफ 8/2 मलद को-ओपरेटिव एच.एस.जी.एस.ओ. सी.पोंदर रोड, मलद पूर्व, मुंबई-400097	527	105566	मिस मीरा हर्षद वसा 5वीं उदय दर्शन 103 नेहरू रोड, सांताक्रुज पूर्व, मुंबई-400055
514	104625	श्री पुनीश रोमेश अरोरा ए/15 'धनस्तार' 122, एन.पी.रोड, कोलाबा, मुंबई-400005	528	105624	श्री रवि शंकर अय्यागिरी बी-302, जुहू, सेक्टर 2, वसंत नगरी, वसई (ईस्ट), 401205
515	104688	श्री पंकज मोहन स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज (1) लिमिटेड धनराज महल, टोप फ्लोर, सी.एस.एम. मार्ग, अपोलो बंदर, मुंबई-40003	529	105700	श्री सुशील नारायण दास गांधी एफ विंग आस्थाविनायक ऐंक्लेव होटल श्रीमया के पास, उमाजी कॉलोनी, बंसीलाल नगर, ओरंगाबाद
516	104719	श्री प्रतीक दीपक भाई शाह 4 हाई स्कूल शोपिंग सेंटर, टॉवर रोड, व्यारा, सुरत-394650	530	105780	श्री अजीज जाहिद हुसैन आर्थर एंडरसन 17वीं मंजिल, एक्सप्रेस टॉवर्स, नारीमान पॉइंट, मुंबई-400021
517	104896	मिस पूर्वी महेंद्र शाह ए/34 पुनिता ऐस्टेट 28 एस वी रोड मिलाप थियेटर के सामने, कांदिवली पश्चिम, मुंबई-400067	531	105810	श्री कमलेश प्रगजी खानदोर 5/बी कमल कुंज 143 वल्लभ बाँग लेन, घाटकोपर पूर्व, मुंबई-400077
518	104946	श्री राजेश बलवंत बिरारी 78, हुडो कॉलोनी, एम.आई.जी.-1, मनमद-423104	532	105884	श्री शेनोए गिरीश वी सी/ओ जी.टी.एस.पी.ओ.बॉक्स 6642, दुबई यू. ए.ई.
519	105017	मिस कामना राम गोपाल सिंह सी-503, रॉक कास्टल कांदरपाडा, लिंकिंग रोड ऑफ आई.सी. कॉलोनी, दहीसर पश्चिम, मुंबई-400068	533	105957	श्री शाह अमित बिपिनचंद्रा 12. रमेश पार्क सोसाइटी पंचशील, उसमान पुर, अहमदाबाद-380013
520	105044	श्री डोम्बो उमेशा फ्लैट नंबर 002, बिल्डिंग नंबर 30 चंद्रेश एकोर्ड, सिल्वर पार्क के सामने, मीरा भयंदर रोड, मीरा रोड-401107	534	106068	श्री भंगेश सुहास एनॉकर डी/28, प्रजापति सोसाइटी, राम नगर, बॉरीवली पश्चिम, मुंबई-400092
521	105060	श्री निशेठ नरेंद्रनाथ 4/2, नवयुग निकेतन 185, वालकेश्वर रोड, तीन बत्ती, मालाबर हिल्स, मुंबई-400006	535	106132	मिस महालक्ष्मी गणेश 11 शोभना गोशाला रोड, मलंद पश्चिम, मुंबई-400080
522	105106	श्री अमोल बसंत कार्वे नंबर-10 कंचन सी.एच.एस. बी.डब्लू पठारे मार्ग, शिवजी पार्क, मुंबई-400028	536	106191	श्री संजय बसंत टपरिया 701 ग्रीन रिज, टॉवर नंबर-1 सिमफोली, चीकू वादी, बॉरीवली पश्चिम, मुंबई-400092
523	105169	श्रीमति जेक्यूलिन मार्टिन्स डीए 271/ए सेनोलिम वर्ना गोआ	537	106289	मिस सांथी ए ए-11, अमित सागर प्लोट नंबर-10, सेक्टर 10 -ए, वशी, नवी मुंबई-400703
524	105322	श्री सुरेंद्र हंसराज कपूर पहली मंजिल यूनिन को-ऑपरेटिव इंश्योरेंस बिल्डिंग, 23 सर पी एम रोड, फोर्ट, मुंबई-400001	538	106295	मिस श्वेता ए पारेख 2 मितल भवन 62 ए पेडर रोड, मुंबई-400026
			539	106314	श्री मनोज गोपीनाथन पिल्लई 82 श्रीनाथ नगर सोसाइटी रानापार्क, घाटलोदिया, अहमदाबाद-380061

540	106320	श्री जैन सचिन सी/ओ श्री अशोक लोधा 402 ए विंग अशोक नगर, वजीरा नाका के पास, बाँरीवली (पश्चिम), मुंबई	554	107008	श्री केतन मनुभाई जोशी 37, प्रतापकुंज विलास आउट हाउस, वडोदरा-390002
541	106381	मिस नीता मोतीराम केवलरमानी 82-बी, सिंदूवादी एम.जी.रोड, घाटकोपर-पूर्व, मुंबई-400077	555	107041	मिस स्निग्धा अशोक गेखले बी/2 अमरेन्द्र सोसायटी, मनोश माला, सिनहागढ़, पुणे-411030
542	106415	श्री सतीशवर बालकृष्णन एफ/233, रेलवे क्याटर्स, मरबद रोड, कल्याण-421301	556	107045	श्री रोडने एस केस्टेलिनो 102 राज कुटीर अपार्टमेंट्स, बी/एच केस स्कूल, कलीना, सानाक्रूज(पूर्व), मुम्बई-400098
543	106558	मिस डिसिल्वा विक्टोरिया नईगाँव पार्क 2/12, नईगाँव पश्चिम, नईगाँव-401207	557	107090	श्री लियो चार्लेस इग्नेटियस 73/ए बंगंगा रोड, बालकेश्वर, मुम्बई-400006
544	106579	श्री रविन्द्र एम विजयवर्गिया सी/ओ.सेंचुरी केमिकल्स (ए डिविजन ऑफ सेंचुरी टेक्सटाइल्स और इंडस्ट्रीज) चौथी मंजिल इंडस्ट्री हाउस, 159 चर्च गेट रेक्लेमेशन, मुम्बई-400020	558	107175	श्री कमल नवीचन्द्र ए/20 कैलाश नगर, शंकर लेन, कान्दीवली (पश्चिम), मुम्बई-400067
545	106710	श्री साबू प्रेम प्रकाश 183 वर्षा सोसाइटी अजवा रोड, वडोदरा-390019	559	107222	मिस विभा मधुकर पोटरदार डी601 सनफ्लोवर बिल्डिंग, गुन्डेचा वेली ऑफ फ्लोवर, ठाकुर विलेज, कान्दीवली (पूर्व), मुम्बई-400101
546	106719	श्री शाह पराग इंद्रावदन 204, अकिक, लाएंस हॉल के सामने मिथकली, ऐलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006	560	107252	श्री हर्ष रंजीत आचार्य 12 भारत महल, लाजपत राय रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400056
547	106776	मिस सुरभि विजय मजूमदार 11, शील मैरी, 25, डॉ. अब्दुल गफ्फार खान मार्ग, वरली, मुंबई-400018	561	107259	श्री जैन अभिनय 8/411, डॉ. बलिगा नगर, एस. बी. आई के सामने, महीम (पूर्व), मुम्बई-400017
548	106821	श्री मोहम्मद मुजम्मिल 533-ए, मरटुजा कम्पाउंड गौरी पदा, जिला:थाने, भिवंदी-421302	562	107323	श्री एम. वेंकट शास्त्री 1/एसएचजी/3/38 सेक्टर 1, सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्री., बेलापुर, नवी मुम्बई-400614
549	106843	श्री अखिलेश भवानी शंकर क्वार्टर फ्लेट-2, एम.पी.एफ. ओडर्नेस फैक्टरी, अंबरनाथ-421501	563	107334	श्रीमति मीता हरीश लाढ़ा ए-3 रेलवे मेन्स हाउसिंग सोसायटी, सेक्टर -2, वशी, नवी मुम्बई-400703
550	106861	श्री राकेश किशोर 3/13 शेवंती छाया उमेशनगर, डोंबिवली-421202	564	107389	श्री निलेश मनोहर सुले 246 शंकर नगर, नागपुर-440010
551	106894	श्री राजेश पुरुषोत्तम 12/13, फ्रैंक डी 'मेलो' चेल जे.बी.एम.रोड, डी 'मेलो' प्ले ग्राउंड के पास, अंबोली, अंधेरी-पश्चिम, मुंबई-400058	565	107399	श्री कुंज दीलीप कुमार वैद्य 7, सौरभ, एस.बी.आई. 40 फ्लेट, श्रीपाल नगर, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा-390020
552	106975	श्री हेमंत प्रकाश जैन सी/ओ एच.एम.कच्छरा सेक्टर-10, बिल्डिंग नंबर 19, फ्लेट नंबर 103, शांति नगर, मीरा रोड-401107	566	107420	श्री जैन नरेश कुमार ए/6 सुतीर्थ सोनल कॉम्प्लेक्स, वसतपुर रोड, अहमदाबाद-380015
553	106986	श्रीमति मेधा प्रशांत महाजन बी-2/48, मुंदावन पार्क सर्वे नंबर-56, कोठरूड, पुणे-411029	567	107460	मिस पटियाथ लीना लक्ष्मण 601 परीजत 2, वसन्त विहार, थाने-400601
			568	107463	श्री संदीप कैलाश सितानी एन-25 जलवायु विहार, हीरानंदानी गार्डन, पोवई, मुम्बई-400076

569	107479	श्री रवि गोविन्द डोले प्राईस वाटर हाउस कोपरेटिव प्रा. लि., पहली मंजिल, निलॉन हाउस, डा. ए. बी. रोड, वरली, मुम्बई-400025	584	108153	श्री रजनीश सुरेश चन्द्र बी-109 रोलेक्स शोपिंग सेन्टर, प्रशांत होटल के सामने, स्टेशन रोड, गोरेगांव (पश्चिम), मुम्बई- 400062
570	107557	श्रीमति घई आरती ए-8/51, ग्रीनफील्ड, महाकाली केव्स रोड, अन्धेरी(पूर्व), मुम्बई-400093	585	108160	श्री हरीश रामानन अर्थुर एण्डरसन, 17वीं मंजिल, एक्सप्रेस टावर्स, नारीमन पोईंट, मुम्बई- 400021
571	107633	मिस शर्मा अशोक नायक आशीषाद हाउस नं. 549, वोडलम भट, टेलीगांव, टेलीगांव, गोआ-403002	586	108189	श्री मनोज कुमार अग्रवाल कुबेर विला, 2 नवयुग सोसायटी, 5 रोड, जेवीपीडी. स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम) मुम्बई- 400049
572	107648	श्री परमार संजयकुमार करनपारा 2, कृष्ण कुंज, राजकोट-360001	587	108201	श्री विरल भुपेन्द्र संचानी 10/21 वर्मा नगर, ओल्ड नगरदास रोड, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई- 400069
573	107692	श्री सलील भारतकुमार देसाई 403 पोपुलर अपार्ट. नं 0 1, टैगोर रोड, सान्ताक्रूज (पश्चिम), मुम्बई-400054	588	108236	श्री आनन्द विनय शाह ए/62 फ्लोवर क्वीन, वीर देसाई रोड, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई- 400098
574	107816	श्री रितेश रामकृष्ण तिवारी डी/1 बाबूभाई चौल, एम. ही. एक्स. रोड नं. 4, कान्दीवली (पश्चिम), मुम्बई-400067	589	108249	श्री धर्मेश सुरेशभाई शाह, सी/206 भूमी एन्कलेव, महावीर नगर, दहानुकर वाडी, कान्दीवली (पश्चिम), मुम्बई- 400067
575	107939	श्री भगत आशिष सी/ओ रेमन्ड लिमिटेड, 165 सिविल लाईन्स, रविन्द्रनाथा टैगोर मार्ग, नागपुर-440001	590	108265	श्री बलराज हिम्मतलाल कक्कर, ए/7 नवजीत, भरदावाडी जे. पी. रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई- 400058
576	108013	मिस शाहीन मौहम्मद उमर 7/गोल्डन फ्लोवर, कलीना कुर्ला रोड, सान्ताक्रूज (पूर्व), मुम्बई-400029	591	108326	श्री पुरषोत्तम एन. शर्मा 404 ग्रीन एवेन्यू 1, रहेजा एस्टेट, कूलूपवाडी, बोरीवली (पूर्व), मुम्बई- 400066
577	108023	श्री संदीप राजेन्द्र शाह 7/71 वृन्दावन सोसायटी, शंकर सेठ रोड, पूने-411037	592	108387	श्री किरतीकुमार सुरेश 123/4053 नेहरू नगर, कुर्ला(पूर्व), मुम्बई- 400024
578	108036	श्री शाह कननभाई यू/1 विक्रम अपार्ट., निकट श्रेयास क्रॉसिंग, अम्बावाडी, अहमदाबाद-380015	593	108421	श्री रोहन रमन सेठ 3/1125 नवजीवन सोसायटी, लेमिंग्टन रोड, मुम्बई- 400008
579	108052	श्री लोधा सत्यनारायण 26 कैलाश धाम सोसायटी, निकट अभिलाषा चार रास्ता, न्यू सामा रोड, वडोदरा-390008	594	108426	श्री विवेक जी. शुक्ला 121, रामझरूखा, वी. पी. रोड, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई- 400058
580	108091	श्री छेछड़िया गौतम फ्लैट नं. 401, आईसीआईसीआई अपार्ट, ए1/12, फिल्म सिटी रोड, यशोधाम, गोरेगांव (पूर्व), मुम्बई- 400101	595	108521	श्री कपिल कमल जैन 1002 गणेश दर्शन, श्री सागर होटल के सामने, एल. टी. रोड, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई- 400092
581	108099	मिस अनिता नारायण पाई नं. 2 सत्य भवन, 4 पास्ता लेन के सामने, कोलाबा, मुम्बई- 400005	596	108582	श्री संतोष कन्हैया लाल व्यास बी-18 फ्रेंड्स पार्क, संनापति बापत रोड, छतुरसिंगी, पूने- 411016
582	108132	मिस वंदीता वासुदेव भक्ता ए/1 इन्दनीवाला सोसायटी, चिनचोली बुन्देर रोड, मलाड (पश्चिम), मुम्बई- 400064	597	108599	मिस आरती चुन्नीलाल फोतरिया 506 नीलधारा, देवीदास लेन, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई- 400103
583	108147	श्री रामकृष्ण नारायण 10 रवि दर्शन, जैन हिन्द कालोनी, गुप्ते रोड, डोम्बीवली (पश्चिम), थाने डिस्ट्र., डोम्बीवली-421			

- 598 108668 मिस निवेदिता अविनाश
स्मीता अपार्ट. 8-9, 40/2, भोण्डे कालोनी,
ईरानदावा, पूने-411004
- 599 108752 श्री आशिष अश्विन पटेल
320 सेफ्रोन कॉम्प्लेक्स, कैम्पस कार्नर के
सामने, फतेहगंज, बडोदरा-390002
- 600 108773 श्री एन. बी अरुनाचलन
सी/101 श्रद्धा अपार्टमेंट्स, गुंजन,
जीआईडीसी, वापी-396195
- 601 108782 श्री राजदीप प्रेमकुमार पाई
चौथी मंजिल, 7 ए देवश्री हाइट्स, वेदयावाड़ी,
हदसपुर, पूने-411013
- 602 109410 श्री अमित गुलेचा
एम/एस लोधा एण्ड कं., 6 करीम चेम्बर्स, 40
ए. दोशी मार्ग, मुम्बई- 400023
- 603 109430 मिस अल्प विनोद आचार्य
ए/9 सुयाश अपार्ट., गोखले रोड दादर, मुम्बई-
400028
- 604 109441 मिस शिखा रामअवतार जलान
1, माधव कुंज, दिक्षित रोड, विले पार्ले (पूर्व),
मुम्बई- 400057
- 605 109464 श्री संजय नगरमल अगीवाल
ई-17 सुखायादयाक कोपरेटिव सोसायटी, जे.
बी. नगर, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई- 400059
- 606 109470 श्री जीगीशकुमार शान्तिलाल
1003 कापरी, हीरानन्दानी एस्टेट, पटलीपाडा,
थाने (पश्चिम), थाने-400607
- 607 109492 मिस विनीता धनराज फिरवानी
204-बी, साराबी केसल, चिराई, आरसी मार्ग,
चेम्बूर, मुम्बई- 400071
- 608 109561 श्री सिद्धार्थ शंभुनाथ
बी-6, 701 साकेत, किशन कोहली मार्ग
एक्सटेंशन (पश्चिम), थाने-400601
- 609 109591 श्री अशरफ अब्दुल अजीज
प्रीती विला, फ्लेअ नं. 8, एल. टी. विलेज
(पश्चिम), वसाई-401202
- 610 109618 श्री सुरेन्द्र कुमार
सी/ओ आर. एल राठी, कृष्ण कुंज बिल्डिंग,
निकट बाबूलनाथ टेम्पल, मुम्बई- 400007
- 611 109620 श्रीमति रेखा संजय दीक्षित
6, वसन्त तारा अपार्ट., आपटे रोड, निकट
होटल सूर्या, शिवाजी नगर, पूने-411004
- 612 109649 श्री बी. आर. उमेश
सीनियर एक्ज़ाण्ट ऑफिसर, रिलायन्स इन्डस्ट्रीज
लि., एसआरएम. कम्पाउंड, गनपत राव कदम
मार्ग, वरली, मुम्बई
- 613 109650 श्री मंगेश विद्याधर
ए 202 धवल अपार्ट. नवघर, वसाई (पूर्व),
410210
- 614 109684 श्री त्रेयांस कुमार गंग
504 नरनारायन कॉम्प्लेक्स, स्वास्तिक क्रोस
रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
- 615 109736 श्री आनन्दकुमार रामकुंवर
चौथी मंजिल मोतवानी मेशन, के. सी. कॉलेज
के सामने, चर्चगेट, मुम्बई- 400020
- 616 109753 श्री निलेश मधुकर मेजरी
2/52 प्रतिरक्षा नगर, वकोला ब्रिज, सान्ताक्रूज
(पूर्व), मुम्बई- 400055
- 617 109757 श्री संजय कुमार कियावत
एस-5 सहगोविन्द कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल
घोषा रोड, निकट घाघा सर्कल,
भावीनगर-364001
- 618 109777 श्रीमति अमृता सासवादकर
971 दत्ता कृपा, ब्राह्मण मंगल कार्यालय के
सामने, सदाशिव पीठ, पूने-411030
- 619 109803 श्री प्रशांत ईश्वरलाल चेतना
गोविन्दनगर, होटल प्रकाश के पीछे,
मुम्बई नाका, नासिक
- 620 109848 श्री अतानू कुमार पहान
31/1076ए सीजीएस. क्वार्टर, सेक्टर-7,
अनटोप हिल, मुम्बई- 400037
- 621 109850 श्रीमति प्रियंका डी. गुप्ता
ए/20 एवरस्वीट अपार्ट., प्रताप नगर के सामने,
वरसोवा रोड, अन्धेरी, मुम्बई- 400053
- 622 109856 श्री रवि रोकडिया
88 सनविला रो हाउस, निकट सारगोन टावर्स,
गुरुकुल रोड, अहमदाबाद-380052
- 623 109862 श्री सागर पिपूश मोदी
सी/ओ अवनय मेहता, 46 बी पेदार रोड, 12ए
आशा महल, मुम्बई- 400026
- 624 109873 श्रीमति. नीमीशा हेमन्त
सी. सी. चोकशी एण्ड कं., मफतलाल हाउस,
छठी मंजिल, बेकबे रिक्लेमेशन,
मुम्बई- 400026
- 625 109876 श्री पराशर नचीकेत शाह
बी/41 टेक्सटीला सोसायटी, बोम्बे डाईंग
कम्पाउंड, प्रभादेवी, मुम्बई- 400025
- 626 109924 श्री मोहम्मद कलीम सरवर
वखरिया एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स, 137
बोराबाजार स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400001
- 627 109966 मिस रुद्री भारत जोशी
मेहरिस्तन दूसरी मंजिल, अगरबाजार, एस. के.
बोली रोड, दादर, मुम्बई- 400028

- 628 109995 श्री देवेन्द्र मोहनलाल
सी/ओ सतीश पटेल, 6 उमीया नगर सोसायटी,
पंचवटी जकत नाका के पीछे, गोरवा रेतमे रोड,
वडोदरा-395016
- 629 110010 मिस रेनुका वीरराघवन
212 त्रिवेनी चेम्बर्स, ओम नगर, फाईपलाइन
रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई- 400099
- 630 110054 मिस कोयल संतीरंजन दत्ता
1106 टावर्स 2, चैलेन्जर्स, ठाकुर विलेज,
कान्दीवली (पूर्व), मुम्बई-400101
- 631 110105 मिस शिल्पा ओमप्रकाश
सी/ओ एम.आर. एन. एस. चन्दक, 7, प्रसाद
रहाते कलोनी, वरधा रोड, नागपुर-440010
- 632 110125 श्री विनेर मनीलाल देधिया
ए-1 609 आनन्द लक्ष्मी कोपरेटिव सोसायटी,
निकट रेलवे क्रोसिंग शहरीबाग,
अहमदाबाद-380004
- 633 110177 श्री साकेत मेहरा
बी-301 इन्द्रप्रस्थ टावर्स, वसन्त नगरी, वसाई
(पूर्व), डिस्ट्रि. थाने, वसाई
- 634 110179 श्री सोनू शेदरम गुप्ता
6/8 द्वारका आशिश, चौथी मंजिल, जम्बूलवाड़ी
कलबादेवी रोड, मुम्बई- 400002
- 635 110196 श्री राहुल तांबी
102 गोपीवल्लभ एवेन्यू, टाइम्स ऑफ इण्डिया
रोड, सेटेलाइट वैजलपुर, अहमदाबाद-380015
- 636 110280 श्री राहुल संपत डोरा
402/ए, सहकार अपार्ट, एस. वी. रोड, मलाड
(पश्चिम), मुम्बई- 400064
- 637 110284 श्री महेश कुमार अगल
डी/51, नन्द धाम, वी. पी. रोड, निकट दहीसर
ब्रिज, दहीसर, मुम्बई- 400068
- 638 110301 श्री नमन किरन देसाई
314 आईआईएम केम्पस, वस्तरापुर,
अहमदाबाद-380015
- 639 110347 श्री रविप्रकाश राजकुमार
544/डी-2, स्वास्तिक कोपरेटिव हार्जिसिंग
सोसायटी, सेक्टर-5, चारकोप कान्दीवली
(पश्चिम), मुम्बई-400067
- 640 110378 श्री अजय छोटे लाल पासी
भेमनगर कालोनी, रूम नं. 4, जे. आर. बोरिचा
मार्ग, जेकब सर्कल, मुम्बई- 400011
- 641 110423 श्री जयमन अनिल मेहता
39/11 भारती डोन बोस्को के पीछे, किंग्स
सर्कल, मुम्बई- 400019
- 642 110426 मिस कानन अमल झावेरी
अरुणोदया, सरोजनी रोड, विले-पारले-पश्चिम,
मुम्बई - 400056
- 643 110436 श्री जतिन मोरारिया
21/1, रोहित विला, सेवरी वडाला रोड, डॉन बास्कौ
स्कूल के पीछे, माटुंगा, मुम्बई- 400019
- 644 110441 श्री हितेश कुमार
एफ-101 आंगन, निकट- ठाकुर कॉलेज,
समता नगर, कान्दीवली पूर्व, मुम्बई- 400101
- 645 110472 मिस निधि कबीर्णी कुमार दोषी
3/7, बीबींग अवंती अपार्टमेंट्स, फ्लैक रोड
सियोन पूर्व, मुम्बई- 400022
- 646 110543 मिस राधिका कल्याण
448, केपीएमजी हाउस, कमला मिल्स कम्पाउंड,
सेनापति बापत मार्ग, लोवर पेरल, मुम्बई- 400013
- 647 110548 श्री अजित रमेश कुमार लेलानी
आर.एस. एम. एण्ड कम्पनी, 109-112 डालामल
टॉवर्स, नारीमन पॉइन्ट, मुम्बई- 400021
- 648 110565 श्री बहादुर टीका ज्ञान
श्री चन्द्रप्रभा मंदिर, 86, डा० ए.बी. रोड,
वरली, मुम्बई- 400018
- 649 110594 मिस दीपा मेरी चेरियन
001 ओएलजी विला मैडोना कालोनी -6,
निकट- भगवती अस्पताल, बोरीवली, पश्चिम,
मुम्बई- 400092
- 650 110624 मिस वेदेही अरविन्द शैवदे
1/7 गणेश कृपा, राम नगर, एन.सीकेलकर रोड
डाम्बीवली(पूर्व)जिला थाने, डोम्बीवली- 421201
- 651 110632 श्री राजेश वसन्जी गालिया
एन.आर. दोषी एण्ड कम्पनी, पीओ बॉक्स नं.०
13742, दुर्बई, यूएई
- 652 110635 श्री महेश चन्द्र सोनी
सी/ओ श्री अशोक भण्डारी, एच 3, महेशवरी नगर
एमआईडीसी, अन्धेरी पूर्व, मुम्बई- 400093
- 653 110648 श्री अमित घनश्याम राठौ
7बी, 601 अलिका नागपुर, लोखंडवाला टॉउनशिप,
अकूर्ली रोड, कान्दीवली पूर्व, मुम्बई- 400101
- 654 110652 श्री प्रवीर सतीश शिनोय
448, केपीएमजी हाउस, कमला मिल्स कम्पाउंड
सेनापति बापत मार्ग, लोवर पेरल, मुम्बई- 400013
- 655 110660 मिस उष्मा एच सेठ
बी/15, इरला सोसायटी, सोसायटी रोड इरला,
विले पारले पश्चिम, मुम्बई- 400056
- 656 110662 श्री राधिका सत्येन्द्र
बी-2, 301 सुन्दर नगर, एस वी रोड, मलद पश्चिम
मुम्बई- 400064

- 657 110691 श्री राहुल प्रदीप प्रतिनिधि
ओम आविष्कार, विंग सी फ्लैट नं० 714,
सी टी एच नं० 1127, स्नेह पेराडाईस कॉम्प्लेक्स
एन आर एम आई टी कॉलेज, कौथरूड,
पुणे - 411038
- 658 110712 श्री जतिन्द्र कुमार जगदीश राय
405, स्टेरलिंग चैम्बर्स, पूना स्ट्रीट, मुम्बई- 400009
- 659 110747 संदीप जयन्त पौदार
4 पडवाल भवन, रेलवे स्टेशन के सामने,
चूना भट्टी, मुम्बई- 400022
- 660 110800 मिस जिगना किरण संघवी
8 अनुभव, 93 गडोदिया नगर, घाटकोपर पूर्व
मुम्बई- 400077
- 661 110846 श्री पियूष जाजू
सी/ओ इन्फोसिस टेक्नोलाजी लिमिटेड, प्लॉट नं० 1,
पुणे, इन्फोटेक पार्क, हिन्जावडी, तालमलशी,
पुणे- 411027
- 662 110903 श्री अमित कुमार लल्लु भाई
3 सिल्वर स्ट्रीट, भूतल, सुन्दर नगर, सेन्ट्रल पार्क
के सामने, अगासी रोड, विरार पश्चिम,
विरार 401303
- 663 110912 मिस जाग्रती विनोद कुमार
फ्लैट नं० 7, आनन्द आश्रम गोखले रोड
पुणे- 411016
- 664 110926 श्री बद्रीनारायण एस
17/बी चेतन नवघर रोड, मुलुंद पूर्व,
मुम्बई- 400081
- 665 111858 श्री प्रकाश चन्द
सी/ऑफ 796, सदाशिव पैठ, धनलक्ष्मी प्लाजा
पुणे- 411030
- 666 200403 मिस राजश्री के
11/2 शिव निवास, बैंक ऑफ मद्रा के पास,
आर बी मेहता मार्ग घाटकोपर पूर्व,
मुम्बई- 400077
- 667 200460 श्री शशिकान्त बी
403, बी-12 ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स, सफल कॉम्प.
सेक्टर- 19 ए, प्लॉट नं० 17, नेरूल,
नवी मुम्बई- 400706
- 668 200526 श्री वासुदेव राव ए.
सी./ओ. पी. श्रीनिवास भट्ट, 602 /ए विक्रमादित्य
रहेजा टाउन शिप, मलाड पूर्व, मुम्बई- 400097
- 669 201242 श्री आनन्द के शाह
बी/7, फ्लैट नं० 5, भूतल, वीना नगर नं० 2
वीना नगर, एलबीएस मार्ग- मुलुंद पश्चिम
मुम्बई- 400080
- 670 201270 श्री अनन्त प्रसाद पी एस
फ्लैट डी-24, अजीनक्या नगरी, सर्वे नं० 6/61
निकट: कारपोरेशन बैंक, कर्वे नगर, पुणे 411052
- 671 202182 मिस प्रभा गोविन्द राजन
एस एच ए 39, आई. आई टी. पोवई,
मुम्बई - 400076
- 672 202988 श्री रामकुमार एस
बी-14, बिल्डिंग नं० 4, आनन्द दीप
कॉ-ऑपरेटिव, हाउसिंग सोसायटी, पेन्डसे नगर,
डोम्बीवली पूर्व, डोम्बीवली - 421201
- 673 203932 श्री बाला जी ए
16 एफ सेक्टर 6, आरपीएल टाउन शिप
गुजरात, जाम नगर 361140
- 674 203944 श्री तिरुपति राव वडी
25, अहिंसा नगर, आकाशवाणी के सामने,
जालना रोड औरंगाबाद - 431001
- 675 204120 श्री वी एम एस वेंकट
सी-204 श्रद्धा एपीटी गंजन, जीआई डी सी-
गुजरात, वापी-396195
- 676 204190 श्री श्रीनिवास्के एस
इयूटसे बैंक ए जी, प्रोजेक्ट मैनेजर, कोडेक हाउस
222, डी आर, डी एन रोड फोर्ट, मुम्बई- 400001
- 677 204749 श्री विश्वनाथ ए एस
25 ममता ए अपससाहेब मराठे मार्ग प्रभादेवी,
मुम्बई- 400025
- 678 204890 श्री किडंबी सुरेश
टाइम्स आफ मनी, पहली मंजिल, टाइम्स आफ
इंडिया बिल्डिंग, डी एन रोड मुम्बई 400001
- 679 205055 श्री राजरमन के एस
न-703 रिशिकेश टॉवर एमईएम नगर एनआर
सुभाष चौक अहमदाबाद 380052
- 680 205412 श्री सायनीनारायण जे
एसआर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एम/एस लारसेन एंड
टोबरो इन्फोटेक लिमिटेड गेट न-2 साकी विहार
रोड पोवई मुम्बई 400072
- 681 205436 श्री आर सुरेश
असिस्टेंट मैनेजर फिन अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक
लिमिटेड मेकर चैम्बर 4 सातवें एफ्ल, एन पी
मुम्बई 400021
- 682 205795 श्री सुभाष कुमार साहु
डीपी मैनेजर फाइनेंस वीआरडब्ल्यू रिफैक्ट्रिजिंग
डिवीजन ऑफ सेराल प्लॉट, नं 1513 जीआईडीसी
केरला इंड. एस्टेट, निकट बवला,
अहमदाबाद-382220
- 683 206367 श्री हरीदत्ता वर्मा ए. पी.
बी 2 102 पुलिस क्वार्टर, ठाकुर कॉम्प्लेक्स,
कान्दीवली (पूर्व), मुम्बई-400067

584	206968	श्री एम. ए. गिरीश शर्मा टीम मेम्बर्स प्रोजेक्ट एन्टरेन्स, ट्रोम्बे हाउस, भारत पेट्रोलियम, टीआरजी. सेन्टर, जूहू तारा रोड, जूहू सान्ताक्रूज (पश्चिम), मुम्बई-400049	689	207868	श्री विनोद सुब्रमन्यम सी/ओ वर्मा एण्ड वर्मा, ए-12, चौथी मंजिल, सुखवाली पार्क, नोर्थ मेन रोड, कोरेगांव पार्क, पूने-411001
585	207311	श्री मनु पौल सी/ओ पौल ए.वी. सी-8 डायमंड एस्टेट, सीएसटी रोड, कलीना सान्ताक्रूज (पूर्व), मुम्बई-400093	690	208099	श्री कामेश्वर राव सुबुद्धि पी, बिल्डिंग नं. एक्स-2/प्लेट नं. 042, गीता नगर फेज-4, मीरा रोड (पूर्व), मुम्बई-401107
586	207505	श्री विनोद रामनाथन सी/ओ आई.सी.आई.सी.आई. इन्फोटेक सर्विसेस लिमि., जेनीय होम., केशव राव खाडेय मार्ग, मुम्बई-400034	691	208116	श्री विधातराय के हिकल केमिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, प्लोट नं. 629/630, जी. आई. डी. सी., पनोली, जिला - भरूच, भरूच-394116
587	207546	मिस सुधा ए. प्रकाश 123/124 ओक्सफोर्ड हाउस, ऑफ न्यू लिंक रोड, (न्यू यमुना नगर), ओशीवाडा, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400058	692	209084	श्री आनन्द के. एफ-82 मेकर कुंदन गार्डन्स, जूहू तारा रोड, सान्ताक्रूज (पश्चिम), मुम्बई-400049
588	207781	श्री गिरीधर जे. असिस्टेंट मैनेजर ऑडिट, बीपीएल मोबाईल कम्यूनिकेशन लिमिटेड, बीपीएल सेन्टर, 127 छेकडवाडी, मनमाला टैंक रोड, महीम (पश्चिम), मुम्बई	693	209643	मिस सावित्री एम. डी-402 सारनाथ, अपर गोविन्द नगर, मलाड (पूर्व), मुम्बई-400097
			694	209906	श्री आशिष टी. वरधिस 72 शिवरंजीनी सोसायटी, 132 एफ.ओ. रिंग रोड, सेटेलाइट, अहमदाबाद-380015

अशोक हल्दिया
डा० अशोक हल्दिया
(सचिव)

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS
CENTRAL DEBT DIVISION

Mumbai, the 12th July 2003

In pursuance of Rule 18 of the Rules made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 (as amended under the Notification No.F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No.67 dated 21st February 1990), the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended May 2003 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai.

List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Byculla, Mumbai Circle</u> <u>10% Relief Bond 1995 (GPH)</u>					
BC-8980	Rs. 1,00,000/-	Jamsetjee Jejeebhoy and Ayesha J. Jejeebhoy	27.2.1998	Jamsetjee Jejeebhoy and Ayesha J. Jejeebhoy	06.25.70 12.2.2003
BC-16710	Rs. 3,00,000/-	Ameeta Bhanu Shah Bhanu Kantilal Shah Sarla Bhanu Shah	21.11.1988	Ameeta Bhanu Shah Bhanu Kantilal Shah Sarla Bhanu Shah	06.25.68 24.1.2003

List A

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Byculla, Mumbai Circle</u> <u>10% Relief Bond 1995 (GPH)</u>					
BC-16088	Rs. 4,00,000/-	Ameeta Bhanu Shah Bhanu Kantilal Shah Sarla Bhanu Shah	17.11.1998	Ameeta Bhanu Shah Bhanu Kantilal Shah Sarla Bhanu Shah	06.25.68 24.1.2003
BC-16714	Rs. 4,00,000/-	Ameeta Bhanu Shah Bhanu Kantilal Shah	21.11.1998	Ameeta Bhanu Shah Bhanu Kantilal Shah	06.25.67 24.1.2003
<u>9% Relief Bond 1999 (GPH)</u>					
BC-2252	Rs. 3,00,000/-	Ameeta Bhanu Shah Bhanu Kantilal Shah	25.2.1999	Ameeta Bhanu Shah Bhanu Kantilal Shah	06.25.67 24.1.2003

List A

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
	2	3	4	5	6
<u>Byculla, Mumbai Circle</u>					
<u>10% Relief Bond 1995 (GPH)</u>					
BC-9905	Rs. 50,000/-	C.S. Krishna Iyer Kamala Krishnan	12.4.1998	C.S. Krishna Iyer Kamala Krishnan	06.25.61 18.6.2002
<u>10% Relief Bond 1995 (GPM)</u>					
BC 2912 & BC 2913	Rs. 50,000/- Each	C.S. Krishna Iyer Kamala Krishnan	12.4.1998	C.S. Krishna Iyer Kamala Krishnan	06.25.61 18.6.2002

List "B"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1.	2	3	4	5	6
<u>Mumbai Fort Circle</u>					
<u>Government of India</u>					
<u>5 ½% Loan 1991</u>					
BY 011723 BY 011724	Rs. 1,000/- (aggregate)	Framroze Ardeshir Bade, Nashir Firojshaw Mehta, Ardeshir Nassorwanji Chinoy, Irah Ardeshir Nadirshaw, Jal Hormusji Ardeshir Vakil and Hemang Dhoomjishaw Batarwala or order	18.01.1989	Rahnumae Mazdayasnan Sabha	Case No.20.04.2241/42. General Manager's Orders dated 21.04.2003. C.O.Diary No.671 dated 2 nd May 2003.
<u>Byculla, Mumbai Circle</u>					
<u>9% Relief Bond 1987</u>					
GPA BC-7162	Rs.5,000/-	Freni Shapoorji Bhavnagri (Deceased) and Roshni Jimmy Bhavanagri	03.03.1988	Freni Shapoorji Bhavnagri (Deceased) and Roshni Jimmy Bhavanagri	06.25.58 23.3.2002

[Signature]
12.7.2003
(G M Paranjape)
p. Chief General Manager

BANK OF BARODA
(Head Office: Baroda)

HO:HRM:95:378A

Mumbai, 15.05.2003

**CORRIGENDUM TO NOTIFICATION PUBLISHED ON MARCH 15, 2003 IN THE
GAZETTE OF INDIA ON PAGES 3229 & 3255**

On page 3229,

(1) No. -

be read as

No. H.O.H.R.M.95/378

(2) 1. (1) These Regulations may be called the Bank of Baroda (Employees')
Pension (Amendment) Regulations, 2002

be read as

1. (1) These Regulations may be called the Bank of Baroda (Employees')
Pension (Amendment) Regulations, 2003.

On page 3255,

FOOT NOTE:

<u>Sr.No.</u>	<u>Notification No.</u>	<u>Dated</u>
1.		
2.		

be read as

FOOT NOTE:

<u>Sr.No.</u>	<u>Notification No.</u>	<u>Dated</u>
1.	NIL	NIL
2.	NIL	NIL


(Gurudas Chakrabarty)
General Manager(HRM)

INDIAN BANK, 66 RAJAJI SALAI.

Chennai-600 001, the 15th July 2003

No. SRC/47. In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Indian Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations, further to amend the Indian Bank Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976, namely:-

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

- (1) These Regulations may be called the Indian Bank Officer Employees' (Discipline & Appeal) Amendment Regulations 2003.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Bank Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations 1976 for regulation 18, the following regulation shall be substituted, namely:-

***18 Review:**

Notwithstanding anything contained in these regulations, the Reviewing Authority may at any time within six months from the date of the final order, either on his own motion or otherwise review the said order, when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come or has been brought to his notice and pass such orders thereon as it may deem fit.

Provided that -

(i) if any enhanced penalty, which the Reviewing Authority proposes to impose, is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) or (j) of Regulation 4 and an enquiry as provided under Regulation 6 has not already been held in the case, the Reviewing Authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of Regulation 6 and thereafter consider record of the enquiry and pass such orders as it may deem proper:

(ii) if the Reviewing Authority decides to enhance the punishment but an enquiry has already been held in accordance with the provisions of Regulation 6, the Reviewing Authority shall give show cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass an order after taking into account the representation, if any, submitted by the officer employee."



ASHOK KUMAR DHAR
DY. GENERAL MANAGER (PL)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 16th July 2003

No. U-16/53/03/Pb/Med.II :- In pursuance of the resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI(General) Regulation 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order no.1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise the following designated doctors to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms for one year from the date of joining or till the full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Punjab region or allocated by Regional Dy. Medical Commissioner(NZ) Delhi for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

<u>Sl.No.</u>	<u>Name of Designation of PMR</u>	<u>Centre</u>
1.	CMO, Ropar	Astron, Rail Maira, Tonsa, Banna, Fatehgarh.
2.	CMO, Bathinda	Bathinda and Contiguous area
3.	CMO, Mansa	Mansa
4.	SMO, Civil Hosp.Barnala	Barnala & Contiguous area
5.	SMO, Mandi Gobindgarh	Mandi Gobindgarh, Khanna, Sirhind

- | | | |
|-----|--|--|
| 6. | SMO, Civil Hospital,
Malerkotla | Malerkotla, Ahmedgarh, Jeetwal
Kala, Akbarpur |
| 7. | CMO, Sangrur | Sangrur |
| 8. | CMO, Moga | Moga, Kotkapura |
| 9. | CMO, Patiala | Patiala, Bahadurgarh, Nabha |
| 10. | SMO(Incharge), Civil
Hospital, Pathankot | Pathankot, Dina Nagar, Mukerian |
| 11. | SMO, ESI Hospital,
Hoshiarpur | Hoshiarpur, Salla Khurd |
| 12. | SMO, ESIH, Jalandhar | Jalandhar, Jagat Jit Nagar,
Harmira |
| 13. | SMO(Incharge) ESI
Hospital, Phagwara | Phagwara, Phillur, Goraya |
| 14. | ESI Hospital, Rajpura | Rajpura |
| 15. | SMO(Incharge) ESI Hosp.
Mohali | Mohali, Kharar, Chaparchiri,
Chanalon |
| 16. | M.S. ESIH(run by
Employees' State
Insurance Corporation)
Ludhiana | Ludhiana and contiguous area
all the 4 Los) |
| 17. | MS ESIH(run by ESIC
Chandigarh) | Chandigarh (Derabassi, Bhakanpur
Lalru)(L.O. Lalru) |

S. Singh
(DR. (MRS.) S. SINGH)
DY. MEDICAL COMMISSIONER.

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
HEAD OFFICE – BHAVISHYANIDHI BHAWAN
14- BHIKAIJI CAMA PLACE
 New Delhi-110 066, the 16th July 2003

No. Conf. 5(9)/97/MH/27085 In pursuance of Sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employee' Provident Fund Scheme 1952, hereafter referred as "Scheme" and in supersession of the Notification No. Conf.5 (9) 87/MH/870 Dt. 17.02.1994 issued by the Central Provident Fund Commissioner, published in The Gazette of India, Part – III, Section- 4 Dated 12.03.1994, the Chairman, Central Board of Trustees, Employees' Provident fund hereby sets up a Regional Committee for the State of Maharashtra consisting of the following persons namely: -


Sl. No.	Name & Designation	Appointed by Chairman of Central Board of Trustees (E.P.F.)
1.	The Principal Secretary (Labour) Govt. of Maharashtra, Industries & Labour Department, Mantralaya, Mumbai – 400 032.	Chairman [Under Para 4(1)(a)]
2.	The Commissioner of Labour Government of Maharashtra, Commerce Center, Tardeo, Mumbai – 400 034.	Official Members [Under Para 4(1)(b)]
3.	The Deputy Secretary (Dealing with Labour Matters) Government of Maharashtra, Finance Department, Mantralaya, Mumbai – 400 032.	
4.	Shri S.K. Buddhiraja Managing Director, National Rayon Corporation, Ewart House, Homi Modi Street, Fort, Mumbai – 400 023.	Members (Employers' Side) [Under Para 4(1)(c)]
5.	Shri Arun Jain Joint President, Zenith Steel Ltd. (Khopoli, District, Raigad), Moti Mahal, 195-Churchgate Reclamation, Mumbai – 400 020.	
6.	Shri Krishna Shivram Brid (INTUC) 203 A, Silver Ins Appt., Hatishankar Road, Prabhadevi, Mumbai – 400 025.	Members (Employees' Side) [Under Para 4(1)(d)]
7.	Shri Suryakant Bagai, (HMS) A-28, Vinit Nagar, Mumbai Port Trust Quarters, Kala Choki, Mumbai – 400 033.	

8.	Shri Avinash Krishnalal Dalal, 103, Vanguard Apartments, 61, west Clerk Road, Mahalaxmi, Mumbai -400 011.	<u>Employers' Representative</u> [Additional members under Proviso to Para 4(1) of the Scheme.]
9.	Shri Surendra M. Mardia, Mardia House, 96, C.P. Tank Road, Mumbai - 400 004.	
10.	Shri Vijay G. Kalantri, 2, Wahedna Apartments, 75, Hill Road, Bandra (West) Mumbai - 400 050.	
11.	Shri Viswanath Satam, (BMS) Kanishtha Cooperative Housing Society, 12/120, Sahakar Nagar No. 1, Chembur, Mumbai - 400 071.	<u>Employees' Representative</u> [Additional members under proviso to Para 4 (1) of the Scheme.]
12.	Shri Shyam Deshmukh, 25, Ramkrishan Nagar, Khagala, Nagpur - 25 (Maharashtra).	
13.	Shri Ram Sharan Kanoujia, 21/7, Empress Mill Qtrs. Opp. Chacha Nehru Bal Bhawan, Subhash Road, Nagpur (Maharashtra)	
14.	Shri Ram Tarneja, Chairman, Bombay School of Business Gotejoy Building, Rambhau Salgoankar Marg, Cuffe Parade, Mumbai -400 055.	Non-Official Members being members of CBT [Under Para 4(1)(e)]

The Regional Commissioner, In - charge of the Maharashtra Region shall be the Secretary of the Regional Committee.

The term of office of the Chairman and every member of the Regional Committee shall be three years commencing on and from the date on which their appointment is notified in the Official Gazette. However, every member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

This will come into force with immediate effect.



(AJAI SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

The Institute of Chartered Accountants of India*[Set up under an Act of Parliament]*

New Delhi-110002, the 17th July 2003

No. 13-CA (EXAM)/N/2003 :- In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Professional Education - I, Professional Education -II and Final examinations will be held on the dates given below at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre :-

PROFESSIONAL EDUCATION- I EXAMINATION :

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 25-B (4) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

6th, 7th, 10th and 11th November, 2003

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

PROFESSIONAL EDUCATION- II EXAMINATION :

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 28-B (5) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

Group-I : 1st, 3rd and 4th November, 2003**Group-II : 5th, 6th and 7th November, 2003**

(Afternoon Session – 12.30 p.m. to 3.30 p.m.) (IST)

FINAL EXAMINATION :

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 31 (2) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

Group -I : 1st, 3rd, 4th and 5th November, 2003**Group -II : 6th, 7th, 10th and 11th November, 2003**

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

EXAMINATION CENTRES :**(I) CENTRES IN INDIA :**

1	AGRA	24	COIMBATORE	47	JODHPUR	70	PUNE
2	AHMEDABAD	25	CUTTACK	48	KANPUR	71	RAIPUR
3	AJMER	26	DEHRADUN	49	KOLHAPUR	72	RAJKOT
4	AKOLA	27	DELHI/NEW DELHI	50	KOLKATA	73	RANCHI
5	ALLAHABAD	28	DHANBAD	51	KOTA	74	ROHTAK
6	ALLEPPEY	29	DURG	52	KOTTAYAM	75	SAHARANPUR
7	ALWAR	30	ERNAKULAM	53	LUCKNOW	76	SALEM
8	AMBALA	31	FARIDABAD	54	LUDHIANA	77	SHIMLA
9	AMRITSAR	32	GAUHATI	55	MADURAI	78	SILIGURI
10	ASANSOL	33	GHAZIABAD	56	MANGALORE	79	SOLAPUR
11	AURANGABAD	34	GOA	57	MATHURA	80	SURAT
12	BANGALORE	35	GURGAON	58	MEERUT	81	TIRUCHIRAPALLI
13	BAREILLY	36	GWALIOR	59	MORADABAD	82	TRICHUR
14	BARODA	37	HISAR	60	MUMBAI	83	TRIVANDRUM
15	BATHINDA	38	HUBLI	61	MUZAFFARNAGAR	84	UDAIPUR
16	BELGAUM	39	HYDERABAD	62	MYSORE	85	UDUPI
17	BHILWARA	40	INDORE	63	NAGPUR	86	UJJAIN
18	BHOPAL	41	JABALPUR	64	NASIK	87	VARANASI
19	BHUBANESWAR	42	JAIPUR	65	NOIDA	88	VIJAYAWADA
20	BIKANER	43	JALANDHAR	66	PALGHAT	89	VISAKHAPATNAM
21	CALICUT	44	JALGAON	67	PANIPAT	90	YAMUNANAGAR
22	CHANDIGARH	45	JAMMU	68	PATIALA		
23	CHENNAI	46	JAMSHEDPUR	69	PATNA		

(ii) OVERSEAS CENTRES :

1) DUBAI (UAE)	2) KATHMANDU (NEPAL)
----------------	----------------------

Payment of fees for the examinations should be made by Demand Draft only. The Demand Drafts may be of any Nationalised Bank and should be drawn in favour of the Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi only.

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason.

Applications for admission to these examinations are required to be made on the relevant prescribed form, copies of which may be obtained from the Joint Secretary (Examinations), The Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi – 110 002 on payment of Rs.50/- per application form. The forms are also available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained therefrom on cash payment on or from 5th August, 2003.

Applications together with the necessary certificates and the prescribed fee by Demand Draft of any Nationalised Bank may be sent so as to reach the Joint Secretary (Examinations) at New Delhi not later than 26th August, 2003. However, applications will also be received direct by Delhi Office after 26th August, 2003 and upto 2nd September, 2003 with late fee of Rs. 200/-. Applications received after 2nd September, 2003 shall not be entertained under any circumstances. Applications will also be received by hand delivery at the office of Institute at New Delhi and at the Decentralised Offices of the Institute at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Jaipur and Pune upto 26th August, 2003.

Candidates residing in these cities are advised to take advantage of this facility.

The fees payable for the various examinations are as under :-

PROFESSIONAL EDUCATION- I EXAMINATION :

Fee	Rs. 700/-
-----	-----------

PROFESSIONAL EDUCATION- II EXAMINATION :

For Both the Groups	Rs. 750/-
For One of the Groups	Rs. 450/-

FINAL EXAMINATION:


For Both the Groups	Rs. 900/-
For One of the Groups Only	Rs. 550/-

Candidates of Professional Education - I, Professional Education - II and Final examinations opting for Dubai Centre are required to remit US\$ 150 or its equivalent Indian Currency irrespective of whether the candidates appear in a single paper, in a group or in both the groups.

Candidates of Professional Education - I, Professional Education - II and Final Examinations opting for Kathmandu centre are required to remit Indian Rs.1200/- or its equivalent relevant foreign currency irrespective of whether the candidates appear in a single paper, in a group or in both the groups.

OPTION TO ANSWER PAPERS IN HINDI :

Candidates of Professional Education - I, Professional Education - II and Final Examinations will be allowed to use the Hindi medium for answering papers. Detailed information will be found printed in the Information sheets attached to the relevant application form.



(V. SESHADRI)
JOINT SECRETARY (EXAMS.)

Kanpur-208001, the 15th July 2003
(Chartered Accountants)

JCCA(4) (2)/2002-2003 : In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20 (1) (c) of the chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute with effect from 01/10/2002 on account of non-payment of prescribed fees, the names of the following Members :-

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
1.	001678	Mr. TANEJA CHETAN DAS 117/H-2/145, PANDU NAGAR, KANPUR	10.	012941	Mr. ROHIT KUMAR A-34, SECTOR 14 NOIDA - 201301
2.	002197	Mr. AGARWAL CHAND MAL ALUDA HOUSE SMS HIGHWAY, JAIPUR - 302003	11.	013085	Mr. NAHATA CHANDANMAL B-304, VARNDAVAN APARTMENT, D-2, MEERA MARG, BANI PARK, JAIPUR - 302016
3.	004313	Mr. LODHA PRASANN MAL MOHABAT MAL 10 GANGWAL PARK JAIPUR - 302006	12.	013856	Mr. NAGPAL JITENDRA KUMAR E-9, HARI LANE, MITTAL COLONY, DHOLPUR
4.	004565	Mr. ASTHANA KRISHNA MOHAN II PANCHVATI APARTMENTS 8/60, ARYA NAGAR KANPUR - 208002	13.	014093	Mr. BALLODIA OM PRAKASH 31/B, NEHRU NAGAR (W) DISTT. DURG BHLAI - 490001
5.	006151	Mr. YOGESH KUMAR MOHAN OPP. NO. 8, FAIZABAD ROAD, NEAR CENTRAL BANK, LUCKNOW - 226007	14.	015238	Mr. SUBRAMANIAN CHANDRASEKARAN MANAGER ACCOUNTS, TATA CHEMICALS LTD., DISTT. BUDAUN, BABRALA - 202521
6.	008736	Mr. SHUKLA SHRI GOPAL 16/95, THE MALL KANPUR - 208001	15.	017182	Mr. PRASAD RAJINDER E-7/413, HIG, ARERA COLONY, BHOPAL-462016
7.	009989	Mr. SRIVASTAVA SATYENDRA NATH 7A/171, AZAD NAGAR KANPUR - 208002	16.	017554	Mr. VAID SANTOSH KUMAR PROJECT & DEVELOPMENT INDIA LTD. PDIL BHAWAN A-14, SECTOR I, NOIDA - 201301
8.	010427	Mr. JAIN VARDI CHAND 115, CHETAK CENTRE ANNEX 12/2, RNT MARG, INDORE - 452001	17.	028311	Mr. DANIEL P 5, THE MALL JABALPUR - 492001
9.	011468	Mr. BHACHAWAT RAJENDRA KUMAR 18 MAROTHIYA BAZAR, I & IIIRD FLOOR, INDORE - 452002			

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
18.	034676	Mr. MAHESHWARI ASHOK KUMAR 20 JAIN BOARDING MARG, UDAIPUR - 313601	28.	055846	Mr. MATHUR JITENDRA 11/25, J ANU KRAN COLONY, VIA KOTA, BHABHA NAGAR - 323307
19.	041836	Mr. MASCARENHAS MICHAEL VINCENT C/O AUDREY MASCARENHAS, LOGICA P.O. BOX - 28379, LOGICA DUBAI	29.	058057	Mr. GUPTA DIPAK KUMAR 20 PRITVIHAR, SURENDRA NAGAR, LUCKNOW.
20.	042813	Mr. SHAH RAJU JAYANTI LAL, BUILDING E-28, FIRST FLOOR, NOOPUR KUNJ, E-3, ARERA COLONY, NEAR SHALIMAR ENCLAVE, BHOPAL - 462016	30.	058382	Mr. MAHESHWARI VISHAL INDIAN OIL CORPORATION LTD., RAJASTHAN STATE OFFICE, NEAR RADHASWAMI SATSANGI BHAWAN ADARSH NAGAR, JAIPUR - 302004
21.	043117	Mr. SOMANI SANJAY KUMAR BELAIR APPARTMENTS, 'B' BLOCK, FLAT NO. 4C, 4TH FLOOR, BESIDE MAHAVIR TOWERS, MAIN ROAD, RANCHI - 834001	31.	058829	Mr. KUNDU SAMBIT TIMKEN INDIA LTD. SR ACCOUNTS OFFICER, BARA PO : AGRICO, JAMSHEDPUR - 831008
22.	043167	Mr. ASHAWA BHANU PRAKASH C/O ROHIT MOHIT SMRUTI SANSTHAN, BEHIND HOTEL CLARKS AMER, JAIPUR	32.	059791	Ms. MUKHERJEE PAROMITA SR OFFICER TATA STEEL, CAPITAL ACCOUNTS GROUP, GENERAL OFFICE, 2ND FLOOR, JAMSHEDPUR - 831001
23.	047908	Mr. RAAZ SALEEM AKBAR 59, NEW SAIFEE NAGAR MANIK BAG ROAD, INDORE - 462014	33.	059985	Mr. GUPTA SAMRAT ACCOUNTS OFFICER, INDIAN OIL CORPORATION LTD., BARAUNI REFINERY, DT. BEGUSARAI, BARAUNI - 801114
24.	048285	Ms. MATHELI ABHAY APTE MODERN X RAY CLINIC, M L B ROAD, L ASHKAR, GWALIOR - 474009	34.	060008	Mr. SINGH SHANKAR KUMAR SRIKRISHNA NAGAR COLONY, NAYA CHAK ISHAK CHAK, MIRJANHAT ROAD, BHAGALPUR
25.	049464	Mr. CHOPRA SUNIL 90, INDIRA MARKET, BHILWARA - 311001	35.	070173	Mr. NEERAJ KUMAR 257, RAM BAGH ROAD, MUZAFFARNAGAR - 201001
26.	054900	Mr. KHANDLWAL RAMSWAROOP AREA ACCTS OFFICER CCL, AT P O ARGADA, DISTT. HAZARIBAGH-829101	36.	070197	Mr. SODHA RANVIR SINGH NEAR LAJMI DHARAMKANTA, HAMA SARAK 22 GODOWN, JAIPUR - 302008
27.	055500	Mr. KOTHARI DEO KISHAN UNI WORTH LIMITED 923-945, URLA GROWTH CENTRE, INDUSTRIAL AREA, P.O. : SARORA (C.G.) RAIPUR - 493221			

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
37.	070407	Mr. MATHUR PREM BEHARI GROUND FLOOR "SAI DEEP" BUILDING 7/29, TILAK NAGAR KANPUR - 208002	49.	071063	Mr. BHATTAD SUBHASH MURLIDHAR DIRECTOR, AJMER GASSES F 58-59, INDUSTRIAL AREA, PARBHATPURA, AJMER - 305002
38.	070410	Mr. RAJESHWAR SHARAN R-2/201 RAJ NAGAR GHAZIABAD - 201002	50.	071103	Mr. DAGAR SATYAVIR SINGH SAWAI JAI SINGH HIGHWAY, M-5, NEW MARKET BANI PARK, JAIPUR - 302006
39.	070575	Mr. AGARWAL PRADEEP KUMAR CHETAN COMMERCIAL COMPLEX, CHHIPI TANK, MEERUT - 250001	51.	071116	Mr. GUPTA SUNIL C/O FERRO CAN, 6 AMRIT KAJUR ROAD, DEHRADUN - 248001
40.	070639	Mr. KOTHARI VINAY F FH-194, SCHEME NO.54, INDORE - 452010	52.	071146	Mr. AJMANI RAJIV C/O ASSET, 113/27, SWAROOP NAGAR, KANPUR - 208002
41.	070672	Mr. SHRI NARAIN AGARWAL 117/K-73, TAPSYA APPARTMENTS, SARVODAYA NAGAR, KANPUR - 208005	53.	071250	Mr. SETH SANJAY 28/82, GANGA TRADING BUILDING BIRHANA ROAD, KANPUR - 208001
42.	070688	Mr. MISHRA AMAR NATH 7/02, JAGAT TRADE CENTRE, FRASER ROAD, PATNA - 800001	54.	071277	Mr. SRIVASTAVA SURESH CHANDRA 5/552, VIKAS NAGAR LUCKNOW
43.	070719	Mr. BALDI RAJA RAM BALDI VILLA, A. 3/2, VED NAGAR, UJJAIN - 456010	55.	071449	Mr. AGARWAL RAJEEV KUMAR CHETAN COMMERCIAL COMPLEX, CHHIPI TANK, MEERUT - 250001
44.	070739	Mr. MATHEW NELSON 154, KAILASH NAGAR, RAJNANDGAON - 494441	56.	071512	Mr. CHOUDHARY SUNIL 771, SAI KRIPA COLONY, OPP BOMBAY HOSPITAL, INDORE
45.	070740	Mr. RIZVI AKHTAR JAMAL 20/153, INDIRA NAGAR, LUCKNOW - 226016	57.	071527	Mr. KHANDLWAL RAJENDRA KR. C/43-44, RISHI NAGAR, UJJAIN - 456010
46.	070753	Mr. JAIN PRAMOD 24 MABELLE AVENUE (SUITE # 2107) ONM9A4X8 TORONTO CANADA	58.	071564	Mr. UMESH CHANDRA KANSAL AREADE CHHIPI TANK, MEERUT - 250001
47.	071003	Mr. ARYA MAHESH CHAND 169-A, KRISHNA NAGAR BHARATPUR - 321001	59.	071582	Mr. SRIVASTAVA ARUN KUMAR THIRD FLOOR, SURAJ DEEP COMPLEX, 1 JOPLING ROAD, LUCKNOW - 226001
48.	071035	Mr. TEWARI HARENDRA KUMAR DEPUTY CHIEF FINANCE MANAGER, NORTHERN COALFIELDS LTD. P.O. NIGAH PROJECT, SIDHI - 486884			

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
60.	071592	Mr. PANDIYA RAMESH CHANDRA B-1017, INDIRA NAGAR, LUCKNOW	72.	072082	Mr. RAM AVTAR KASHI SAHKARI CHINI MILLS LTD., AURAI, (U.P.) SANT RAVI DAS NAGAR
61.	071597	Mr. GUPTA DINESH CHANDRA CHIEF ACCOUNTANT SARJOO SAHKARI CHINI MILLS LTD., BELRAYAN LAKHIMPUR KHERI	73.	072832	Mr. SAH SHANKAR PRASAD 10 GEETA COMPLEX, 3RD FLOOR, FAST BORING, CANAL ROAD, NEAR BORING ROAD CROSSING, PATNA-800001
62.	071678	Mr. OSWAL SUNIL 3957 K G B KA RASTA, JOHARI BAZAR, JAIPUR - 302003	74.	072250	Mr. RIHAN AHMAD 7 GULZAR COLONY, NEW BERRY ROAD, LUCKNOW - 228001
63.	071711	Mr. AGRAWAL ABHAY K 'MAR D 124, SECTOR 41, NOIDA - 201303	75.	072270	Mr. AGRAWAL KESHAVA PRASAD NARAYAN KUTIR, PARK ROAD, GORAKHPUR - 273009
64.	071714	Mr. MANGAL ASHOK FILM COLONY, CHORA RASTA, JAIPUR	76.	072294	Mr. DATTA PRABIR KUMAR 421, MARKHAM ROAD APT # 709, SCARBOROUGH, ON, M1J 3E2, TORONTO, CANADA
65.	071813	Mr. BERIWAL ANAND KUMAR KHUSHBOO, C-435, SAMTA COLONY, RAIPUR - 492009	77.	072377	Mr. BISHWAJIT CHOWDHURY SAIL MT I P O DORANDA, RANCHI - 834002
66.	071818	Mr. BHARGAVA YOGESH Y BHARGAVA & ASSOCIATES 67, UNIVERSITY ROAD, UJJAIN - 456001	78.	072453	Mr. SABOO GHANSHYAM DAS 16 KRISHNA NAGAR 3 DUKAN, DHER KA BALAJI, JAIPUR
67.	071831	Mr. JAIN VINOD KUMAR C/O ABHINAV ANIL & ASSOCIATES 75/6, HALSEY ROAD, KANPUR - 208001	79.	072454	Mr. PRAVEEN KUMAR GUR MANDI, HANUMANGARH TOWN, SRIGANGANAGAR - 335001
68.	071891	Mr. BAJPAI SHISHIR M-8, BADSHAH BAGH, FATMAN ROAD, VARANASI - 221002	80.	072512	Mr. DUTTA ARUN KUMAR MCROBERT HOSPITAL BUNGALOW, 14/112, CIVIL LINES, KANPUR - 208001
69.	072025	Mr. VERMA DINESH KUMAR SATYA BHAWAN, KHAILAND MARKET, AJMER	81.	072546	Mr. JAIN SUDHIR KUMAR 408, VIKRAM TOWER SAPNA SANGEETA ROAD, INDORE
70.	072029	Mr. GUPTA ANIL KUMAR 75/6, HALSEY ROAD, KANPUR - 208001	82.	072583	Mr. MAHESHWARI SUNIL KUMAR DWARKADAS M-20, MAHESH COLONY, TONK PHATAK, JAIPUR - 302015
71.	072069	Mr. SHABBAR HUSAIN 1 BELDARPURA OPP SAIFIA COLLEGE, BHOPAL - 462001			

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
83.	072803	Mr. JAIN SUDHIR R-1/51, RAJ NAGAR GHAZIABAD - 201001	93.	073424	Mr. KHANDELWAL SURESH CHANDRA C/O MODI RUBBER LIMITED, 173A DELHI ROAD, OPP AJANTA CINEMA, MEERUT - 250002
84.	072814	Mr. GARG ANIL ANIL KAMAL GARG & COMPANY KUBER PALACE, 35, JAORA COMPOUND, OPP MY HOSPITAL INDORE - 462001	94.	073745	Mr. CHATURVEDI KRISHNA CHANDRA 1ST FLOOR SHARDA MARKET, CHHATTA BAZAR, MATHURA - 281001
85.	072831	Mr. AGARWAL KAUSHAL KUMAR 84, NARAIN VIHAR NEAR RAM MOHAN NAGAR, SIKANDRA BADLA ROAD, AGRA-282007	95.	073793	Mr. SHARMA PRADEEP KUMAR 162, SUPER BAZAR MORADABAD-244001
86.	072823	Mr. SWARAN SINGH 104A/378, RAMBAGH, KANPUR - 208012	96.	073829	Mr. GUPTA ALOK KUMAR 113/34, SWAROOP NAGAR, KANPUR - 208001
97.	072848	Mr. JAIN AJAY KUMAR AJAY BHAWAN, GANESH RAM NAGAR, RAIPUR - 482001	97.	073940	Mr. CHATURVEDI SANJAY FH-44, SCHEME NO.54, INDORE - 425010
88.	072850	Mr. GOYAL DINESH KUMAR M/S. GOYAL DINESH & ASSOCIATES S.P.7-A, BHABHA MARG, TILAK NAGAR, JAIPUR - 302004	98.	074006	Mr. SHARMA ANIL KUMAR FLAT NO. T-2, MANJUSHA APARTMENTS, B-7, RAMPRASTHA, GHAZIABAD-201011
89.	073015	Mr. GARG SHASHI KUMAR 1 ASHISH VIHAR ASHISH NAGAR KANADIA ROAD, INDORE	99.	074068	Mr. BISHARIA SHELENDRA KUMAR NEAR RAILWAY CROSSING OPP JYOTI COMPLEX, GAJRAULA
90.	073067	Mr. JAIN SAURABH F-137, SECTOR 41, NOIDA - 201303	100.	074068	Mr. KHURDIA RATAN LAL 178 ASHIWINI MARG HUMAD HOUSE, DELHI GATE, UDAIPUR - 313001
91.	073117	Mr. RAKESH KUMAR 283/102 SANJAY PLACE AGRA - 282002	101.	074186	Mr. VISHWANATH V 315 MURLI BHAWAN LUCKNOW - 226001
92.	073362	Mr. SHARMA RAJVARDHAN RAJVARDHAN & CO. 2/336, NAMNAIR AGRA CANTT, AGRA-282001	102.	074286	Mr. PAREEK RAVINDRA 303 & 304 SHRI GOPAL TOWER ASHOK MARG, AHINSA CIRCLE, C SCHEME, JAIPUR - 302001
			103.	074333	Mr. SHARMA NAVEEN KUMAR PO BOX NO. 26764, DUBAI UAE
			104.	074341	Mr. JHANWAR OM PRAKASH C/O BALAJI PRODUCTS, RAI KA BAGH, JASOL, DIST. BARMER, BALOTRA

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
105.	074405	Mr. JAIN DINESH ROOP KAMAL 13, BANK COLONY, NAVRANG NAGAR BEWAR - 305901	114.	074689	Mr. GOYAL MUKESH 18, NEW MARKET, JEONI MANDI, AGRA - 282004
106.	074427	Mr. SACHDEVA HARISH CHANDRA 306 IIIRD FLOOR ASTHANA TOWER, 117/H-1/383 PANDU NAGAR, KANPUR - 208005	115.	074699	Mr. BAPNA VINOD KUMAR * 643 PUSHP VIHAR, KISHANPOLE BAZAR, JAIPUR - 302001
107.	074459	Mr. MISHRA JAYANT J MISHRA & CO. 305 SHANIWAR DARPAN B JIL DING, 27 PRESS COMPLEX A B ROAD INDORE - 452008	116.	074700	Mr. SINGH SANJEEV KUMAR ACCOUNTS OFFICER (INTERNAL AUDIT) TATA YODODWA LTD. GAMHARIA, SINGHBHUM - 832108
108.	074490	Mr. HALDIA RAKESH PLOT NO.92, SCHEME NO 5, MANGAL VIHAR, ALWAR - 301001	117.	074813	Mr. AGGARWAL SOM PRAKASH 4-A-6 JAWAHAR NAGAR, SRIGANGANAGAR - 335001
109.	074520	Mr. GUPTA ASHOK KUMAR 234 SHREE SHANKAR NIKETAN, ADARSH NAGAR, AJMER ROAD, BEAWAR - 305901	118.	074889	Mr. LODHA SUNIL KUMAR 21, MAHAVEER NAGAR, OPP. DARSHAN TALKIES, JAORA ROAD, RATLAM - 457001
110.	074540	Mr. AGARWAL RAVI KUMAR 15/32, SARON KATRA SHAHGANJ, AGRA - 282010	119.	074901	Ms. GROVER SHARMILA D-24, SECTOR-26, DISTT. GAUTAM BUDH NAGAR NOIDA
111.	074580	Mr. KOTHARI JITENDRA JITENDRA KOTHARI & CO. 45/59, NURSINGHPUR, FOYSAGAR ROAD, AJMER - 305001	120.	074957	Mr. RAGHUVANSHI SANDEEP B 59 SEC. A., MAHANAGAR, LUCKNOW - 226001
112.	074597	Mr. AJAY KUMAR JT MANAGER FOOD CORPORATION OF INDIA, 5-6, HABIBULLAH ESTATE, HAZRATGANJ, LUCKNOW - 226001	121.	074997	Mr. ATUL GOPATI 18 PRATAP NAGAR II, TONK PHATAK, JAIPUR - 302015
113.	074639	Mr. JANG'D RAKESH KUMAR 26 SHYAM COLONY, NEAR NAYA BUNGLOW, OPP SRIRAM MANDIR SITARARI, TONK ROAD PO SANGANER AIRPORT JAIPUR - 302011	122.	075021	Mr. BHATI PRAMOD KUMAR P K BHATI & CO. SB-118, SHASTRI NAGAR, GHAZIABAD - 201002
			123.	075135	Mr. BANSAL VIKAS 46 PURANI MANDI FIROZABAD-283203
			124.	075454	Mr. MISHRA BRIJENDRA KUMAR 117/P-1/555, SHIVPURI KAKADEO, KANPUR
			125.	075601	Mr. MALHOTRA RAVI DY. MANAGER (TAXATION) HMT LTD., BEAWAR ROAD, AJMER - 305003

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
126.	075677	Mr. AGRAWAL ARUN KUMAR F-69, SUBHASH MARG, C SCHEME, JAIPUR - 302001	136.	075911	Mr. GOEL VIKAS 65 SHIVPURI, SYNDICATE BANK BUILDING, MEERUT - 250001
127.	075689	Mr. SARMA RAJEEV A-57/1, AMANI SHAH ROAD, SHASTRI NAGAR, JAIPUR	137.	075914	Mr. SUNIL CHAND C/O OM PRAKASH 84/191, MANURAJ MARG, MANSAROWAR, JAIPUR - 302020
128.	075714	Mr. GUPTA ATUL KUMAR 21 VIEKANAND WARD BAL DEOBAGH, JABALPUR	138.	075920	Ms. PUNTAMBEKAR VINITA 104 RANI SATI APARTMENT, 60 AHILYA MATA COLONY, NEAR CHARAK HOSPITAL, INDORE
129.	075719	Mr. JAIN VINOD G-246 SHASTRI NAGAR, JODHPUR - 342003	139.	075944	Mr. BHANDARI KAMLESH 1/332, MALVIYA NAGAR, JAIPUR - 302017
130.	075725	Mr. AJMERA NAVEEN NEAR NCC OFFICE, SINDHU NAGAR, BHILWARA - 311001	140.	075955	Mr. GAGAR DEEN BANDHU D-255, SHASTRI NAGAR, JODHPUR
131.	075747	Mr. SETHI ANSHUL 2 SHIV MARG, BEHIND GOVERNOR HOUSE, CIVIL LINES, JAIPUR - 302006	141.	075958	Mr. DEVENDRA KUMAR C/O DR BINOD KUMAR ARYA, LINE TANK ROAD, CHADRI, RANCHI - 834001
132.	075757	Mr. MALPANI JALAJ KUMAR ASSTT. MANAGER (FINANCE) COST & BUDGET SECTION, ISPAT BHAWAN, BOKARO STEEL PLANT, BOKARO - 827001	142.	075967	Mr. JHA LALIT KUMAR SHASTRI NAGAR, KHADI BHAWAN, RAMANA, MUZAFFARPUR - 842002
133.	075762	Mr. SHARMA ANIL KUMAR M-8, NEW MARKET, S J S HIGHWAY, JAIPUR - 302016	143.	076012	Mr. SHUKLA AKHILESH 117/22, 1ST FLOOR, SAROVDAYA NAGAR, KANPUR - 208006
134.	075810	Mr. HIRANI MALIK OPPOSITE MINING COLLEGE, PANDAY NAGAR ROAD, SHAHDOOL - 484001	144.	076136	Ms. MADAN JYOTSANA 1000/2, SHASTRI NAGAR, MEERUT - 250001
135.	075852	Mr. AGRAWAL MAHENDRA KUMAR D-63, SWAAI MADHO SINGH ROAD, BANIPARK, JAIPUR - 302016	145.	076157	Mr. AGARWAL BAJRANG LAL C/O DWARKA PRASAD AGARWAL, P.O. CHARAWAS, VIA - CHIRAWA, JHUNJHUNU-333001
			146.	076197	Mr. PAREEK MANOJ KUMAR PLOT NO. 30, KALYAN COLONY TONK PHATAK, JAIPUR - 302015
			147.	076208	Mr. KAWADKAR VIJAY RENUKA C-190 A, SHAIENDRA NAGAR, RAIPUR-492001

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
148.	076221	Mr. BIRLA SHASHI E-98, A D M COLONY, HINDALCO, DISTT. SONBHADRA RENUKOOT - 231217	159.	076828	Mr. GUPTA DEEPAK PREM CHUNARIA BUILDING, STATION ROAD, MORADABAD-244001
149.	076336	Mr. ROHIT HARI 11 ASTLEY HALL, DEHRADUN - 248001	160.	076852	Mr. KHAMESRA KAPIL E-58, ADM. COLONY, RENUKOOT, SONEBHADRA-231217
150.	076379	Mr. VIRENDRA KUMAR 240, A MAL GODAM ROAD, SHYAM PARK MAIN SAHIBABAD, GHAZIABAD - 201005	161.	076952	Mr. SAMTANI PAWAN PLOT NO. 314/5, SECTOR 11, NOIDA
151.	076431	Mr. SINGH SANTOSH KUMAR 620/63, W BLOCK, TULSI VIHAR, KANPUR	162.	077048	Mr. GARG SUNIL KUMAR 1 AASHISH VIHAR ASHISH NAGAR KANADIA ROAD, INDORE - 452001
152.	076477	Mr. MANISH CHANDA SHAHEED GANJ, SAHARANPUR - 247001	163.	077135	Mr. BANSAL MUKESH SF-8 S D COLLEGE COMPLEX NEAR CIVIL HOSPITAL, G.T. ROAD, GHAZIABAD - 201009
153.	076479	Ms. POONAM C/O SHRI S K SAXENA B-279, SECTOR 26, NOIDA - 201301	164.	077143	Ms. TANDON RITU A 230, SECTOR 19, NOIDA - 201301
154.	076512	Mr. SISODIA YOGESH KUMAR BAZAR NO.2, BHILWARA - 311001	165.	077190	Mr. FAIZ UDDIN FAIZI C/O BIN ZAYED GROUP, (ACCOUNTS DIV.) P.O. BOX # 11092, DUBAI - U A E
155.	076595	Mr. GUPTA ASHOK KUMAR C-2, ARIHANT COMPLEX, NAHARGARH ROAD, JAIPUR - 302001	166.	077226	Mr. DHANUKA MANOJ C/O RAJESH SODANI, 301 JEEVAN APARTMENT, 28/2 RACE COURSE ROAD, INDORE - 452001
156.	076656	Mr. SULTANIA SANDEEP KUMAR LBSNAA CHARI EVILLE, MUSSOORIE - 278179	167.	077287	Mr. AGARWAL VIJAY KUMAR D-55, JYOTI MARG, BAPU NAGAR, JAIPUR - 302015
157.	076685	Mr. MAHESHWARI VISHAL 117 H-1/244, PANDU NAGAR, KANPUR - 208005	168.	077363	Mr. KHURANA NAVEEN SF-8 S D COLLEGE COMPLEX, NEAR CIVIL HOSPITAL, G.T. ROAD, GHAZIABAD - 201009
158.	076719	Mr. JHANWER DINESH CHANDER C/O SHRI NAND KISHOR PORWAL 354 SECTOR 6 SHIV COLONY, HIRAN MAGRI, UDAIPUR			

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
169.	077382	Mr. KALL DINESH KUMAR 115, IIND FLOOR, BAPU BAZAR, UDAIPUR - 313001	180.	077838	Ms. HAJRA SRIRUPA B-109, SECTOR - 27, NOIDA - 201301
170.	077447	Mr. BHANDARI RAKESH 331-332, GANPATI PLAZA, M.I. ROAD, JAIPUR - 302001	181.	077912	Mr. CHAUHAN AMIT D-17, JAMUNA NAGAR, AJMER ROAD, SODALA, JAIPUR - 302001
171.	077505	Mr. TANDON RAJIV 31 MANOHAR NAGAR, HARDOI ROAD, RADHAGRAM, LUCKNOW - 226003	182.	077916	Mr. SETHI VINEY 72 ALKAPURI, SHOPPING COMPLEX, ALWAR - 301001
172.	077546	Mr. MIRANI VIKESH EMIRATES BANK, PO BOX 2923, DUBAI UAE	183.	077927	Mr. AMIT MODANI INDUSIND BANK LTD., 15 A B ROAD, OLD PALASIA, INDORE - 00
173.	077554	Mr. DASHPUTR E MAJISH 594, SANEH NAGAR INDORE - 452001	184.	077982	Ms. MANISHA LODHA 497-98, NAMAK KI MANDI, KISHAN POLE BAZAR, JAIPUR - 302001
174.	077645	Mr. AGARWAL HAF SH 403/1, GADHAN NIWAS, O/S SOCIETY GATE, JODHPUR	185.	078057	Mr. BANSAL DEVENDRA C/O M/S. ANIL KAMAL GARG, & COMPANY, KUBER PALACE, 1ST FLOOR 35 JAORA COMPOUND, INDORE
175.	077719	Mr. JODIA NIL ESH KUMAR 4, KANGAL COLONY DEVANSH, GATEWAY NAGAR, AJMER ROAD, DIST. AJMER, BEAWAR-305901	186.	078060	Mr. AGARWAL PANKAJ A-280, SECTOR 19, NOIDA - 201301
176.	077725	Mr. SHAH HIM ANSHU KUMAR 80 JAYANTI W NUNJ, BEHIND MAHESH HOSTEL, OPP. BOMBAY MOTORS CHAUPANINI ROAD, JODHPUR	187.	078091	Mr. BANSAL ATUL KUMAR 71 BANK COLONY, NAVRANG NAGAR, BEAWAR - 305901
177.	077747	Ms. VIJAY LAKSHMI SHIV MANDIR MARKET, GOLGHAR, GORAKHPUR - 273001	188.	078112	Mr. POKHARNA RAKESH POKHARNA SADAN, HATTHI BHATA, AJMER
178.	077763	Mr. NARUKA NARENDRA SINGH A 13, ADARSH COLONY, SHANTI NAGAR, JAIPUR - 302003	189.	078115	Mr. MUKHERJEE AMITABH 113-D. MALHOTRA HOUSE, BEHIND COMMERCIAL AUTOMOBILES, NAPIER TOWN, JABALPUR
179.	077813	Mr. DHARMESH KUMAR 1ST FLOOR NALANDA JUNIOR ACADEMY, KHANDAK PUR, BIHARSARIF, NALANADA			

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
190.	078156	Mr. BOMB BHARAT DWARKESEH MARKET, NEAR BUS STAND, KANKROLI - 1	202.	078432	Mr. MUNISH KUMAR MITTAL C/O ATUL KUMAR GOEL A-72, ASHOK NAGAR, GHAZIABAD
191.	078169	Mr. BISWAS UTTAM KUMAR FINANCE DIVISION, M/S. TELCO LTD., JAMSHEDPUR - 831010	203.	078466	Mr. SRIVASTAVA RAVI KUMAR 1 SHIV CHARAN LAL ROAD ALLAHABAD - 211003
192.	078173	Mr. SANJAY KUMAR OPP ZILA SHAKARI BANK STATION ROAD, BADAUN	204.	078484	Ms. SHUKLA JAGRITI H NO. 143, ANAND NAGAR, RAIPUR - 492001
193.	078209	Mr. AGRAWAL MANISH THIRD FLOOR SURAJ DEEP COMPLEX, LUCKNOW.	205.	078514	Mr. PODDAR NARESH KUMAR INDIAN OIL NAGAR, SITE-II D-40, SECTOR - 55, NOIDA - 201301
194.	078259	Mr. RAJAN PRANAMI 1/5. SINDHI COLONY, RAILWAY ROAD, FARRUKHABAD-209625	206.	078518	Mr. AGARWAL SANJAY F&A O (F&A) INTERNAL AUDIT ONGC LTD., TELBHWAN, DEHRADUN - 248003
195.	078272	Mr. BHATNAGAR PRITESH 72/2, GOVIND GARH DEHRADUN - 248001	207.	078555	Mr. PRAKASH CHAND 8/260 MALVIYA NAGAR, JAIPUR - 302017
196.	078275	Mr. KULWANT SINGH FLAT NO.1, B-65, NANAK APARTMENT, KASTURBA NAGAR, BHOPAL - 462023	208.	078587	Mr. GADIA AJAY KUMAR C/O SHRI SANJAY KUMAR GADIA, 5 B 7, GANDHI NAGAR, JAIPUR
197.	078305	Mr. AMAR SUNDER C/O DR. B.S. SUNDER A 02 SANGAM VIHAR FLATS, RIVERS MEET ROAD, SONARI, JAMSHEDPUR - 831011	209.	078648	Ms. PATHAK MINAKSHI MANISHANKAR 133/3. MANGAL PANDEY NAGAR, UNIVERSITY ROAD, MEERUT
198.	078372	Ms. SETHI SONIA 71/4, BAKARWALA NESHVILLA ROAD, DEHRADUN	210.	078670	Mr. MAHESHWARI PRADEEP 42A, 40 JAWAHAR NAGAR, JAIPUR - 302004
199.	078413	Ms. BHATIA MANISHA 46 TAGORE ROAD, CANTT, KANPUR - 208001	211.	078672	Mr. PAHWA BERINDERPAL SINGH NATIONAL BANK OF FUJARIAH, PO BOX 2979 DUBAI UAE
200.	078422	Mr. AGRAWAL NITIN MOHAN R-5/95, RAJ NAGAR, GHAZIABAD - 201000	212.	078694	Mr. VYAS KAMAL KISHOR 104, 11TH PAL ROAD, SARDARPURA, JODHPUR - 342003
201.	078427	Mr. AGRAWAL LAXMI NARAYAN D AGRAWAL S BUILDING MADHAYMA - 4, WARD 32, NIRMAL NAGAR, BALAGHAT	213.	078711	Mr. PAREEK SUNIL KUMAR 1ST FLOOR, KAMAL BUILDING, 4, KAMAL KA KUNWA, BHUPALGUNJ, BHILWARA - 311001

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
214.	078715	Mr. PUNJABI KISHAN LAL INDRA COLONY, NEEM KA THANA, SIKAR - 332713	226.	079274	Mr. GOENKA RAHUL 55/57, KAHOO KOTHI KANPUR - 208001
215.	078732	Mr. BAJPAI JEETENDRA NATH 22/105, PHEEL KHANA KANPUR - 208001	227.	079343	Mr. RAJESH KUMAR C2-15, JAI PRABHA COMPLEX, PO KADMA, JAMSHEDPUR - 831005
216.	078759	Mr. MOHD. NAVED 146/1, SHKOOR NAGAR, GALI NO.6, MEERUT	228.	079398	Mr. JAIN RAHUL KUMAR 10/3, AKASHGANGA COMPLEX SUPELA, BHILAI - 490023
217.	078779	Mr. PORWAL KESHAV 227/2, SHASTRI NAGAR, KANPUR - 208005	229.	079446	Mr. RAWAT SUNIL 36, LOVKUSH NAGAR, IST TONK PHATAK, JAIPUR - 302015
218.	078798	Mr. SANKHLA RANVEER SINGH S/O SHRI N.S. SANKHLA, PLOT NO. 29 TILAK NAGAR II, BHADWASIA JODHPUR - 342001	230.	079452	Mr. MITTAL MANISH 115, AGARWAL NAGAR, (NEW LAND) INDORE - 452001
219.	078801	Mr. AHUJA BRIJESH 42/52, A TOTA KA TAL, LOHA MANDI, AGRA-282002	231.	079516	Mr. CHOPRA SURYA PRAKASH B-71, VEER DURGADAS NAGAR PALI MARWAR - 306401
220.	078882	Mr. BHARADWAJ ANURAG 303 RAJKISHORI APARTMENT KAVI RAMAN PATH, BORING ROAD, PATNA - 800 001	232.	079550	Mr. RANGNEKAR AMUL 93-E, RAJENDRA NAGAR INDORE - 452012
221.	079017	Mr. VENKTA SHARAD KUMAR C/O A.K. VEKTA & CO. C.A. SAJJAN VILLA, S.C. ROAD, JAIPUR	233.	079635	Mr. JAIN SANJAY P N 111, PASHWANATH NAGAR OPP AIR PORT, SANGANER, JAIPUR - 302011
222.	079103	Mr. CHOPRA RAJESH 16 MOHANPURA JODHPUR - 342001	234.	079652	Ms. GUPTA SHWETA 100 SWARAJYA PURI MEERUT - 250001
223.	079197	Mr. JAIN ANIL KUMAR 214 GAYATRI NAGAR, DURGAPURA JAIPUR	235.	079687	Mr. SINGHAL MAYUR 6/345, KOTHI KEVEL SAHAI BELANGANJ, AGRA - 282004
224.	079201	Mr. BAIJAL SANDEEP KHATKE KA BADA NAYA BAZAR LASHKAR GWALIOR	236.	079892	Mr. MUSTAFA MEHRIM 22 JAWAHAR MARG INFRONT OF SAIFEE HOTEL INDORE - 452014
225.	079272	Mr. AGARWAL SANJAY KUMAR MEHTA MOHALA BORAWAR, NAGAUR - 341502	237.	079924	Mr. AHUJA HARDEEP SINGH M-46 RAJIV NAGAR, SHANKAR NAGAR RAIPUR - 492007

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
238.	080766	Mr. GUPTA VIJAY KUMAR CHIEF MANAGER, BANK OF BARODA ZONAL OFFICE VISHWA SHANTI COMPLEX, DELHI ROAD, MEERUT - 250002	248.	083389	Mr. RISHESHWAR PRASAD 16 BAGWATI ROAD, NORTHERN TOWN, JAMSHEDPUR - 831001
239.	080957	Mr. MAHESHWARY RAM SWAROOP 135 RATANDEEP COMPLEX IST FLOOR, CIVIL LINES, BAREILLY - 243001	249.	083479	Mr. NAVEEN KUMAR SINGH F-47, JAL VAYU VIHAR SECTOR 21 NOIDA - 201303
240.	081130	Mr. SETHY VINEY CHIEF FINANCIAL OFFICER DISCUS DENTAL INC., CA 90232, CULIVER CITY USA	250.	083697	Mr. MAHENDRA SINGH AGARWAL & GAUR, D-211, RAMPRASTHA, GHAZIABAD-201011
241.	081147	Mr. SURESH KUMAR S-3, SANJAY COMPLEX, JAYENDRA GANJ, LASHKAR GWALIOR - 474009	251.	083755	Mr. SURENDRA KUMAR FLAT NO.800 SECTOR 37, ARUN VIHAR NOIDA - 201303
242.	081390	Mr. DAFRIA RAKESH V A-1, MEGH BUILDING 13/2, M.G. ROAD, INDORE - 452001	252.	084260	Mr. ARORA PREM CHAND SD-377, SHASTRI NAGAR, GHAZIABAD - 201002
243.	082371	Mr. JAIN NEM CHAND C/O SHIVA AUTOMOBILES NEAR JUDGES COURT NAINITAL ROAD, HALDWANI	253.	085004	Mr. SINGLA SUBHASH CHAND 1201 HIG FLATS, SECTOR 16-A, VASUNDHARA, GHAZIABAD.
244.	082435	Mr. DATTA VIJAY KUMAR DEVYANI INTERNATIONAL PVT.LTD. F-34, SECTOR-6, NOIDA-	254.	085903	Mr. RIZVI AHMED PERVEZ 288 CHAUHATTA SAHUPEER GATE, MEERUT
245.	082545	Mr. THAKUR MAN MOHAN MANAGER (F). A-6A E O C, NOIDA - 201301	255.	086144	Mr. SHARMA VINOD KUMAR C-85, SECTOR 2, NOIDA - 201301
246.	082572	Mr. RAI MUNINDRA NARAIN A-35, IST FLOOR, MAURYA LOK COMPLEX, PATNA - 800001	256.	086198	Ms. BHATIA POONAM OPP. DELHI GATE UDAIPUR - 313001
247.	083126	Mr. GROVER RAM PRAKASH III-E/153, NEHRU NAGAR, GHAZIABAD.	257.	086202	Mr. AJMERA OM PRAKASH B-6, SECTOR 14, NOIDA
			258.	086480	Mr. MAHESHWARI JEEVAN KISHORE G-34, SECTOR-56, OPPOSITE ESIC COLONY, (DIST. GAUTAM BUDH NAGAR) NOIDA - 201 301

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
259.	086673	Mr. AGARWAL ARVIND KUMAR Z-403-A, SECTOR - 12, NOIDA - 201301	270.	088605	Mr. MALHOTRA RAJESH 16 A/11 (HIG) VASUNDHARA DIST. GHAZIABAD SAHIBABAD - 201005
260.	086738	Mr. SINGH BAL VINDER SHYAM KUL, C-5/245, SECTOR 31, NOIDA - 201301	271.	088750	Mr. RASTOGI SANJEEV KUMAR 19/231, SATYAM BLOCK, SECTOR - 19, VASUNDHARA GHAZIABAD.
261.	086919	Mr. MATHUR HARSH MDR (INDIA) PVT.LTD., D-5, SDF, NEPZ, NOIDA - 201305	272.	088898	Ms. SHARMA SHIKHA 117/438, PANDU NAGAR, KANPUR
262.	087064	Mr. MATHUR SANJAY A- 639, SECTOR 19 NOIDA- 201301	273.	088943	Mr. KAUSHAL KISHORE 5TH FLOOR, SADAY BAHAWAN, FRASER ROAD, PATNA - 800001
263.	087334	Mr. JAIN RAJESH KUMAR C/O SHYAM BABU MAHESHWARI POST CHANDAUS, ALIGARH - 202132	274.	089095	Mr. BAKSHI VIKRAM 17/D-425, VASUNDHARA, GHAZIABAD
264.	087424	Mr. ANIL KUMAR ABDIN HOUSE, FRASER ROAD, PATANA 800001	275.	089205	Mr. KHURANA MANDEEP SINGH 35 ATTA WALA MOHALLA FIROZABAD - 283203
265.	087687	Mr. JAIN RAJENDRA KUMAR 107, VARSHADEEP 10/1 SOUTH TUKOGANJ INDORE	276.	090006	Mr. MAHTO SHYAM KUMAR 304 JAGAT TRADE CENTRE FRASER ROAD, PATNA 800001
266.	087827	Mr. SHARMA DINESH 211-A, ASHIANA PLAZA BUDH MARG, PATNA - 800001	277.	090061	Mr. ARORA SANJEEV B 395 SECTOR 19, NOIDA
267.	088018	Mr. JAIN DINESH KUMAR 7 DAYANAND COLONY OPP GLASS FACTORY TONK ROAD, JAIPUR- 302015	278.	091019	Mr. SHARMA RAJESH CABIN NO. 9, 1ST FLOOR, WINDLASS SHOPPING COMPLEX, 11-A, RAIPUR ROAD, (UTTARANCHAL), DEHRADUN - 248001
268.	088145	Mr. MITTAL YOGESH KUMAR 1201 HIG, FLATS SECTOR 18A, VASUNDHARA SAHIBABAD INDL. AREA, GHAZIABAD - 201001	279.	091358	Mr. BAFNA SANJAY P-39 MADHUBAN WEST II. KISHAN MARG TONK ROAD, JAIPUR
269.	088557	Mr. MANOJ DEBNATH FINANCIAL CONTROLLER THETRIDENT, FATEHABAD ROAD, TAINAGRI SCHEME AGRA-282001	280.	091522	Mr. BIHARI MUKUT 58-A/36-D, OPPOSITE RASHAN CARD DAFTAR, JYOTI NAGAR COLONY ARJUN NAGAR, AGRA - 282001

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
281.	091917	Mr. SINGH MANMEET FLAT NO. 102 LUCKY PLAZA 8 INDRAPURI COLONY, BHAWAR KUJAN A B ROAD, INDORE - 452001	293.	096145	Ms. RUPALI 423 C SECTOR B 1 MAHANAGAR, LUCKNOW - 226006
282.	092187	Mr. AGRAWAL MANOJ KUMAR 113/8, NAVYUG MARKET, GROUND FLOOR GHAZIABAD - 201002	294.	096431	Mr. AGARWAL ASHISH B-27A (HIG), SECTOR - 23, (U.P.) GHAZIABAD - 201002
283.	092188	Mr. AGRAWAL UMESH A 236 VIDYUT NAGAR AJMER ROAD, JAIPUR	295.	096436	Mr. BRIJESH KUMAR C/O SH. NARESH KUMAR GALI DHARAMPURA NEAR PANCHWATI MADIR, CANAL ROAD, (BAGHPAT) BARAUT - 110092
284.	092250	Ms. JAIN RAKHI KUMARI 133, B JAIN COLONY NEMI NAGAR, CHHAJALANI MARG, INDORE - 452009	296.	096437	Mr. RAWAT AJAY 58 AVAS VIKAS HALDWANI - 263141
285.	092513	Mr. MISHRA ALOK KUMAR 207-B BLOCK D-10, UDAIGIRI-II SECTOR 34, NOIDA	297.	096439	Mr. JAIN DEVENDRA KUMAR C-5/256, SECTOR - 31 NOIDA - 201301
286.	092782	Mr. BHANSALI VIKRANT 5/95, BHAWANI SINGH LANE BEHIND KRAY VIKRAY SANGH, JAIPUR - 302001	298.	096456	Mr. JHA SHAILENDRA KUMAR C/O SHRI ANIL MISHRA B/25-A, SHRI KRISHNAPURI, PATNA - 800013
287.	092784	Mrs. CHANDA POONAM SHAHEED GANJ SAHARANPUR - 247001	299.	097184	Mr. DIWANSHU KUMAR KAISERIA CENTRE BANK MORE, DHANBAD - 826001
288.	093099	Mr. BHATIA RAMESH III M 37 NEHRU NAGAR, GHAZIABAD - 201001	300.	097197	Ms. NARULA PUNEET 1704, SECTOR 29, BRAHMAPUTRA APTTS., NOIDA 201301
289.	093286	Mr. SARDANA SAMIR 466 SECTOR - 28, NOIDA - 201301	301.	097345	Mr. SINGH DENESH 2/155, VISHAL KHAND GOMTI NAGAR, (UTTAR PRADESH), LUCKNOW.
290.	094582	Mr. SURESH SINGH 141 PARK ROAD LAXMAN CHOWK, DEHRADUN	302.	098467	Mr. GUPTA SANDEEP B-9/82 A UDAIGIRI - 2 SECTOR - 34 NOIDA - 201807
291.	094722	Mr. SINGH UMESH PRASAD C/O SRI M K SINGH BEHIND S B I, DORANDA, PO HINOO, RANCHI-834001			
292.	095691	Mr. SHARMA GOPAL SIHOT HOUSE AMLI ROAD, NFAR CHANDPOL GATE, SIKAR - 332001			

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
303.	098547	Mr. NARESH KUMAR H.NO. 19-A, GOKUL NAGAR BODLA ROAD, SHAHGANJ, AGRA - 282010	315.	205868	Mr. PRAKASH CHAND H NO. 403, SECTOR NO. 4 HIRAN MAGRI UDAIPUR - 313002
304.	102355	Ms. AGRAWAL DEEPALI II-A/67, NEHRU NAGAR, GHAZIABAD - 201001	316.	400040	Mr. BUGALIYA DEVENDRA T-28, RAISAR PLAZA, INDIRA NAGAR, JAIPUR
305.	104903	Mr. RANKA SANJAY S 3RD FLOOR, NADAKHADA, UDAIPUR - 313 001	317.	400062	Ms. SONI SHIVA PRATIBHA BUILDING JAWAHAR CHOWK, DURG (CG)
306.	105027	Mr. JAIN VIKAS KUMAR 21, KHARI PHATAK ROAD, VIDISHA - 464001	318.	400104	Mr. GUPTA SHYAM LAL 61 NATANI BHAWAN INDIRA COLONY, ALWAR - 301001
307.	105682	Mr. BANSAL VIVEK 9 LALAN GALI, BEAWAR - 305901	319.	400111	Mr. PURBEY PRADEEP KUMAR 56 GOVINDA TOWERS NEAR SANDHYA CINEMA, PURULIA ROAD, RANCHI
308.	105859	Mr. TAPARIA SWAPNIL KUMAR SWISS SINGAPORE OVERSEAS ENT P.LTD. P O BOX 60757 DUBAI UAE	320.	400170	Mr. AGRAWAL ASHUTOSH II-A/67, NEHRU NAGAR, GHAZIABAD - 201001
309.	107249	Mr. JAIN AMIT M-15/5, SANJAY COMPLEX, T.T. NAGAR BHOPAL - 462003	321.	400239	Mr. JAIN AMIT CHANDRA NEAR DEVI TEMPLE PURANA BAZAR, LALITPUR
310.	107636	Mr. JAGDISH PRASAD AGARWAL C/O RELIANCE INFORM LTD. 310-311 LAKSHMI COMPLEX, MIRZA ISMAIL ROAD JAIPUR - 302001	322.	400356	Mr. TULSYAN NAVIN KUMAR SONA PATTI JHARIA DHANBAD - 828111
311.	108776	Mr. JAIN MANISH KUMAR S/O SHRI JAMBU KUMAR JAIN, RANWKA GALI, SARAGI MOHALA, BEAWAR - 305901	323.	400366	Ms. SINGH JYOTI 2/229 VIRAM KHAND GOMTI NAGAR, LUCKNOW - 226010
312.	110111	Mr. RAKESH JAIN KUTIYA ROAD, JHARKHAND, GIRIDIH-815301	324.	400380	Ms. SHARMA MEENAKSHI 10 BASANT COLONY, ASHOK MARG, AJMER - 305001
313.	110448	Mr. MODI LAL JAIN C/O SMT. SHASHI CHOWHDARY 8, TECHNOCRAT SOCIETY. MOTI MAGRI SCHEME NEAR UIT, UDAIPUR-313004	325.	400399	Mr. DAD PRADEEP KUMAR 2H/13, R C VYAS COLONY BHILWARA
314.	110745	Mr. RAJESH GAGRANI 54-B PRATAP NAGAR, CHITTORGARH.			

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Sl. No.	MRN	Member Name & Address
326.	400438	Mr. GUPTA JAGDISH NARAIN 936, SETHI BHAWAN CHOURA RASTA, JAIPUR - 302003	328.	400692	Mr. AMRENDRA KUMAR C/O KRISHI KENDRA SURYA COMPLEX GROUND FLOOR, JAMAL ROAD, PATNA 800001
327.	400589	Ms. SINGH PRIYANKA B-65, SECTOR - J RAIL NAGAR, JAIL ROAD, LUCKNOW - 226012			


(DR. ASHOK HALDIA)
SECRETARY

Mumbai-400 005, the 7th July 2003

(Chartered Accountants)

3/WCA(4)/1/2002-2003 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1)(c) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute with effect from 01/10/2002 on account of non payment of prescribed fees, the names of the following Members :-

S.No.	MRN	Member Name / Address
1	000872	Mr. SUNTOOK BURJOR JEHANGIR MODY MANSION 49 MEREWETHER RD, MUMBAI 400039
2	001120	Mr. KAPADIA LAXMIDAS KHIMJI 167/171 4TH FLOOR DR. VIEGAS STREET, MUMBAI 400002
3	001235	Mr. TAMHANE KAMALAKAR VISHWANATH K V TAMHANE & CO B-1, HEREMES PARK, 30, BUND GARDEN ROAD, PUNE 411001
4	002311	Mr. BAXI KAUSHIKRAI KANTILAL 68 TAGORE PARK SURENDRA MANGALDAS RD, AHMEDABAD 380015
5	002759	Mr. VED KESHAVJI MORARJI 304 RADHA KUNJ SOC 160 MANMALLA TANK RD MAHIM, MUMBAI 400016
6	002977	Mr. JOG DATTATRAYA PRALHAD 1/18 KAMANA 6TH FLOOR GAJANAN PURI WADI NEAR SIDDHI, VINAYAK TEMPLE PRABHADEVI, MUMBAI 400028
7	003088	Mr. KHOKHANI NAVNITRAI HIRALAL KHOKHANI & CO AMRUT BHUVAN, KHOKHANI LANE, GHATKOPAR(E), MUMBAI 400077
8	003664	Mr. WADIA DARA FRAMROZE CHAMAN CHAMBERS FIFTH FLOOR, FIRST MARINE STREET, MUMBAI 400020
9	003697	Mr. MERCHANT GULAMALI ESMAIL 101 KALPAK BELA 31 PERRY CROSS ROAD, BANDRA (W), MUMBAI 400050
10	004475	Mr. WADIA ADI RUSTOMJI 2205-289 DRAKE STREET VANCOUVER, B C, V6B 5Z5, CANADA
11	004985	Mr. DESAI PRIYAVADAN J/4, GOLDEN PEBBLES, ROAD NO.2, SUNDER NAGAR,, KALINA,, MUMBAI 400098
12	005047	Mr. PATWARDHAN PADMAKAR 11 UMA NIVAS COOPERATIVE HSG SO, RAM MARUTI RD LANE NO 1,, NAUPADA,, THANE 400602
13	005189	Mr. SHAH BABUBHAI B-1 DIMPLE FLATS BEHIND DHARNIDHAR PERAS NAVA VIKAS GRUH, PALDI AHMEDABAD 380001
14	005458	Mr. GIDWANI INDURSEN 250 SOUTH END AVENUE, HUDSON VIEW EAST, APT. 2E,, NEW YORK, N.Y. 10280,, U.S.A
15	005668	Mr. SHAH VINODCHANDRA 9 RAJARSHI 1ST FLOOR PODAR RD SANTACRUZ -WEST, MUMBAI 400054
16	005722	Mr. MUNIM YUSUFALI MULLA Y F MUNIM & CO 179-A- ABDUL REHMAN ST II FLOOR ROOM NO 25, MUMBAI 400003
17	005831	Mr. T V. RAMAMURTI FLAT NO 44, BUILDING NO 314-A1 SECTOR 3, SRISHTI HSG COMPLEX, PENKAR PADA, MIRA ROAD(EAST), MIRA ROAD 401104
18	006074	Mr. SAMTANI PREM MENGHRAJ 36 MARKET PLACE LONDON NW 11 6JP, U.K.
19	007017	Mr. KATEY ASHOK RAMACHANDRA ASH KATEY C.A. CONSULTANT 202-288 WEST 8TH AVENUE, VAN COUVER BC V5Y 1N5, CANADA
20	007468	Mr. RESHAMDALAL PRAVIN 25, CHACHA NAGAR SOCIETY, ADMAR MUTHI,, ANDHERI (WEST), MUMBAI 400058
21	007592	Mr. CHANDRASEKHARAN S EXECUTIVE VICE PRESIDENT, RALLIS INDIA LTD.,, 21, D.S. MARG,, MUMBAI 400001
22	007664	Mr. KRISHNAN CHAKRAVARTHI 12 VASANT BUILDING 392 BHAUDAJI RD, MATUNGA, MUMBAI 400019
23	007764	Mr. ZAVERI YASHWANTRAI 7 NANDDEEP, VIDYANIDHI MARG, 10TH ROAD, JVPD SCHEME, MUMBAI 400049

24	008127	Mr. BENDALE ASHOK GANPATRAO G-5-1/3, KALPATARU HSG SOC. AIROLI, NAVI MUMBAI 400705	37	010948	Mr. ANJARIA JAYAVANT A/6, RUSHIKESHA APTS., OPP. L.G.HOSPITAL,, MANINAGAR, AHMEDABAD 380008
25	008178	Mr. HOSANG NAVROJI SUNTOKE KERAWALLA BLDG 789 JAME-JAMSHED ROAD,, 3RD FLR DADAR PARSI COLONY,, MUMBAI 400014	38	011036	Mr. SAMPAT RAVINDRA 11/3 PRABHAT 78 BHULABHAI DESAI RD, MUMBAI 400026
26	008307	Mr. VARMA VARENDRA LALCHAND 6 CHETNA APARTMENTS 134 FARMLAND, NEW RAMDAS PETH, NAGPUR 440010	39	011189	Mr. PALEJWALA FARID S/O. A.H.PALEJWALA, 29/A, ANANDAVAN SOCIETY,, SAMA ROAD,, VADODARA 390008
27	008503	Mr. GANDHI MERWAN HORMASJI M H GANDHI & CO 121 BEACH TOWERS P BALU MARG, PRABHADEVI, MUMBAI 400025	40	011757	Mr. BIJOOR PRAKASH ANAND 9/22 SARASWAT COLONY TALMIKI ROAD, SANTACRUZ WEST, MUMBAI 400054
28	008647	Mr. DOSHI ANILKUMAR MANILAL C-1, NEELKANTH SADAN HINGWALA LANE, GHATKOPAR-EAST, MUMBAI 400077	41	011916	Mr. RAMAN KUMAR SETH 3/1125, L. NAVJEEVAN SOCIETY, LAMINGTON ROAD,, MUMBAI 400008
29	008794	Mr. RACHUNATHAN K A 406, SHIVDHAM NEW LINK RD, MALAD(WEST), MUMBAI 400064	42	012069	Mr. PATIL SHIVKUMAR P.O.BOX 75754, DAR ES SALAAM, TANZANIA
30	009027	Mr. IRANI GUSTAD JEHANGIR MANAGING DIRECTOR, DOUCEUR INTERNATIONAL LTD.,, G P O BOX 1269, HONG KONG	43	012099	Mr. BOHARA BHANWAR LAL BHANWARLAL & CO 620 CHURCHGATE CHAMBERS, 6TH FLOOR 5 NEW MARINE LINES, MUMBAI 400020
31	009492	Mr. PATEL NARAYAN BHAI 21, NEW SURYANARAYAN SOCIETY, GHATLODIA,, AHMEDABAD 380061	44	012707	Mr. MEHTA MANMOHANDAS 6/234, SHIV NIWAS, SION,, MUMBAI 400022
32	009578	Mr. GUJARATI JATIN HARILAL C/O. JATIN & REKHA GUJRATHI, 27 VALDOR DRIVE, AGINCOURT, ONTARIO, CANADA MIV 1L2, CANADA	45	012803	Mr. JATANIA SANATKUMAR SANAT JATANIA & CO 199 199 PRINCESS ST II FL RM NO 3, GOPAL BHUVAN, MUMBAI 400002
33	010236	Mr. SOMAN VISHWAS MANOHAR V M SOMAN & CO C-11 SAHAKAR NIVAS PROF AGASHE RD, DADAR, MUMBAI 400028	46	013386	Mr. KHATRI HASTKANT SHIVJI 107/A, MANISH PARK, PUMP HOUSE, ANDHERI (EAST),, MUMBAI 400093
34	010292	Mr. VAIDYA DATTATRAYA ABLESOFT COMPUTERS MANAGEMENT & SOFTWARE CONSULTANTS, 9 TEMASEK BOULEVARD #04-02, SUNTEC TOWER 2,,SINGAPORE 00 SINGAPORE	47	013535	Mr. BURMAN DIPAK D BURMAN & ASSOCIATES 10, AVISHKAR COMPLEX, G BLOCK, 2ND FL, OLD PADRA RD,VADODARA 390015
35	010460	Mr. PRUTHI VINEET 2582 NORTH MERIDIAN STREET ORANGE, CA 92667-2158, U.S.A	48	014141	Mr. KAPADIA KAMALKANT 65 BROOKVIEW CRESCENT, SAINT JOHN, N.B. E2M 4K9, CANADA
36	010768	Mr. TAVADIA KEKI MANECKSHAW VATCHA BUILDING, CAPTAIN COLONY,, TARDEO,, MUMBAI 400034	49	014456	Mr. DOSHI VIJAY RAMANLAL G/3, MANGAL ASHISH, 4TH ROAD,, SANTACRUZ (EAST),, MUMBAI 400055

	014655	Mr. SHARMA JUGAL KISHORE J.B.SHARMA & CO 3/306, PAWAN BAUG, S.V.ROAD, MALAD WEST, MUMBAI 400064	63	018184	Mr. SATYANARAYANAMURTY V L 1/1 TATA HOUSING CENTRE LALUBAI PARK ROAD, ANDHERI (WEST). MUMBAI 400058
51	014998	Mr. DESAI HITESHKUMAR 9-A NATRAJ SOC NR DELUX SOC NIZAMPURA P O FATEHGUNJ, CHHANI RD, BARODA 390002	84	018223	Mr. UDAY SHANKAR NETRAVALI 6/95 SREE PARLESHWAR SOCIETY SHAHAJI RAJE MARG,, VILE PARLE (EAST),, MUMBAI 400057
52	015351	Mr. MEHTA YESHWANTRAJ VISHVA MOHINI 198/5442 PANT NAGAR GHATKOPAR-EAST- MUMBAI 400075	65	019657	Mr. PRABHAKAR B A BANK OF BARODA 16 PARLIAMENT STREET, NEW DELHI 110001
53	015404	Mr. POPAT NIRANJAN VASANJI 32, HUNTERS GROVE HARROW, MIDDLESEX, HA3 9AA,MIDDLESEX U.K.	66	020317	Mr. SUBRAMANIAN S GENERAL MANAGER OMAN SECURITIES PORTFOLIO CO. P O BOX 3591, RUWI 112, SULTANATE OF OMAN SULTANATE OF OMAN
54	016037	Mr. DATTANI NARESH RATANSI DATTANI & CO 178-B OLD POST OFFICE LANE MANGALDAS MARKET, BLDG NO 3-C, MUMBAI 400002	67	020588	Mr. V SRINIVASAN MD & CEO, ICICI INFOTECH LIMITED, INTERNATIONAL INFOTECH PARK,, TOWER# 5, LEVAL-4,, VASHI STATION COMPLEX, VASHI,NAVI MUMBAI
55	016329	Mr. BHANDARI RAGHUVIR 701, MERIDIAN APARTMENTS NO.5, VEERA DESAI ROAD,, ANDHERI (WEST), MUMBAI 400058	68	021641	Mr. MALIWAL G L C-2-16, TERRACE VIEW, BORIVLI WEST, MUMBAI 400103
56	016401	Mr. TAMHANE SUNIL KAMALAKAR 9/85 MANORATH V JAIPRAKASH NAGAR, GOREGAON (E), MUMBAI 400063	69	023464	Mr. VARADHARAJAN G 10, RAPHAEL COURT, SOMEREST STREET,, BRISTOL, BS 1 6FF,UNITED KINGDOM U.K.
57	016604	Mr. SHAH JAYESH KANTILAL 4 ASHOKWADI APTS., NR. PANCHVATI BUS-STOP, ELLISBRIDGE, AHMEDABAD 380006	70	025685	Mr. L RAMESH CITI BANK 3RD FLOOR, CITI TOWER, 61 DR.C.S. RAO ROAD, PAREL,MUMBAI 400013
58	016801	Mr. CHANDRA DEBASISH 108 W II TH STREET, # 1630, KANSAS CITY, MO 64105, U.S.A	71	025829	Mr. KUMAR Y BLACK DECKER 701 EAST JOPPA ROAD, ON303, TOWSON MD 21286,TOWSON MD 21386 USA
59	016983	Mr. ITALIA SORAB RUSTOM BRAMHA HORIZON BLDG. NO. A/5, FLAT NO. 1/A,, KONDWA ROAD, KONDHWA,PUNE 411040	72	026598	Mr. KENCHARAYA GUPTHA C A SR DY MANAGER(FX) THE VYSYA BANK LTD, MITTAL TOWERS, A-WING, 210, NARIMAN POINT,MUMBAI 400021
60	017063	Mr. MANAKTALA PRADEEP P MANAKTALA&CO 8 FAIR FIELD RD NO, 4 CHURCHGATE NEAR RITZ HOTEL, MUMBAI 400020	73	027407	Mr. MURALI S A-8 SAI DHIRTI, SAIBABA COMPLEX,, CIBA ROAD, GOREGAON - E, MUMBAI 400063
61	017299	Mr. KAPUR CHANDER SHEKAR A/5, BEACH HOUSE, GANDHI GRAM ROAD,, JUHU, MUMBAI 400049	74	027806	Mrs CHANDRA RAJSHEKAR M-BLOCK NO.308, SHRINAND NAGAR III, VEJALPUR, AHMEDABAD 380051
62	017668	Mr. ARUNACHALAM TELLICHERRY 14, GOLDEN COURT 50 AUNDH RD, PUNE 411003	75	029019	Mr. SHYAM SUNDER C NCR CORPORATION (INDIA) P. LTD., CHAKALA, ANDHERI (EAST),, MUMBAI 400093

76	029812	Mr. SHIRWADKAR SURESH P Z 204 PRAJAPATI GARDEN SECTOR 5, NEW PANVEL, PANVEL 410206	89	031832	Mr. VIJAY KUMAR JAIN V. V. LIBRARY BUILDING, IIND FLOOR, STATION ROAD,, JALGAON 425001
77	030135	Mr. GOPALAKRISHNAN H 211/C, SHARDA DARSHAN, LINK ROAD,, DAHISAR (EAST), MUMBAI 400068	90	032063	Mr. SHAH MUKUL KASTURCHAND B/905 TWIN TOWERS LOKHANDWALA COMPLEX, VERSOVA, ANDHERI(WEST), MUMBAI 400053
78	030153	Mr. TRIVEDI DIPAK 19/217 PARISHRAM APTS. NR.JAI SHEFALI ROW HOUSES, P O POLYTECHNIC, AHMEDABAD 380015	91	032179	Mr. KAPADIA BIMAL PITAMBER BIMAL KAPADIA & CO 6 MALHARRAO WADI DADI SHETH, AGIARI LANE KALBADEVI RD, MUMBAI 400002
79	030261	Mr. BHANDARKAR NARAYAN 11-C 'ASHWIN' PLOT NO 27/1 MARVE RD MALAD (WEST), MUMBAI 400064	92	032233	Mr. THAKKER SHANKARILAL 2ND FLOOR, ASHA COMPLEX BEHIND NAVRANGPURA POLICE STATION, NAVRANGPURA, AHMEDABAD 380009
80	030735	Mr. MEHTA NARENDRA 12 MAHAVIR COTTAGE 125 GARODIA NAGAR, GHATKOPAR (EAST), MUMBAI 400 077	93	032390	Mr. JHAVERI ANIL KALYANBHAI 5, CHITVAN APARTMENTS VASANT KUNJ, NR JAIN NAGAR, PALDI, AHMEDABAD 380007
81	030748	Mr. SHAH ASHOK VIRENDRA PALM COURT BLOCK 'A' #14-13 JALAN BERHALA, BRICKFIELDS, KUALA LUMPUR 50470 KUALA LUMPUR 50470	94	032483	Mr. HUDKA VITHALBHAI C/14 MANMOHAN MARKET JAMNAGAR 361001
82	030754	Mr. AGRAWAL GIRDHARILAL GIRDHARILAL AGRAWAL & CO., 005/B MEENA APT. GR. FLOOR., KASTURBA RD. MALAD - W, MUMBAI 400064	95	032652	MR. JIMMY EDUL POSTWALA A/5 DASWANI COOPERATIVE APARTMENTS, 2ND FLOOR, FOUR BUNGLOWS ROAD, VARSOVA, ANDHERI, (WEST), MUMBAI 400058
83	030836	Mr. SHAH KAUSHIK SHANTILAL DIRECTOR -INTERNAL AUDIT A1 HABTOOR GROUP LLC, P.O.BOX 25444, DUBAI,U.A.E	96	032660	Mr. SHANKARANKUTTY JAGDISH 7/254, KINGSWAY HOUSE SION(EAST), MUMBAI 400022
84	030932	Mr. KASHI NATH CHATURVEDI A/104, SHANTIDHAM CHATRAPATI SHIVAJI RD, KANDIVLI(WEST), MUMBAI 400067	97	032710	Mr. PATUR GOURI SHANKAR 8B 41 BRINDAVAN SOCIETY THANE (WEST), THANE 400601
85	031286	Mr. PESUMALANI RAM DEVANDAS RAM D PESUMALANI & CO 3/16/10, SEVAK GUEST HOUSE BUILDING, NEAR TOWER S.T. ROAD,, SIDHPUR (N.G.),,SIDHPUR 384151	98	032859	Mr. SRIDHARAN RAJAGOPALAN FLAT NO 4 GEETA CO-OP HOUSING SOCIETY RAMBAUG LANE NO 4, KALYAN 641009
86	031301	Mr. PARIKH SUSHIL KANTILAL 100/104 D G CHAMBERS NANIK MOTWANI MARG, FORT, MUMBAI 400023	99	033129	Mr. NAJMI ABDUL HUSAIN M/S ABDUL HUSAIN NAMJI AUDITING OFFICE, P/B/NO.3818, DEIRA, DUBAI
87	031367	Mr. BHATT KAUSHIK 18, SUHAS, GULMOHAR, ROAD NO.12, J.V.P.D.SHEME, MUMBAI 400049	100	033209	Mr. MEHRA SUNILKUMAR B 709 DHEERAJ GARDEN POONAM NAGAR, OFF M C ROAD, ANDHERI EAST,MUMBAI 400093
88	031443	Mr. PATEL ROHINTAN NARIMAN G-11, 1ST FLOOR, GODREJ BAUG NAPEANSEA RD, MUMBAI 400036			

102	033326	Mr. KOTHARI GHEESOOAL F 503/504, 5TH FLOOR RAJGIR, OLD NAGARDAS ROAD, ANDHERI (E), MUMBAI 400059	116	034896	Mr. MANIAR RAJU PRABHULAL C/O. ATUL MANIAR FLAT NO 508, K 52 YOGI SAGAR, YOGI NAGAR, BORIVALI(W), MUMBAI 400092
103	033920	Mr. DALAL INDRAVADAN LAD NIVAS III FLOOR ARDESHIR DADY ST, MUMBAI 400004	117	035061	Mr. NARENDRAKUMAR S GUPTA FLAT NO.1805, CHALLENGAER IV THAKUR VILGE,, KANDIVLI (EAST), MUMBAI 400101
104	033925	Mr. GANDHI AMUL 30 SHIVALI APTS NEAR N C C GROUND, LAW GARDEN, ELLISBRIDGE, AHMEDABAD 380006	118	035176	Mr. THAKER RAJESHWAR 25, SHIRIN MANSION COLSA CROSS LANE, MUMBAI 400003
105	033949	Mr. SHAH JITENDRA RAMANLAL 10- KAMALA NAGAR, B-5 WING 1ST FLOOR, M.G. ROAD,, KANDIVLI WEST, MUMBAI 400061	119	035249	Mr. AGARWAL YOGENDRA KUMAR B-16, JAMUNA DARSHAN BANGUR NAGAR, GOREGAON(W), MUMBAI 400090
106	033975	Mr. NAIR VENUGOPAL BALAN AFCO SOCIETY FLAT NO 2 BLDG A 2/2 NEAR SHANTI ASHRAM, JEEVAN BIMA NAGAR, BORIVALI WEST, MUMBAI 400103	120	035281	Mr. HARI KUMAR 18 A BURNETT AVENUE MT ROSKILL, AUCKLAND, NEW ZEALAND 00 NEW ZEALAND
107	033989	Mr. MEHTA DIPAKKUMAR C/O WOOL WORTHS LLC POST BOX NO28091, DUBAI U A E	121	035315	Ms. PURNIMA ASHOK PRABHU CANARA ELECTRICALS 19/21, AMBALAL DOSHI MARG, FORT, MUMBAI 400023
108	034048	Mr. SIKANDAR NIJAMASAHEB KAJI & ASSO 1505 C LAXMIPURI, KOLHAPUR 416002	122	035336	Mr. JATKAR MILIND C/O MR R G JATKAR GOA GOVT. DIRECTOR OF INFORMATION HOUSE, NO C-4 NR SFX PORTAIS PANAJI, PANAJI GOA 403001
109	034151	Ms. DALAL PARUL PRAKASH DALAL & CO., 12-A, UNIQUE HOUSE, 25, S.A BRELVI ROAD, MUMBAI 400001	123	035622	Mr. SHAH LALIT BABULAL 4/52, SHANTI BHUVAN, 47, OLD HANUMAN LANE,, MUMBAI 400002
110	034418	Mr. MALUSTE RAJIV GOVIND 54, JOOTHICA, 22 SLEATER ROAD MUMBAI 400007	124	035800	Mr. DILIPKUMAR POPATLAL 602 YOGI TOWER OPP S S AJMERA SCHOOL, EKSAR ROAD, YOGI NAGAR, BORIVALI-WEST, MUMBAI 400091
111	034560	Mr. SHENDE ABHIJIT VASUDEO 7-8 UNMESH BHAGAT LANE, MAHIM, MUMBAI 400016	125	035804	Mr. VORA VIPULKUMAR F/51, PARSHWNATH TOWERS SUBHASH CHOWK MANINAGAR, AHMEDABAD 380052
112	034638	Mr. NAGDA MULCHAND MANSHI 215/216, KAMER BLDG., 38, CAWASJI PATEL STREET, FORT, MUMBAI 400023	126	035877	Mr. SHAH JAGRUT JAYANTILAL 1, AMEY FLATS, NR. RED ROSE RESTAURANT, B/H H.L. COLLEGE OF COMMERCE, NAVRANGPURA, AHMEDABAD 380 09
113	034743	Mr. IYER KANNAN RAMAMOORTHY A-15/3 SRI RAM NAGAR S V RD ANDHERI- WEST, MUMBAI 400058	127	035969	Mr. SHROFF RAJIV JAYANT A-1 KAMDAR APTS S GOKHALE RD SOUTH DADAR, MUMBAI 400028
114	034757	Mr. GAUTAM SH/ RADENDU "ADIT" A" FLAT 28, 501 RASTHA PETHA, PUNE 411011	128	035981	Mr. RATHOD JAGDISH RANCHHOD NIWAS AGRA ROAD, DIST THANE, KALYAN 421301
115	034813	Mr. NERURKAR SHANTARAM 22'C SHIVPRABHA OPP. VITRO PHARMA, SECTOR 1 CHARKOP VILLAGE ROAD, KANDIVLI WEST, MUMBAI 400067			

- 129- 036067 Mr. JOSHI RAMCHANDRA
R G JOSHI & ASSO
22 JAYKAR SMRUTI AARAY RD,
GOREGAON -W,
MUMBAI 400062
- 130 036172 Mr. DOCTOR MOHAMMADI
P.O.BOX 7414,
DUBAI,
U.A.E.,
U.A.E. U.A.E.
- 131 036294 Mr. PANDYA DEEPAK
262 SHEIKH MEMON ST M J BLDG I
FLOOR,
MUMBAI 400002
- 132 036308 Mr. MURALIDHARAN B
705, "NEELKANTH DARSHAN"
NEXT TO RUNVAL NAGAR,
KHOPAT,
THANE 400 601
- 133 036625 Mr. ALLANA NAJMUDDIN NOOR
4/16 CANOPUS APTS S
BOAT CLUB RD,
PUNE 411001
- 134 036636 Mr. CHANDRASEKHAR G
A2/203, OXFORD VILLAGE,
WANOWRIE,,
PUNE 411040
- 135 036706 Mr. DIKSHIT ANIL ARAVIND
102, THANAWALA APTS.,
OPP VIKAM BOOK DEPOT.,
KHARKAR ALI,,
THANE 400601
- 136 036764 Mr. MEHTA JITENDRA S
FLAT NO 602 BUILDING NO 6
SEA BREEZE TOWERS,
SECTOR -16 PALM BEACH RD,
NERUL WEST, NAVI MUMBAI 400706
- 137 036894 Mr. NAWAB JUZER
FINANCIAL CONTROLLER
TECHNICAL TRADING CO LLC,
P O BOX 1693 RUWI,
POSTAL CODE, SULTANATE OF OMAN
- 138 037009 Mr. BAPAT SHASHIKANT
2 WASUDEO BLDGS NO 1
ST FRANCIS XAVIERS STREET,
THAKURDWAR,
MUMBAI 400002
- 139 037033 Mr. SHUKLA DHIREN
C 18 EVEREST
TARDEO,
MAIN ROAD,
MUMBAI 400034
- 140 037085 Mr. PATEL FAIYAZ HUSEINALI
11, NEW SAKET
6B TAGORE ROAD,
SANTACRUZ WEST,
MUMBAI 400010
- 141 037214 Mr. ALLAMAWADIA SUNIL W LAL
11, RAINBOW,
DEONAR BAUG SOCIETY,
NEAR TELECOM FACTORY, DEONAR,
MUMBAI 400088
- 142 037393 Mr. PARUJANWALA HARISHCHANDRA
H.C. PARUJANWALA & CO.,
OFF. NO. 1209 R. 12TH FLOOR,
NAVJIVAN SOCIETY, BLDG. NO. 3,,
LAMINGTON ROAD, MUMBAI 400008
- 143 037475 Mr. SETH ANIL KUMAR
706, SAKAR- V,
BEHIND NATRAJ CINEMA,,
ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD 380009
- 144 037538 Mr. MUCHHALA, APURVA
PLOT NO 29A, BLOCK NO 24
RD NO 4, JAWAHAR NAGAR,
GOREGAON(WEST),
MUMBAI 400062
- 145 037700 Mr. SARVAIYA HEMANTKUMAR
702, RAGHUNATH TOWER,
DEVIDAS LANE,,
BORIVALI (WEST),,
MUMBAI 400103
- 146 037761 Mr. MARU MADHU SUDAN
A/503, BHADRALOK APARTMENT,
OLD PADRA ROAD,,
VADODARA 390015
- 147 037774 Ms. PUSHPA ASHOK SHAH
SAMART COMPUPRINTS PVT. LTD.,
111, MAKER CHAMBERS,,
FIRST FLOOR, NARIMAN POINT,,
MUMBAI 400021
- 148 037786 Ms. TYAGARAJAN
103, ASHIYANA
OFF J P RD,
ANDHERI(WEST),
MUMBAI 400054
- 149 037883 Mr. AFINWALA, MUKUND
B-64 SHIVAM SOCIETY
NEAR LALBAUG CR,
MANJALPUR,
VADODARA 390011
- 150 038303 Mr. SUBRAMANYAN RAJAGOPAL
C-5, A-WING,
O2, DEEPAK COLONY,
SHASTRI NAGAR,
YERAWADA, PUNE 411006
- 151 038675 Mr. NAIR GIRISH
C/O NATIONAL INVESTMENTS CO
P O 25667,
SAFAT,
KUWAIT 13117 KUWAIT
- 152 038814 Mr. THAKKAR TUSHAR
502, PUSHPANJALI, ASHANA GAR
W E HIGHWAY,
KANDIVALI (EAST),
MUMBAI 400101
- 153 038821 Ms. FERNANDEZ FRANCES OLGA
NO 3 BAPTIST BHUVAN ST JOHN
BAPTIST RD BANDRA A,
MUMBAI 400050
- 154 038902 Mr. SARAF RAJENDRA VARMA
FLAT NO. 202, MADHUBANWARI,
PARVATI NAGAR,
SINHAGAD ROAD,
PUNE 411003

- | | | | | | |
|-----|--------|---|-----|--------|--|
| 155 | 038935 | Mr. JUNEJA GIRISH SRIRAM
97/B, GIRGAUM ROAD
CORNER OF BRAHMAN HALL LANE,
MUMBAI 400 004 | 168 | 040288 | Mr. FODA AZAM NASIR
3501 OAKGLADE
MISSISSAUGA,
ONTARIO L5L C L 5 C I X 4,
ONTARIO CANADA |
| 156 | 039057 | Mr. SHAH SANJAY CHANDULAL
A/401, PANCHAM APARTMENT NO 1
HEMUKALANI ROAD NO 2,
KANDIVALI (WEST),
MUMBAI 400067 | 169 | 040294 | Mr. CHARI VENKAT RAGHUNATH
B/17/18, ANANT ANAND APARTS
MALABAR HILL RD MULUND COLONY,
MUMBAI 400082 |
| 157 | 039326 | Mr. FATAKDAWALA FAKHRUDDIN
40 DAWOOD MANZIL III FLOOR R N
15 SUTAR CHAWL ST,
MUMBAI 400002 | 170 | 040368 | Mr. PORWAL HIMANSHU JEETMAL
20/79 YASHWANT NAGAR
GOREGAON -WEST-
MUMBAI 400062 |
| 158 | 039499 | Mr. PAWANE MOHAMMAD ISMAIL
SWIFT FREIGHT INTERNATIONAL
POST BOX,
50177 DUBAI,
UAE UAE | 171 | 040374 | Mr. RATHI RAVI KANT
A4/504, SIDDHARTH NAGAR
OPP BHOR INDUSTRIES,
BORIVLI(EAST),
MUMBAI 400066 |
| 159 | 039535 | Mr. CHANDRASEKARAN S
C/O S S IYER
13/138, POORNIMA,
OPP KANNADA HIGH SCHOOL,
INDULAL BHUVA MARG, WADALA, MUMBAI
400031 | 172 | 040609 | Ms. BINA SUCHET PADHYE
CITIBANK N A
ASST VICE PRESIDENT,
83-84 SAKHAR BHAVAN NARIMAN POINT,
MUMBAI 400021 |
| 160 | 039550 | Mr. DESAI BHARAT RAMNIKBHAI
405-B, MAHANANDA BLDG,
OFF L.T. RD, BABHAI NAKA,
TPS III,
BORIVLI (W), MUMBAI 400092 | 173 | 040729 | Mr. PATKAR TUSHAR SHANTARAM
103, RAJ TOWER
OPP HOTEL GULFAM, RAWALPADA,
W EXPRESS HIGHWAY, DAHISAR(E),
MUMBAI 400068 |
| 161 | 039684 | Mr. SHETTY SANTOSH DEJU
912 PIRAMALL NAGAR
S.V. ROAD,
GOREGAON WEST,
MUMBAI 400062 | 174 | 040894 | Mr. CHAUHAN KIRIT
STANDARD CHARTERED BANK,
P.O. BOX - 999,
DUBAI,
UAE UAE |
| 162 | 039780 | Mr. SHAH MUKESH HARILAL
8 LOTESHWAR DHAM SANITORIUM LANE
GHATKOPAR WEST,
MUMBAI 400086 | 175 | 040962 | Mr. VIJAY VENKATRAM
COMMERZBANK, AG,
FREE PRESS HOUSE
NARIMAN POINT,
MUMBAI 400021 |
| 163 | 039830 | Mr. PATWARDHAN MANOHAR
3/51, DIKE BUNGLOW
BRAHMANWADI,
KURLA,
MUMBAI 400070 | 176 | 040982 | Mr. SUBRAMANIAN VENKATKRISHNAN
15 VINITA
444-A 10TH RD CHEMBUR,
MUMBAI 400071 |
| 164 | 039843 | Mr. KENDURKAR RAM PRABHAKAR
VISHRAM TIKEKAR ROAD DHANTOLI
NAGPUR 440012 | 177 | 041030 | Ms. VAIDYA RUCHIRA VIJAY
11, HARI KRIPA
25, NATH PAI NAGAR, NR. VIDYA,
BHAWAN, GHATKOPAR EAST,
MUMBAI 400077 |
| 165 | 040009 | Mr. JOSHI VIJAY ANANT
6 RASHMI SOCIETY SINGHAD ROAD
PARVATI PAYTHA,
PUNE 411030 | 178 | 041245 | Ms. JADHAV SUPRIYA DINESH
4B/56 SUDAMA APTS
BOMBAY PUNE ROAD,
THANE 400605 |
| 166 | 040182 | Mr. SUBUDHI K RANJAN KUMAR
C/O M/S A M JAIN & CO
37 HAMAM STREET,
OPP. TO HAMAM HOUSE,
MUMBAI 400023 | 179 | 041508 | Ms. PANDIT MUGDHA
BALRAJ MARG,
DHANTOLI,
NAGPUR 440012 |
| 167 | 040265 | SHRI SURENDRA YASHWANT
50 SUNDER NOWAS
SANT NAMDEO PETH,
DOMBIVALI (E), 421201 | 180 | 041542 | Ms. DESAI SANGITA ISHWARLAL
94 ARAMNAGAR II VERSOVA ROAD
ANDHERI W,
MUMBAI 400061 |
| | | | 181 | 041699 | Ms. SHABNAM MOHD. AMIN
505 SEA GREEN RAHEJA COMPLEX
7 BUNGALOWS VERSOVA RD,
MUMBAI 400061 |

182	041879	Mr. D'SOUZA OLVIN ARUN P O BOX 40283 NAIROBI, EAST AFRICA, KENYA	196	042339	Mr. SHAH MANOJ NANJI 5TH FLOOR, SOMLA CHAMBERS 40 CAWASJI PATEL ST., FORT, MUMBAI 400001
183	041987	Ms. NADKARNI PRANEETI 48, PROCTOR ROAD, GRANT ROAD (EAST), MUMBAI 400007	197	042350	Mr. SADRUDDIN ABDULKARIM 12/13, K K CHAMBERS, 361/64, NANA PETH., PUNE 411002
184	042044	Mr. JOSHI VIRENDRA MAHENDRA FLAT NO 1, FAIRFIELD, C WING EC-8 EVERSHINE CITY, VASAI(E), VASAI 401202	198	042400	Mr. PINTO RAJ FREDRICK 605-20 PAISLEY BLDG (W) MISSISSAUGA, ONTARIO, CANADA L5B 1C8 CANADA
185	042089	Mr. KHANDALAVALA SORAB PESHU 9 NAGIN MAHAL 82 VEER NARIMAN RD, MUMBAI 400020	199	042402	Mr. KARANI ANAND BALMOHAN P.O. BOX 18639 NAIROBI
186	042090	Mr. GOMES SAVIO SEBASTIAN GEETANJALI NO 3 S V RD BANDRA WEST, MUMBAI 400050	200	042418	Ms. CHOKSI DEEPAJI AJITBHAI P.O. BOX 18639 NAIROBI
187	042118	Mr. D'SOUZA RAY STANISLAUS CITIBANK N.A. QUALITY ASSURANCE UNIT, P O BOX 749, DUBAI	201	042490	Mr. DALAL HARIN PADMAKANT H. DALAL & ASSOCIATES B/2 VARSHA CO-OP. HSG. SOC. LTD., 4 BUNGLOWS LOKHANDWALA ROAD ANDHERI-W, MUMBAI 400058
188	042122	Mr. SHAH CHETAN RAMNIKLAL DEEPA APTS FLAT NO 7 MALAVIYA RD VILE PARLE EAST, MUMBAI 400057	202	042510	Mr. BAPAT SATISH SADASHIV C-3-21 SAMRUDDHI CO HSG SOCIETY GOKHALE ROAD SOUTH, DADAR, MUMBAI 400028
189	042125	Ms. HARJAI LINA RAKESH C/O RAKESH KUMAR HARJAI NORASIA SERVICES (HKG) LTD, 22 / F. 9-DES VOEUX ROAD WEST, SHEUNG WAN, HONGKONG 400069 HONGKONG	203	042573	Mr. D CRUZ VERNON EDGAR LILLOU VILLE 17 WEST AVENUE, SANTA CRUZ W, MUMBAI 400054
190	042178	Mr. CHAUHAN MANISH RANJIT 1285 JAFFERINE LANE M G ROAD, PUNE 411001	204	042585	Mr. GUJAR PANKAJ BHAGWANDAS 110 INDUSTRY HOUSE MARWADI ESTSTE, ANDHERI EAST, MUMBAI 400062
191	042186	Ms. TERESA COELHO 1157, KIPLING AVENUE TORONTO ONTARIO, M9P 3M4, ONTARIO CANADA	205	042938	Mr. VIRA KHUSHALCHAND 3308, KNOWLLWOOD LANE, HOMEWOOD, ILLINOIS III 60430, U.S.A
192	042237	Mr. IYER RAVI PADMANABHAN 10 B GLENWOOD DRIVE, OLD BRIDGE,, N.J. 8857, U.S.A	206	043013	Mr. VAIDYA VIPUL B/503, CRYSTAL APARTMENTS, M G ROAD, DHANUKAR WADI, KANDIVALI (W), MUMBAI 400067
193	042267	Mr. PATEL HIMANSHU YOGESH C/7 GANGA JAMUNA L T RD BORIVLI W, MUMBAI 400082	207	043195	Mr. DELHIVALA SALIL SURESH 503, 6TH FLOOR KARMASHRESTH, NEAR SHYAMAL, 3-B, SATELLITE, AHMEDABAD 380015
194	042280	Mr. SHAH BIPINCHANDRA 16 GIRIKANDRA, PANCHAMRUT SOC. VIBHAG-2, NR. T.B., HOSPITAL, GOTRI ROAD,, VADODARA 390021	208	043208	Mr. DESHPANDE MADAN M D DESHPANDE & CO, 14, MAY FLOW ER, PLOT NO 3, GREEN FLOWER HSG, SOC. AMRUTAN, GOREGAON (EAST), MUMBAI 400063
195	042314	Mr. CHHABRA GURCHARAN SINGH P.O. BOX - 2923 DUBAI			

209	043273	Mr. THADANI RAMESH ARJAN FLAT NO 3 DAULAT BUILDING 31 D COLABA ROAD, COLABA, MUMBAI 400005	222	044054	Ms. BHOT MEHERNAZ YAZDI 1/29, A.H. WADIA BAUG, PAREL TANK ROAD,, MUMBAI 400033
210	043362	Mr. ASHOKKUMAR DAHYABHAI T/20, VIKRAM CHAMBERS ASHRAM ROAD, AHMEDABAD 380013	223	044056	Mr. RAUT AMOL JANARDAN AT TIWALI WADI OPP. S.T. DEPOT, VASAI, VASAI 401201
211	043513	Mrs. SEEMA PRAKASH POTDAR 402/1, 402/2, 402A GURUWAR PETH, OPP PAWAR TOWERS'S, PALACE STREET SATARA 415002	224	044063	Ms. MAHALAKSHMI RAJAN A/405 REDWOODS VASANT NAGAR, NEAR SWAPNA NAGARI, OFF L B S MARG MULUND WEST, MUMBAI 400080
212	043625	Mr. SANKARANARAYANAN SRIRAM 8 504 BLUE HEAVEN RAHEJA VIHAR OFF CHANDIVLI, POWAI, MUMBAI 400072	225	044084	Mr. VERMA RAJENDRA KUMAR C-2/11 SALUNKE VIHAR PUNE 411048
213	043641	Mr. NAYAK SURESH SUBRAYA Q/146, NOOTAN VILLA, GARDOA NAGAR, GHATKOPAR EAST, MUMBAI 400077	226	044132	Mr. SHAH SANJAYKUMAR SANJAY SHAH & ASSOCIATES FLAT NO 412, 4TH FLOOR, ASH COURT BUILDING, PARMAR PARK, WANORIE, PUNE 411040
214	043697	Mr. CHOWDHARY MAHAVEER 402 FAIZ-E-QUTBI 375 NARSI NATHA ST, KATHA BAZAR, MUMBAI 400009	227	044190	Ms. JATKAR AJITA MILIND BENIN SHERATON HOTEL B P 1901, COTONOU, REPUBLIC OF BENIN, WEST AFRICA
215	043708	Mr. SHARMA DEEPAK NARENDRA SHOP NO. 18, 'SAI -KALA' SECTOR 30, SANPADA,, PLOT 22/23,, OPP SANPADA RLY STN,, NAVI MUMBAI 400705	228	044195	Ms. DATE VAISHALI SATISH C/O MR S K KARANDIKAR 1536 LAXMI CHAMBERS, SADASHIV PETH, TILAK RD, PUNE 411030
216	043733	Mr. JAIN ANIL KUMAR CENTURY RAYON COLONY FLAT NO A- 2 - 9, DIST THANE, SHAHAD 421103	229	044303	Mr. SUBRAMANYAN BALAKRISHNAN NALINI-6, PLOT 304, SION TROMBAY BLDG.,, CHEMBUR, MUMBAI 400071
217	043804	Mr. SHAH APOORVA AJIT 1ST FLOOR, SHIV KRUPA NAROLI, VIA BHILAD, U T OF DADRA AND NAGAR HAVI, BHILAD 396106	230	044349	Mr. IYENGAR SRIRAM GOPALAN 603, VAIBHAV, 6TH FLOOR HOLY CROSS EXTENSION, MUKUND NAGAR, I C COLONY, BORIVLI(W), MUMBAI 400103
218	043927	Mr. ARSIWALA MUSTAFA 38 SAIFEE JUBLIEE STREET NOMAN MANZIL 3RD FLOOR, MUMBAI 400003	231	044363	Mr. DIXIT SUDDHIR MANOHAR B-11 MANKAME PARK X RD VILE PARLE EAST, MUMBAI 400057
219	043941	Mr. GOKHALE PRADEEP SHRIPAD C-80, SHATDEL COOP HSG. SOC., AZAD STREET, OFF. S.V. ROAD, ANDHERI WEST, MUMBAI 400058	232	044364	Mr. PATIL DAYARAM PLOT NO. 55, SEC NO. 20, KRISHNA NAGAR, CHINCHWAD, PUNE 411019
220	043983	Ms. GUPTA GEETA GAYAPRASAD 239, SHIVAJI NAGAR N.M. JOSHI MARG,, MUMBAI 400013	233	044401	Mr. SHAH BHARATKUMAR KESHAV-KUNJ ADHYAN'S POLE, SULTANPURA,, VADODARA 390001
221	044037	Mr. RAJE SACHIN RAMESH 175/4886, PANTNAGAR, GHATKOPAR EAST, MUMBAI 400075	234	044538	Mr. JAIN GOKUL SUWALALJI P O BOX NO 2047 CODE 112, RUWI MUSCAT, SULTANATE OF OMAN/ SULTANATE OF OMAN

- | | | | | | |
|-----|--------|--|-----|--------|--|
| 235 | 044545 | Mr. SHARMA JAI PRAKASH
A/8 / 506, RUNWAL PLAZA
VARTAK NAGAR,
THANE 400606 | 248 | 045227 | Mr. JAYAN GOVINDAN MENON
C-304, ICICI APARTMENTS
CAESAR RD, AMBOLI VILLAGE,
ANDHERI(WEST),
MUMBAI 400058 |
| 236 | 044556 | Mr. MODY MONISH ARUN
93-C, VIDHARBA SAMRAT SOC.,
2/10, VALLABHBHAI PATEL ROAD.,
VILE PARLE WEST,
MUMBAI 400056 | 249 | 045229 | Mr. OM PRAKASH INANI
MAHINDRA GUJRAT TRACTOR LTD
NR VISHWAMITRI RLY OVERBRIDGE.,
VISHWAMITRI,
VADODARA 390011 |
| 237 | 044584 | Mr. LALPURIA PAWAN KUMAR
503-505 J S S ROAD
CHIRA BAZAR,
MUMBAI 400002 | 250 | 045260 | Mr. AJMERA ANIL KUMAR
B/3 FLAT NO.303 GREEN PARK
OPP GHANGID COMPLEX,
NR GANESH PROVISION STORE MIRA ROAD
(E),
MIRA ROAD 401107 |
| 238 | 044639 | Ms. IYER MURALI PRIYA
54/1858 PUSHKARAJ
SUBASH NAGAR, GOVANDI ROAD,
CHEMBUR,
MUMBAI 400072 | 251 | 045284 | Ms. SUGANTHI GANESH
P O BOX NO 200
MUSCAT 113,
SULTANATE OF OMAN SULTANATE OF
OMAN |
| 239 | 044781 | Mr. BAHETI ONKARMAL
C/O. GULABCHAND R. SHARMA
61/721, VAISALLI FLATS.,
BAPUNAGAR,
AHMEDABAD 380024 | 252 | 045298 | Mr. DANGARWALA UMESHKUMAR
MANSIDHAM NR ARVIND ASHRAM
DANDIA BAZAR,
VADODARA 390001 |
| 240 | 044839 | Mr. ADI KEKI MOTAFFRAM
6 TARDEO AIR-CONDITION MARKET
7TH FLOOR TARDEO,
MUMBAI 400034 | 253 | 045320 | Mr. SANGTANI KAMAL
SHOP NO.18,ANAND SAGAR
PLOT NO.34,SECTOR-17,
VASHI,
NAVI MUMBAI |
| 241 | 044939 | Mr. SHAH MEHUL BHUPENDRA
10 VANDANA 4TH N S ROAD
JUHU SCHEME,
VILE PARLE (W),
MUMBAI 400056 | 254 | 045333 | Ms. AKILA KALYANARAMAN
4/34 GITA BLDG
OPP INDIAN GYMKHANA,
MATUNGA,
MUMBAI 400019 |
| 242 | 044940 | Ms. SHAH ALPA MEHUL
10, VANDANA
NORTH SOUTH ROAD NO 4.,
JUHU SCHEME, VILE PARLE WEST,
MUMBAI 400056 | 255 | 045380 | Mr. GOKHALE SACHIN
CD/2 RAKSHALEKHA SOC
GAJENDRANAGAR,
DUTTAWADI,
PUNE 411030 |
| 243 | 045034 | Mr. RAJESH KRISHNAPPA
50 PARK VIEW
KULUPWADI ROAD.,
NR. NATIONAL PARK, BORIVLI-E,
MUMBAI 400066 | 256 | 045403 | Mr. OZA HITESH MAHENDRA
II/B-4, SCINDIA COLONY
M.V. ROAD,
ANDHERI-EAST,
MUMBAI 400069 |
| 244 | 045057 | Mr. JEJO GEORGE
B 4 HAVA HIRA COOP HSG SOC
NADIADWALA COLONY NO 2,
MALAD (WEST),
MUMBAI 400064 | 257 | 045419 | Mr. DASGUPTA PRATAP
8 BHAVANA
GOSHALA RD,
MULUND(WEST)],
MUMBAI 400080 |
| 245 | 045083 | Mr. SRIDAR SWAMY
4, BASANT GARDENS
NEXT TO ATUR PARK,
U.N.PURAV MARG, CHEMBUR,
MUMBAI 400071 | 258 | 045434 | Mr. UPPAL MOHIT
HOUSE NO 1 PALM COURT
9TH ROAD ALMEIDA PARK,
BANDRA WEST,
MUMBAI 400050 |
| 246 | 045142 | Mr. SURESH SHRAVAN
A-1103 GARDENIA VASANT VALLEY
FILMCITY ROAD,
MALAD EAST,
MUMBAI 400097 | 259 | 045455 | Mr. NAHAR RAKESH
601 DA SHARDDHA COMPLEX
ASHA NAGAR,
KANDIVALI EAST,
MUMBAI 400101 |
| 247 | 045208 | Mr. ANUP MOHAN JOHRI
201 B , HELIX,
RAJ TRADE CENTRE.,
SAYAJIGUNJ.,
VADODARA 390005 | 260 | 045504 | Mr. PEREIRA CLETUS FELIX
D/63, NIRVANA CO OP HSG SOCIETY
BHAGOJI KEER MARG,
MAHIM, MUMBAI 400016 |

- | | | | | | |
|-----|--------|---|-----|--------|--|
| 261 | 045519 | Mr. SHETTY JAGANNATHA
122/11, JAWAHAR NAGAR
GOREGAON WEST,
MUMBAI 400062 | 274 | 046462 | Mr. FERNANDES EULOGIO
11, WHITEROSE
MORI ROAD,
MAHIM,
MUMBAI 400016 |
| 262 | 045552 | Ms. BHIVANDKAR NAMITA
E-48 DEENDAYAL NAGAR
MULUND (EAST),
NAVGHAR ROAD,
MUMBAI 400081 | 275 | 046511 | Mr. SOLAPURKAR ROHAN PRAMOD
A/72 FLORIOA APARTMENTS
MOUNT MARY ROAD,
BANDRA,
MUMBAI 400050 |
| 263 | 045591 | Mr. PAREKH MINARKUMAR
403, SUMITRA APARTMENTS
B/H, HIGH TEK COMPUTERS,
NEHRU PARK, VASTRAPUR,,
AHMEDABAD 380015 | 276 | 046642 | Ms. HARSHADA ANIRUDDHA
C/O JAKATDAR & SHAH,
27, PATIL ARCADE,
19, ERANDVANE,
OFF. KARVE ROAD, PUNE 411004 |
| 264 | 045619 | Mr. RAJESH KUMAR PRAHLAD
419-E 3RD FLOOR
JOSHI WADI,
KALBADEVI ROAD,
MUMBAI 400002 | 277 | 046659 | Mr. VISHWANATH PRASAD
2/93, ARADHANA
MUMBAI 400031
MUMBAI 400031 |
| 265 | 045643 | Mr. SOMAYA NAVIN
D-21 COZIHOM
251 PALI HILL ROAD,
BANDRA WEST,
MUMBAI 400050 | 278 | 046702 | Mr. VARAGUR KR. SHINAMURTHY
DEPUTY MANAGER (ACCOUNTS)
KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LTD.,
P.O. KRIBHCO NAGAR,
SURAT 394515 |
| 266 | 045661 | Mr. YOGESH KUMAR
P.O. BOX 10271
NAIROBI
NAIROBI KENYA | 279 | 046720 | Ms. SAMBHUS ANITA RAMAKANT
31, SUNFLOWER
ORCHIDS SOCIETY,
MAJIWADE,
THANE 400601 |
| 267 | 045815 | Mr. GANDHI ARUN AMBALAL
PLOT NO. 48, INDRANI
VENKATESH NAGAR,,
JALNA ROAD,
(M.S.), AURANGABAD | 280 | 046741 | Ms. GAURI MILIND PATWARDHAN
FLAT NO 305
INDRAPURAM CO OP HSG SCTY,
SURVEY NO 38/2, MADHUBAN COLONY,
KARVE NAGAR, PUNE 411052 |
| 268 | 045903 | Mr. PARSEKAR SANDEEP VIJAY.
C/O MR D B PEDNEKAR
A-12 CHITRAKUT CHS,
NEAR CKP HALL,
GADKARI PATH, DOMBIVALI 421201 | 281 | 046912 | Mr. JAIN RAJENDRA KUMAR
P.O. BOX 737
DAR ES SALAAM,
TANZANIA,
EAST AFRICA EAST AFRICA |
| 269 | 045992 | Mr. BHANDARI AJAY
13 SEAGULL ANGELORE SOC
PESTOM SAGAR CHEMBUR,
MUMBAI 400089 | 282 | 046962 | Mr. VIRAGI VINOD GIRISH
105, NIRMAN INDL ESTATE
OPP GARDEN VIEW HOTEL,
MALAD LINK ROAD,
MALAD WEST, MUMBAI 400064 |
| 270 | 046137 | Ms. KELKAR NIVEDITA SATISH
4/68, JAY VIJAY SOCIETY
SAHAR P.O VILE PARLE-EAST,
MUMBAI 400099 | 283 | 047076 | Mr. SHAH MAULIK
3, GANESH SHIV KRUPA APTS
ICCHANATH,
SURAT 395007 |
| 271 | 046167 | Mr. PHANSE RAJESH SHRIPAD
C/5, BHATIA BUILDING
DILIP GUPTA ROAD,
MAHIM,
MUMBAI 400016 | 284 | 047149 | Mr. GAGRANI VINOD KUMAR
SECTOR-10, B-2/404,
SHANTI NAGAR,,
MIRA ROAD (EAST),
MIRA ROAD 401107 |
| 272 | 046196 | Mr. SHARMA RAJESH OMDUTT
C-3/4, VIBHA CO-OP HSG SOC
LTD. 31, RAMCHANDRA LANE,
MALAD-WEST,
MUMBAI 400064 | 285 | 047223 | Mr. JAIN SANTOSH KUMAR
NO.9, SAVITHA
16TH ROAD,
CHEMBUR,
MUMBAI 400071 |
| 273 | 046413 | Mr. VAIDYA AMIT RAJENDRA
1-BHAV SAGAR OLD NAGARDAS
CROSS ROAD,
ANDHERI-EAST,
MUMBAI 400069 | 286 | 047293 | Mr. SHAH NIKHIL JAYANT
4 ANKUR 2ND FLOOR
NR TOWN HALL,
ELLISHBRIDGE,
AHMEDABAD 380006 |

287	047303	Mr. SWARUP SAMEER FLAT NO C, 301, SPRING VALLEY OPP DOCTOR HOUSE, PIRAMAL CROSSING, PALDI, AHMEDABAD 380004	300	047875	Mr. SRIDHAR SRINIVASAN FINANCIAL OPERATIONS MANAGER OASIS LEASING, P O BOX NO 28922, ABU DHABI UAE
288	047308	Ms. IYER LATA 4/31 SHRIDHANAND CHSL V P ROAD, DOMBIVLI EAST, DOMBIVLI 421201	301	047889	Mr. SAMAR CHANDRESH A 509 DEVKI NAGAR EKSAR ROAD, BORIVLI WEST, MUMBAI 400092
289	047370	Mr. VIEGAS MICHAEL GEORGE C-205 SHREENATH NAGAR SHIV VALLABH ROAD, DAHISAR EAST, MUMBAI 400068	302	047926	SHRI NARAYAN SWAMY KANNAN C/O CITIBANK N.A. CITIBUSINESS, 41 KANAK BUILDING, CHOWRINGEE LANE, KOLKATA
290	047407	Mrs. BHAVINI RAVIN 19/93, KHOSA NIVAS, SECOND FLOOR, SCHEME 6,, ROAD NO 10, BHAUDAJI CROSS ROAD, MATUNGA (CENTRAL RAILWAY), MUMBAI 400019	303	047963	Mr. KUTTY ANGEPAT RAJIV CHEMPAZANTI CO. OP. HSG. SOCIETY, FLAT NO. 43, BUILDING NO.3,, P L LOKANDE MARG,, CHEMBUR, MUMBAI 400043
291	047431	Mr. DHURU MILIND DILIP FLAT NO 9 UNMESH C H S BHAGAT ROAD, MAHIM, MUMBAI 400016	304	048001	Mr. KHANDWALA HABIB 599A SAHENCY SUJAN PARK ROOM NO 3 GULMOHAR ORCHIDS, LULLA NAGAR, PUNE 411040
292	047477	Mr. AGRAWAL RAJ KUMAR B-26/1-20 MAHAVIR NAGAR DAHANUKAR WADI, KANDIVLI(W), MUMBAI 400067	305	048005	Mr. AGARWAL MAHAVIR KUMAR C/O BROWN KRAFT INDUSTRIES LTD SILVER LINE, FIRST FLOOR, J B NAGAR, S B MARG, ANDHERI - EAST, MUMBAI 400059
293	047491	Mr. ARJUN L.R. RAMAN L.S. 203, YOGI TOWER PLOT NO 57/58, YOGI NAGAR, BORIVLI, MUMBAI 400091	306	048039	Mr. RAO RAMNATH DEVSDAS 2/14, ISHAWAR BHAVAN RANI SATI MARG, MALAD-EAST, MUMBAI 400097
294	047512	Mrs. CHITRA YOGESH GROVER P O BOX 7409 KAMPALA, UGANDA, UGANDA EAST AFRICA	307	048060	Mr. PATHAK MANOJ ASHOK 3061, EDWIN AVENUE # 1E, FORT LEE, NJ 07024, U S A
295	047532	Mr. MEHTA MAHENDRA 12A, MAHAVIR APARTMENTS KEMPS CORNER, BEHIND SHALIMAR HOTEL, MUMBAI 400036	308	048131	Ms. CASSAD MEHER EDAL 19-14, TATA MILLS COOP HSG SOC. ELEPHINSTONE RD, PAREL, MUMBAI 400012
296	047644	Mr. CHUNARA FIROZ BARKATALI C-33 404 SECTOR 9 SHANTI NAGAR, MIRA ROAD (EAST), MIRA ROAD 401107	309	048147	Ms. JAIN SARITA 404 B MAHAVIR DARSHAN OUTSIDE PIRAMAL MILL, LOWER PAREL, MUMBAI 400013
297	047748	Mr. NALAWDE SANTOSH ANKUSH D, 212 : SECTOR -7, SANPADA,, NAVI MUMBAI 400305	310	048196	Mr. JAIN RAJNESH INDERCHAND 12 - B BALDOTA BHAVAN 5TH FLOOR, 117 MAHARSHI KARVE ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI 400020
298	047759	Mr. SESHADRI RAGHAVAN 5/89 CHANDRA GARODIA NAGAR, GHATKOPAR-EAST, MUMBAI 400077	311	048197	Ms. PATKAR SHYMAL KAMLAKAR KASHINATH SOCIETY, BLOCK-4 ADJACENT GHANTALI TEMPLE, NAUPADA, THANE 400602
299	047781	Ms. DIPTI MEHUL PATHAK D2 SACRED HEART TOWN SOCIETY WANWADI, PUNE 411040			

- | | | | | | |
|-----|--------|---|-----|--------|---|
| 312 | 048295 | Ms. NARVEKAR SHAILAJA
12, JADEV,
PRABHAT COLONY,
SANTACRUZ -EAST,
MUMBAI 400055 | 325 | 048966 | Mr. AHUJA GOVIND PITAMBER
3RD FLR, BHAGWANTI NIWAS
PLOT NO 468, 14TH ROAD,
KHAR,
MUMBAI 400052 |
| 313 | 048461 | Mr. VEERARAGHAVAN P R
9, HEMNAND APTS
PLOT NO.1 & 2,
NEAR GULMOHAR HALL,
PANDEY LAYOUT, KHAMLA, NAGPUR 440 025 | 326 | 048999 | Mr. JAIN GANESH BRIJLAL
A-10, ALKNANDA
SECTOR 14,,
VASHI,
NAVI MUMBAI 400705 |
| 314 | 048511 | Mr. RAMCHANDANI SUNIL
10, JEEVAN JYOT SOCIETY,
NEAR AMAN CINEMA,
ULHASNAGAR 421003 | 327 | 049010 | Mr. MEHTA ANIL BANSHIDHAR
101, LINK PALACE
LINKING ROAD,
SANTACRUZ WEST,
MUMBAI 400054 |
| 315 | 048543 | Ms. MONICA PRANAV DALAL
14/A GOODWILL BLDG
MANMALA TANK RD,
MAHIM,
MUMBAI 400016 | 328 | 049027 | Mr. MAINKAR MANOJ ANANT
SUYOG, 1ST FLOOR, PLOT NO 90
CROSS RD NO 9, SRI KRISHNA NAGAR,
BORIVLI (EAST),
MUMBAI 400066 |
| 316 | 048546 | Mr. PANJWANI DINESH KISHAN
12/A, SHANTINIKETAN,
SEVEN BUNGLOWS,,
ANDHERI WEST OLD VERSOVA RD,
MUMBAI 400061 | 329 | 049087 | Mr. CHACKO SAJI
1/9, RAMDEV BHAVAN
R R TAHKUR MARG,
THAKUR NAGAR JOGESHWARI E,
MUMBAI 400060 |
| 317 | 048570 | Mr. THATTE HARSHAD SHAM
B/12, INDIAN HOTELS SOCIETY,
N DUTTA MARG, FOUR BUNGALOWS,,
ANDHERI WEST,
MUMBAI 400053 | 330 | 049090 | Mr. MAHESHWARI RAJNISH
B 9 RAJ TOWER
OPP SILVER COIN RESTAURANT,
I C COLONY,
BORIVALI - WEST, MUMBAI 400103 |
| 318 | 048618 | Mr. JAYARAM G. SHETTY
32, 3RD FLOOR,
14/16, BHANDARY CROSS LANE,,
JANJIKAR STREET,,
MANDVI,, MUMBAI 400003 | 331 | 049104 | Mr. PARAB SANJEEV PANDURANG
AMARTARU T.A. FLAT 15 BLOCK 3&
NEW NAGARDAS CROSS ROAD,
ANDHERI (EAST),
MUMBAI 400069 |
| 319 | 048642 | Mr. MALGHANI RAJESH
B/302 JASMINE
POONAM COMPLEX, ASHA NAGAR,,
KANDIVALI (EAST),
MUMBAI 400066 | 332 | 049184 | Mr. MANTRI SANJEEV
302, OM ENCLAVE,
SECTOR 7, PLOT NO 97,,
KOPAR KHAIRNARE,
NAVI MUMBAI 400701 |
| 320 | 048665 | Ms. CHAYA DILIP SUNDARAM
301, OCEAN VIEW
UNION PARK,
KHAR,
MUMBAI 400052 | 333 | 049234 | Mr. SHARMA SHIVANGINI
C/O N S MEDORA D-3 STERLING COOP
HOUSING SOCIETY BEHIND DRIVE,
IN CINEMA MEMNAGAR,
AHMEDABAD 380052 |
| 321 | 048669 | Mr. KALRA YOGESH
NITYANANAD CO OP HSG SCTY
BLDG NO 4B, FLAT NO 4, MAHUL RD,
CHEMBUR,
MUMBAI 400074 | 334 | 049270 | Mr. ENWRIGHT JOSEPH DE
302 EBENEZER
14 ST DOMNIC ROAD,
BANDRA,
MUMBAI 400050 |
| 322 | 048706 | Mr. NARVEKAR AVINASH
ARTHUR ANDERSEN & CO.,
EXPRESS TOWER, 1ST FLOOR,
NARIMAN POINT,
MUMBAI 400021 | 335 | 049310 | Mr. MALPANI ALOK OMPRAKASH
F/14, SOMGOKUL APTS
NEAR RAMVADI, P O CHANDLODIA,
AHMEDABAD 382481 |
| 323 | 048754 | Ms. RODRICKS ROMAYNE
4, HITEN APTS,
ST. ANNE'S ROAD,,
SHERLY, BANDRA,,
MUMBAI 400050 | 336 | 049345 | Mr. MODI KAIRAV KANDARP
54 "AJAY" ARTS,
5TH FLOOR, 25 PEDDER ROAD,,
MUMBAI 400026 |
| 324 | 048759 | Mr. AGRAWAL NATWAR LAL
OFFICE NO 5 1ST FLOOR
ROUND BLDG,
PRINCESS STREET,
MUMBAI 400002 | 337 | 049481 | Mr. DALAL PRANAV ARVIND
14/A, GOODWILL BLDG,
MANMALA TANK ROAD,,
MAHIM,,
MUMBAI 400016 |

338	049549	Mr. SHAH YATIN CHAMPAKLAL 102 DARSHAN APARTMENT OPP. SONI NI WADI, SIMPOLI, BORIVLI (WEST), MUMBAI 400092	351	049894	Mr. MENON RAJESH MADHAV C 401, SUMEYA APARTMENTS NR ST XAVIERS LOYOLA, MEMNAGAR RD, AHMEDABAD 380052
339	049572	Mr. MARATHE AJIT A RUN 11/B SIDDHIVINAYAK TOWER A WING OPP VOLTAS SWITCHGEAR, OFF EASTER EXPRESS HIGHWAY, THANE 400801	352	049946	Ms. JIWANI LAILA ABDULAZIZ 16, FIDAI CENTRE, FIDAI BAUG, ANDHERI WEST, MUMBAI 400058
340	049578	Mr. SALIAN RAJESH B-2/154, ANAND VIHAR, NEW ANAND NAGAR, SANTACRUZ EAST, MUMBAI 400055	353	049969	Ms. MARTIS ROSHNI THOMAS 7, YASHASWI CHS, G B ROAD, CHARAI, THANE 400601
341	049608	Mr. NARAYAN RAMALINGAM HINDUSTAN LEVER LIMITED FROZEN PRODUCTS, PLOT NO A-889, MIDC INDUSTRIAL AREA, MALEGAON, SIKINAR	354	051000	Mr. PALCHAUDHURI SWAPAN P O BOX 242, SAFAT, KUWAIT 13003
342	049635	Mr. PRASAD NARHARI LANKE LANKE BLDG, 2ND FLOOR, DHUSWADI, THAKURDWAR, MUMBAI 400002	355	051049	Mr. RATAN LAL JAIN FLAT NO 701 & 702, BLDG 1B GREEN MEADOWS, LOKHANWALA COMPLEX, AKURLI RD, KANDIVLI (E), MUMBAI 400101
343	049670	Mrs. LANKE MRUNMAYEE LANKE BUILDING 2ND FLOOR, DHUSWADI, THAKURDWAR, MUMBAI 400002	356	051096	Mr. MOR SUNIL KUMAR 501 DEVSHREE APT, 204 CEMENT ROAD, DHARAMPETH EXT, NAGPUR 440010
344	049755	Mr. PRABHU ASHWIN RAMNATH 4, AASHIRWAD BLDG, 2ND FLOOR, L J CROSS ROAD 3, MAHIM, MUMBAI 400016	357	052048	Mr. RAJIV DHARMANI FLAT NO B/302 3RD FLOOR MANISH GARDEN CO OP HSG SOC, MANISH NAGAR J P ROAD, ANDHERI WEST, MUMBAI 400088
345	049772	Ms. DALAL MITALI SURESH M/S. ARTHUR ANDERSEN STAFF CONSULTANT, 17TH FLOOR EXPRESS TOWER, MUMBAI 400021	358	052874	Mr. DILIP CHAKRABORTY C/O ANTAI BALAJI LTD., SECTOR - II, PLOT NO. 64, GANDHIDHAM (GUJRAT), GANDHIDHAM 00
346	049801	Ms. IYER MRIDULA KRISHNAN F1/2 MAHINDRA NAGAR, MALAD EAST, MUMBAI 400097	359	053559	Mr. PRADIP KUMAR GARODIA D-204, TAKSH COMPLEX GOTRI MAIN RD, VADODARA 390007
347	049817	Mr. MEHTA BHAVESH 304 RAJDEEP COMPLEX OPP GOPAL TOWERS, STATION ROAD, MANINAGAR, AHMEDABAD 8	360	053842	Mr. SURENDRA KUMAR SAHOO C/O S K SAHOO 205 KANCHAN GANGA, DATTANI PARK, BORIVLI (EAST), MUMBAI 400086
348	049863	Mr. GHAI AKASH RAJINDER A-8/51 GREEN FIELDS, MAHAKALI CAVES, ANDHERI EAST, MUMBAI 400093	361	053863	Mr. MANOJ KUMAR SONI MANAGER FINANCE CARD PRODUCTS HONGKONG BANK, 3/4 DR D N ROAD, FORT, MUMBAI 400023
349	049886	Mr. HAMIRWASIA DINESH C-8-118 CENTURY RAYON COLONY, SHAHAD 421103	362	054631	Mr. GOYAL BRENDRA KUMAR P-51, VIVEKANAND NAGAR LILUAH, HOWRAH, HOWRAH 711204
350	049892	Mr. DAS VIKRAM C/O PRICE WATER HOUSE P O BOX 26403, MANAMA, BAHRAIN	363	055647	Mr. SHANTANU GHOSH HINDUSTAN LEVER LIMITED HINDUSTAN LEVER HOUSE, 165/166 BACKBAY RECLAMATION, MUMBAI 400020

- 364 055713 Mr. RAJ KRISHAN
A 33 INDRAPRASTHA FLATS
JAIL ROAD NEAR DUDHSAGAR DAIRY,
STATE HIGHWAY,
MEHSANA 384002
- 365 055967 Mr. SANJEEV KUMAR
C/O T R CHADHA & CO
106 NIRMAL KENDRA,
DR. E MOSES ROAD,
MAHALAKSHMI, MUMBAI 400018
- 366 055973 Mr. SRINIVASAN N
FLAT NO. 101, EVENTIDE CO.OP.SOCIETY
C D MARG,
KHARANDA,
KHAR (W),
MUMBAI 400052
- 367 056161 SHRI RABI NARAYAN MISHRA
7TH FLOOR
NIRMAL BLDG,
NARIMAN POINT,
MUMBAI 400021
- 368 056248 Mr. AGARWALLA MANOJ
M/S PIRAMAL ENTERPRISES LTD
ADMINISTRATIVE BUILDING,
MORARJEE MILLS,
DR AMBEDKAR ROAD PAREL,
MUMBAI 400012
- 369 056538 Mr. AMITAVA SUR
COMSAT MAX LIMITED
D 222/24 TTC INDUSTRIAL AREA,
MIDC NERUL,
VILLAGE SHIRWANE,
NAVI MUMBAI 400706
- 370 057188 Ms. JOSEPH MARIA
FLAT # 602 DEEPALI APTS
C WING BLDG 2,
YARI ROAD VERSOVA,
ANDHERI (WEST),
MUMBAI 400067
- 371 057478 Mr. BANDYOPADHYAY ARIJIT
VSNL
L.V.S.B. KASHINATH DHURU MARG,
PRABHADEVI,
MUMBAI 400028
- 372 057520 Ms. ANJALI K PARAB
FLAT NO.18 SNEHA CO-OP. HSG SOCIETY
AMBEDKAR NAGAR,
WORLI,
MUMBAI 400018
- 373 057695 Ms. KHALID RESHMA
ASSTT FINANCE MANAGER (F&C)
VOLTAS LIMITED,
J N HEREDIA MARG,
BALLARD ESTATE,
MUMBAI 400001
- 374 058058 Mr. KUNDU SANDIP
ASSTT MANAGER (PROJECT FINANCE
& RESEARCH & DEVELOPMENT),
LIC HOUSING FINANCE LIMITED BOMBAY
LIFE, 2ND FLOOR 45/47
VEER NARIMAN ROAD,
MUMBAI
- 375 058540 Mr. SUBRAMANYAM V SIVA
PLOT NO 2 MIDC INDUSTRIAL AREA
TALOJA TALUKA PARVEL,
RAIGAD 410208
- 376 058630 Mr. DIDWANIA SANDEEP
602-A, BROOKEHILL TOWER
3RD CROSS LANE, LOKHANDWALA COMPLEX,
ANDHERI-WEST,
MUMBAI 400058
- 377 058823 MR BHASKAR ABHAY CHATURVEDI
MANAGEMENT AUDIT DEPT
THE ASSOCIATED CEMENT CO LTD,
CEMENT HOUSE,
121 ANANDRISHIKARVE ROAD,
MUMBAI 400020
- 378 058979 Mr. NAIR RANJIT
ROW HOUSE PLOT NO 81
SECTOR 15,
KOPARKHARNE,
NAVI MUMBAI 400709
- 379 059055 Mr. SHARMA RAJESH KUMAR
C/O HARESH E JOSHI
N - 703, INDRAPRASTHA TOWER,
DRIVE IN ROAD,
AHMEDABAD 380054
- 380 059378 Mr. BALDWA DEEPAK
D/402 VRINDAVANAM APTS
MODEL COLONY,
1094 SHIVAJI NAGAR,
(NEAR DEEP BANGLA CHOWK),
PUNE 411016
- 381 059480 Mr. ~~MANOJ~~ RAGHUVAR
CITIBANK N A
~~VARADE~~ DE SECURITIES SERVICES,
1ST FLOOR RABINDRO HOUSE,
77 DR ANNIE BESANT ROAD
WORLI,
MUMBAI
- 382 059705 Mr. TIBREWAL KAMLESH
ACCOUNTS & FINANCE OFFICER
ONGC LIMITED ACCOUNTS SECTION,
DIST: KHEDA P.O: KANSARI,
CAMBAY, KHEDA 388620
- 383 071363 Mr. VIJAY KUMAR GOYAL
GOYAL VIJAY & CO
D-9/280, YOGI NAGAR,
BORIVALI(W),
MUMBAI 400091
- 384 072129 Mr. VINAY PRAKASH
FLAT NO.7, AHIYA APPT.
16TH ROAD,
SANTA CRUZ(W),
MUMBAI 400054
- 385 073464 Mr. MISRA ALOK
FLAT NO 101 HDFC HOUSE
DR B K SHIRODKAR MARG,
PAREL,
MUMBAI 400012
- 386 073674 Mr. DINESH KUMAR MANTRI
A/303, GREENFIELD SOCIETY,
THAKUR COMPLEX,
KANDIVALI (EAST),
MUMBAI 400101

- | | | | | | |
|-----|--------|--|-----|--------|---|
| 387 | 074884 | Mr. SANJEEV KHANDLWAL
13/13, ANAMKA APARTMENTS
10, GULMOHAR CROSS ROAD,
J V P D SCHEME, ANDHERI(W),
MUMBAI 400058 | 399 | 088015 | Mr. PASRICHA NALIN
JARDIN FLEMING
AMERCHAND MANSION,
MADAM KAMA ROAD,
MUMBAI 400001 |
| 388 | 075064 | Mr. RAJMAL NAVAR
A 483 SONI PARK I
CHIKULWADI,
SIMPOLI VILLAGE,
BORIVALI(W),
MUMBAI 400092 | 400 | 088809 | Mr. CHOUDHARY RAMA KANT
31/2, AIR INDIA COLONY-I
KALINA, SANTA CRUZ(E),
MUMBAI 400029 |
| 389 | 076374 | Mr. BHARDWAJ DEEPAK
ESSAR STEEL LTD
ACCOUNTS DEPT, ADM BUILDING,
HAZIRA,
SURAT 394270 | 401 | 092637 | Mr. SHARMA YASHASVI
FLAT NO 404
BUILDING NO 67-MUCHAKUND,
VASANT VIHAR,
POKHARAN ROAD NO-2
(MAHARASHTRA), THANE |
| 390 | 076848 | Mr. SURANA DILIP LAXMI LAL
C/O JAIN & VAIDHYA ASSOCIATES
110, LAWRENCE CENTRE,
NEAR KT VISION, DIST : THANE,
VASAI ROAD - WEST,
VASAI 401202 | 402 | 094136 | Mr. RAJIB LOCHAN PATTANAYAK
KALINGA ARTS
ROOM NO 6
MADHAV SETHI,
DUTTA MANDIR ROAD,
MALAD (EAST),
MUMBAI 400097 |
| 391 | 078301 | Mr. BABU SINGH RAJPUROHIT
C/O P R PUROHIT
OFFICE NO 9 CHAMUNDA HERITAGE,
KOLDUNGRI SHAR ROAD,
BEHIND JEEVAN VIKAS HOSPITAL ANDHERI
MUMBAI | 403 | 094413 | Mr. VINEET SRIVASTAVA
C/O CORPORATION BANK
INDUSTRIAL FINANCE BRANCH,
14 MUMBAI PUNE ROAD,
WAKREWADI, PUNE 411003 |
| 392 | 078380 | Mr. MEHTA SAURABH
R NO4 2ND FLOOR
CURIMJEE HOUSE,
111 M G ROAD,
FORT, MUMBAI | 404 | 097053 | Ms VOHRA SHALINI
H.NO. 404, MUCHAKUND 67
VASANT VIHAR,
THANE |
| 393 | 078714 | Mr. ARVIND AGARWAL
FASCEL LTD.
6TH FLOOR, SAKAR - II,,
ELLISBRIDGE,,
AHMEDABAD 380006 | 405 | 097513 | Mr. DHAR ISHET
D C RESIDENCE HOUSE
OPP SESSIONS HOUSE,
HOSHIARPUR |
| 394 | 079143 | Mr. MATHUR ASHISH
B-708 SATYAM APPARTMENTS
BEHIND DON BOSCO SCHOOL,
NEW LINK ROAD,
BORIVILI(W), MUMBAI | 406 | 097682 | Ms S SOWMYA
FLAT NO 11 VISHWA BHAWAN
7TH CROSS ROAD,
CHEMBUR,
MUMBAI 400071 |
| 395 | 079789 | Mr. RANKA SUDHIR KUMAR
605 A WING
ADINATH APPARTMENTS,
8/281 TARDEO ROAD,
GRANT ROAD -WEST, MUMBAI 400007 | 407 | 098116 | Mr. GOYAL SANJEEV
FLAT NO B-501 B WING
KUNTI PARK APARTMENTS,
MAROL MILITARY ROAD MAROL,
ANDHERI (EAST),
MUMBAI 110059 |
| 396 | 080118 | Mr. MAN MOHAN KAPUR
134B, TWIN TOWERS
PRABHADEVI,
MUMBAI 400025 | 408 | 100037 | Mr. BHALWAL RAVINDER
406, MAYUR APTS.,
JITENDRA ROAD,
MALAD EAST,
MUMBAI 400097 |
| 397 | 082076 | Mr. GARG VIPIN KUMAR
B-3 AASHRAY
GULMOHAR CROSS ROAD NO 7,
J V P D SCHEME,
MUMBAI 400049 | 409 | 100099 | Mr. KASMANI ZAHID ISMAIL
3-B/001, SHREE AMIT NAGAR CO-OP HSG
YARI ROAD,
ANDHERI WEST,
MUMBAI 400061 |
| 398 | 084061 | Mr. RAKESH KUMAR SETHI
A 2/63 AVILLION GREENFIELD APARTMENTS
JOGESHVARI VIKHROLI LINK ROAD,
OFF MAHAKALI CAVES ROAD,
ANDHERI EAST, MUMBAI 400093 | 410 | 100107 | Mr. SAMSI ANIRUDH AROON
A/11 ANAND COURT
DR V RAGHUNATH MARG,
BANDRA (WEST),
MUMBAI 400050 |
| | | | 411 | 100123 | Mr. BADRINARAYAN VEDANTHAN
2 KAMLESH, 4TH ROAD,
CHEMBUR, MUMBAI 400071 |

- | | | | | | |
|-----|--------|--|-----|--------|---|
| 412 | 100227 | Mrs. SHAMALA NILESH POTNIS
C-12 VITTASANCHAY SOCIETY
RCF ROAD,
NEAR VASHI GAON,
CHEMBUR,
MUMBAI 400074 | 424 | 100998 | Mr. AGARWAL ABHISHEK
81 PRANEET
JAYANT PALKAR MARG,
OPP PODDAR HOSPITAL WORLI,
MUMBAI 400025 |
| 413 | 100355 | Mr. PATEL MINESH JAS BHAI
"GAYATRIKRUPA"-92
AJITNAGAR NR URM SOCIETY,
PRODUCTIVITY ROAD, AKOTA,
VADODARA 390020 | 425 | 101122 | Mr. VARASALA SREEDHAR
A/15, SAI MILAN
SAIBABA COMPLEX,
GOREGAON EAST,
MUMBAI 400063 |
| 414 | 100381 | Mr. PANDA JITENDRA KUMAR
A-101 STERLING
OFF LINK ROAD,
KANDERPADA,
DAHISAR (WEST),
MUMBAI 400078 | 426 | 101186 | Ms. PORWAL BHAVNA KANTILAL
FLAT -502 5TH FLOOR
SKY HIGH TOWER,
SHANKER LANE EXTN ORLEM,
MALAD WEST, MUMBAI 400064 |
| 415 | 100432 | Ms. SHAH F. LGUNI VINODKUMAR
119/5 MASKATI MAHAL
KANTILAL SHARMA MARG,
MUMBAI 400002 | 427 | 101196 | Ms. JAWKAR KOMAL NISHIKANT
E-310, 3RD FLOOR
NEW BHAWANI CO OP HOUSING SOCIETY,
HANUMAN NAGAR
KALYAN (EAST), KALYAN 421306 |
| 416 | 100490 | Mr. KAPADI GAUTAM GURUDAS
EMP 33 FLAT NO 301
EVERSHINE MILLENIUM PARADISE,
THAKUR VILLAGE,
KANDIVALI EAST,
MUMBAI 400101 | 428 | 101269 | Mr. GONSALVES NIGEL PATRICK
DHUN MAHAL, 2ND FLOOR
GARDEN RD,
COLABA,
MUMBAI 400039 |
| 417 | 100496 | Mr. SINGH GHANSHYAM BASUDEO
J2, PARIJAT APARTMENTS,
ANSARI NAGAR,
KHORAT,
THANE 400601 | 429 | 101284 | Mr. LYNDON LUIS DESA
FLAT NO 6, MAYANI MANOR
SIR.M.V. ROAD,
ANDHERI (EAST),
MUMBAI 400069 |
| 418 | 100596 | Mr. MOHANTY BADAL
C/O R DUBEY & CO
12 KAPADIA CHAMBERS,
BROACH ST MASJID EAST,
MUMBAI 400009 | 430 | 101354 | Mr. MANISH ASAWA
R G JHAWAR, 32
OCEANA APTS, KELUSKAR ROAD,
SHIVAJI PARK,
MUMBAI 400028 |
| 419 | 100712 | Mr. SAVLA SATISH GANGJI
192/12 PUSHPAKUNJ
STATION ROAD,
WADALA,
MUMBAI 400031 | 431 | 101404 | Mrs. FORUM JAYDEEPSINH
7 CHAITALI SOCIETY
B/H VIVEKANANDA FLATS,
SATELLITE AMBAWADI,
AHMEDABAD 380015 |
| 420 | 100858 | Mr. VIJAY SHAMRAO GANGAJALE
FLAT NO 13 SHRIHARIPRASAD APT
2052 B MANE GALLI,
NR SHAHU CO-OP BANK(HO),
MANGALWAR PETH,
KOLHAPUR 416012 | 432 | 101434 | Mr. MAHESH S KARKI
HOUSE NO 628 MAHARAJA PADA
P O VARAP,
KALYAN MURAD ROAD,
KALYAN 421301 |
| 421 | 100867 | Mr. SRINIVASAN ANAND G
2-A DWARKA CO OP HSG SCTY
HINDUSTAN COLONY,
AMRAOTI ROAD,
NAGPUR 440010 | 433 | 101437 | Mr. VAIDYA NIRBHAY ABHAY
D 101, SITA VIHAR
NR DAMANI ESTATE,
NAUPADA,
THANE 400602 |
| 422 | 100952 | Mr. SRIDHAR RAGHAVAN
C-2/13 CHITTARANJAN NAGAR
RAJAWADI,
CHATKOPAR EAST,
MUMBAI 400077 | 434 | 101559 | Mr. TRIVEDI MRUGEN
604/5 SAGAR SANGEET
A.B. NAIR ROAD, JUHU,
MUMBAI 400049 |
| 423 | 100986 | Mr. GAUTAM JAYARAMAN
58 A-3, BRINDABAN SOC.,
THANE 400601 | 435 | 101616 | MS SHARADA B SHAH
26/B TAKSHILA
MAHAKALI CAVES ROAD,
ANDHERI (EAST),
MUMBAI 400083 |
| | | | 436 | 101658 | Mr. MUKUNDAN SUNDARARAJAN
NO.7, KAMTHE BHUVAN
NEW SAMBHAJI PATH, VISHNUNAGAR,
NAUPADA,
THANE 400602 |

437	101677	Mr. DALAL DIVYESH KIRIT 38 SAGAR MAHAL 65 WALKESHWAR ROAD, MUMBAI 400006	451	102214	Mr. DEBAI TARAL MAYANKBHAI 104, BROOKLYN HILLS LOKHANDWALA COMPLEX, ANDHERI - WEST, MUMBAI 400053
438	101688	Mr. MURARIKA RAJESH ASHIRWAD BUILDING 2ND FLOOR ABOVE BANK OF MAHARASHTRA, S N ROAD ANDHERI (E), MUMBAI 400069	452	102219	Mr. SHAH KEYUR BHARAT A-504 VAISHALI APARTMENT NEXT TO CLUB AQUARIA, DEVIDAS LANE, BORIVALI WEST, MUMBAI 400103
439	101696	Mr. GHORPADE PRAMOD A/25 58 AMBIKA - SIDDHI JAGDUSHA NAGAR, GOLIBAR ROAD GHATKOPAR (W), MUMBAI 400086	453	102244	Mr. DHOPTÉ SHREEKANT H2/453, 'PANORAMA' LAXMINAGAR, PARVATI, PUNE 411 009
440	101709	Mr. PRABHU JAIDEV SRINIVAS 2, A 6-17 YASHADAYINI LIC, BORIVLI WEST, MUMBAI 400103	454	102261	Mr. BOHARA ASHOK BHANWARLAL C-15, PREM NAGAR-1 SUP RD, OPP MCF GARDEN, BORIVLI (WEST), MUMBAI 400092
441	101780	Mr. DOSHI PIYUSH GORDHANDAS C-2 DOULAT VIHAR DADABHAI ROAD, VILE PARLE (W), MUMBAI 400056	455	102275	Mr. INDOREWALA HUSAIN 15/17, MIRZA STREET UCCOMENSION, V FLOOR ROMM NO.3, MUMBAI 400003
442	101785	Ms. MONIKA NIRBHAY VAIDYA 61, ANIL APARTMENTS GAWAND PATH, GOKHALE ROAD, THANE 400602	456	102291	Mr. BHAVE AMIT AMINASH BUNGLOW NO 4, S P COLLEGE CAMPUS SADASHIV PETH, TILAK ROAD, PUNE 411030
443	101805	Mr. LAD NARENDRA G 355 NINANO SERVICE ROAD, BANDRA EAST, MUMBAI 400051	457	102294	Mr. RATHI RITESH MOTILAL 1/401, ANMOL APARTMENT ANDHERI-KURLA ROAD, ANDHERI (E), MUMBAI 400059
444	101856	Mr. DAHAD AAKASH 3 VINI APARTMENT 2093 SADASHIV PETH, PUNE 411030	458	102320	Mr. KHATU RAJENDRA SADANAND 3/8/F, KAMAT CHAWL, R NO44, THAKURDWAR, MUMBAI 400002
445	101895	Mr. SHAH HIMANSHU 5 JAKARIA BLDG. III FLOOR JAKARIA MASJID, MASJID BUNDER ROAD, MUMBAI 400003	459	102336	Mr. BAJIT KUMAR PATRO ASST. MANAGER - FINANCE THE ASSOCIATED CEMENT CCS LTD. REFRACTORIES DIV 4TH FLOOR, PUSHPAKUNJ, NO 26, CENTRAL BAZAAR RD, NAGPUR 440010
446	101995	Mr. GAWDE NITIN MAHADEO C/3, NAURE BAUG APPT. KURLA (E), MUMBAI 400024	460	102348	Ms. HUZURBAZAR ASHWINI B/8BHAGYODAYA CO OP STY TPS 6 LINKING RD. EXT., PLOT NO 9/10, SANTACRUZ-W, MUMBAI 400054
447	102078	Mr. PAWAR SANJAY DEVIDAS 1829, 4 SADASHIV PETH DESHMUKHWADI, PUNE 411030	461	102520	Mr. ARORA AMOL NARENDRA 403, SUGAN BLDG, 6 CUMBALLA HILL ROAD,, MUMBAI 400036
448	102151	Mr. PARÉEK RAMESH CHANDRA 91, HIRABHAI MARKET DIVAN BALLUBHAI RD, AHMEDABAD 380022	462	102542	Mr. VAIDYA SALIL SUDHIR VAIDYA HOUSE, OPP TELEPHONE EXCHANGE, NAUPADA, THANE 400602
449	102155	Mr. SHAH ANISH RAMANLAL 22, LIBERTY SHOPPING CENTRE 14, HILL ROAD BANDRA WEST, MUMBAI 400050			
450	102194	Mr. BHATT AJAY DHARMADATT 103 RAJ BINDU CO-OP HSG SOC OPP ATUL TOWER, MATHURADAS EXTN ROAD,, KANDIVALI-W, MUMBAI 400067			

463	102586	Mrs. DHARNA NAIMESH SHAH F-2 AASHA COMPLEX, NEAR SHREEJI BAUG SOCIETY, B/H NAVRANGPURA POLICE STATION, NAVRANGPURA, AHMEDABAD 380013	476	103156	Mr. IYER GIRISH SHANKARRAM 74/87, A, SHANKAR VILAS, 13TH ROAD, CHEMBUR, MUMBAI 400071
464	102618	Mr. NAVIN KUNDOMAL DEVJANI FLAT NO 706 SILVER ARCH SHASTRI NAGAR, ANDHERI (W), MUMBAI 400053	477	103191	Ms. CHANDIRAMANI RESHMA STANDARD CHARTERED BANK FLOOR - 4, NEW EXCELSIOR BUILDING, A K NAIK MARG, FORT, MUMBAI 400001
465	102692	Ms. SAWANT MANISHA VIJAY A-22/88, SUNDER NAGAR KALINA, SANTACRUZ-E, MUMBAI 400098	478	103285	Ms. MEETA SURESH ADVANI 403, SUNILA SOBANI ROAD, CUFFE PARADE, MUMBAI 400005
466	102731	Mr. SHAH RAJANKUMAR 4, HEMNIWAS KILACHAND ROAD, KANDIVALI (W), MUMBAI 400067	479	103344	Mr. RAKESH KISHORANAT 259 GIRGAUM ROAD MANI BHAVAN, 2ND FLOOR, MUMBAI 400004
467	102763	Mr. SONI SUSHANT JAIKRISHNA TEKDI ROAD, SITABULDI, NAGPUR 440012	480	103396	Mr. JAIN SHRIPAL 505 REENA APT 6 MAMLEDARWADI, MALAD WEST, MUMBAI 400064
468	102817	Mr. KRISHNAN SURYANARAYANAN 21, LAXMI JEEVAN LAXMI CHS, DR R.P. ROAD, MULUND (W), MUMBAI 400080	481	103485	Ms. MOUPIYASI GANGULY KPMG P O BOX 510, MANAMA, BAHRAIN UAE
469	102833	Mr. SHETH KUMAR HARSHAD 357/E, WARD SHAHUPURI STATION ROAD, KOLHAPUR 416001	482	103497	Ms. KULKARNI SADHANA B/16, TEJAL-KUNJ KARVE ROAD, KOTHRUD, PUNE 411029
470	102840	Mr. GANDHI DHARMESH VINOD B-8, ROOP NAGAR 80, S.V. ROAD, KANDIVALI (W), MUMBAI 400067	483	103500	Mr. SHAH BHAVESH 204/B, PAREKH PLAA VALLABHBHAI PATEL ROAD, VILE PARLE (W), MUMBAI 400056
471	102851	Mr. GHAI JITIN SINGH AJPAL 717, SUNDER VILLA 12TH ROAD,, KHAR (WEST), MUMBAI 400 052	484	103514	Mr. KAPOOR VISHAL VINOD A-15, NAVCHETNA R B MEHTA ROAD, GHATKOPAR (EAST), MUMBAI 400 077
472	102927	Mr. DAVE MITAL MAHESHBHAI ROW HOUSE NO.3, SHRADDHA COMPLEX ASHA NAGAR, NEXT TO THAKUR COMPLEX, KANDIVLI EAST, MUMBAI 400101	485	103520	Mr. BHAG CHAND BASER 10, B-2/404, SHANTI NAGAR, MIRA ROAD 401107
473	103009	Y. ANJAKULATH ANIRUDH 401, CINDRELLA APARTMENTS 602, SACHAPIR STREET, PUNE 411001	486	103534	Mr. DHIRUVA PRAKASHA SHETTY 9-D BLOCK 1ST FL., AFZAL BLDG., DR. A R NAIR ROAD, MUMBAI CENTRAL, MUMBAI 400008
474	103122	Ms. SINGH RAGINI RAJ BUILDING NO.1, B.P.C.L. COLONY AZIA BAUG, CHEMBUR, MUMBAI 400074	487	103628	Mr. SURESH KUMAR CHOUDHARY M/S. K K BHAGERIA AND CO 103 CAMY HOUSE, DHUSWADI, DR CAWASJI HORMASJI ST, MARINE LINES, MUMBAI 400002
475	103138	Ms. DEEPA NARAYANAN 311/3C, NESTLE APARTMENTS, P.B.MARG, WORLI, MUMBAI 400013	488	103661	Mr. GANDHI PALAK K 67/401, VIJAY NAGAR NARANPURA, AHMEDABAD 380013

489	103675	Ms. MANISHA K AGRAWAL B 704 PRESIDENTIAL TOWERS OPP ANACIN CO L B S MARG, GHATKOPAR (W), MUMBAI 400086	502	104127	Mr. MAJITHIA APURVA 1652, GOGHA ROAD NR. RAJARAM NO. AVED, BHAVNAGAR 364001
490	103708	Mrs. ASHVINI S SAWRIKAR KPMG, KPMG HOUSE KAMALA CITY, SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL, MUMBAI 400013	503	104254	Mrs. MANITA KASHYAP 202, LABHSMRUTI BAPTISTA ROAD, VILE PARLE (W), MUMBAI 400056
491	103773	Mr. RAI BRIJESH H. A-18, "NIWARA" L.B.S. ROAD, MULUND (W), MUMBAI 400080	504	104300	Mr. NANAWARE SANJAY 267 GUJARAT REFINERY TOWNSHIP JAWAHAR NAGAR, VADODARA 391320
492	103877	Mr. GUPTA ANIL OMPRAKASH 52 A/6-15 BLUE GROTTA LIC COLONY, BORIVLI (W), MUMBAI 400103	505	104302	Mr. KINGER DEEPAK KANAYALAL POST BAG NO. 7044 BHAWANI SHANKAR POST OFFICE, DADAR, MUMBAI 400028
493	103905	Ms. SWATI PRABHAKAR 204 BHAGYALAXMI KENNEDY BRIDGE, OPERA HOUSE, MUMBAI 400004	506	104388	Mr. MEHTA TEJAS ARVINDRAJ 34, LEELA NIWAS L.N. ROAD, MATUNGA (C.R.), MUMBAI 400019
494	103908	Mr. ANURAG SRIVASTAVA 505, NILGIRI, ANUSHAKTI NAGAR, MUMBAI 400 094	507	104403	Mr. DOKANIA GAURAV SHYAM 63, MAMTA "A" WING A MARATHE MARG, PRABHADEVI, MUMBAI 400025
495	103916	Ms. PATANKAR FOUZIA 35, JAWAHARABAD 9TH ROAD, T.P.S. IV, BANDRA, MUMBAI 400050	508	104412	Ms. SMITA DAMARAJU FLAT NO. 2/4, G 27, PANCHJYOT CO-OP SOCIETY, SECTOR -29, VASHI, NAVI MUMBAI 400705
496	103918	Mr. DANDGE AMOD ARVIND A-9, SHANTI PRASAD, 9TH RD., DAHANUKAR COLONY, KOTHRUD, PUNE 411 029	509	104442	Mr. SURESH BHANDARI 3039 JASH TEXTILE & YARN MARK RING ROAD, SURAT 395002
497	103924	Ms. AGARWAL SHIVETA D/62, VRINDAVAN AGRA ROAD, GHATKOPAR (W), MUMBAI 400086	510	104499	Mr. NIRAJ ASHWIN SHAH 10 B GEETA BHAVAN, 93, B D ROAD, BREACH CANDY, MUMBAI 400026
498	104030	Mr. AMBAKHUTWALA NAEEM 143/145 SARANG STREET SHAFANA MANZIL, MUMBAI 400003	511	104525	Mr. AJAY LACHHMAN MIRANI 302, 5/D GREEN MEADOWS LOKHANDWALA COMPLEX, KANDIVALI EAST, MUMBAI 400101
499	104057	Mr. POTDAR VINAY BHARAT 12, VATSAL APARTMENTS NEHARU PARK, VASTRAPUR, AHMEDABAD 380015	512	104542	Mr. NIKHIL RAMESH NAIK 2A, ACHAL, MURARIGHAG MARG, PRABHADEVI, MUMBAI 400025
500	104100	Mr. BHATIA TARUN LAXMANDAS 145 FARMLAND RAMDESPETH, NAGPUR 440010	513	104624	Mr. NARESH JAIPRAKASH SHIROFF 8/2 MALAD CO OP HSG. SOC., PODDAR ROAD, MALAD EAST, MUMBAI 400097
501	104114	Mr. ABHISHT ARORA FLAT NO. 71 SHANTINIKETAN, PRABHAT COLONY, SANTACRUZ (E), MUMBAI 400055	514	104625	Mr. PUNEESH RAMESH ARORA A-15, 'DHANASTRA' 122, N P ROAD, COLABA, MUMBAI 400005

515	104688	Mr PANKAJ MOHAN STERLITE INDUSTRIES (I) LTD DHANRAJ MAHAL, TOP FLOOR, C S M MARG, APOLLO BUNDER, MUMBAI 40003	528	105624	Mr RAVI SHANKAR AYYAGARI B-302, JUHU, SECTOR 2, VASANT NAGRI, VASAI(E), 401205
516	104719	Mr PRATIK DEEPAKBHAI SHAH 4 HIGH SCHOOL SHOPPING CENTRE, TOWER ROAD, VYARA, SURAT 394630	529	105700	Mr SUSHIL NARAYANDAS GANDHI F WING ASTHAVINAYAK ENCLAVE NR HOTEL SHREEMAYA, UMAJI COLONY, BANSILAL NAGAR, AURANGABAD
517	104836	Ms PURVI MAHENDRA SHAH A/34 PUNTA ESTATE 28 S V ROAD OPP MILAP THEATRE, KANDIVLI WEST, MUMBAI 400067	530	105780	Mr AZIZ ZAHID HUSSAIN ARTHUR ANDERSEN 17TH FLOOR, EXPRESS TOWERS, NARIMAN POINT, MUMBAI 400021
518	104946	Mr RAJESH BALVANT BIRARI 78, HUDO COLONY, MIG-I, MANNAD 423104	531	105810	Mr KAMLESH PRAGJI KHANDOR 5/B KAMAL KUNJ 143 VALLABH BAUG LANE, GHATKOPAR EAST, MUMBAI 400077
519	105017	Ms KAMANA RAM GOPAL SINGH C-583, ROCK CASTLE KANDERPADA, LINKING ROAD, OFF I C COLONY, DAMISAR WEST, MUMBAI 400068	532	105884	Mr. SHENOY, GIRISH V C/O GTS P D BOX 6642, DUBAI U A E
520	105044	Mr DOWRE UMESHA FLAT NO 002., BUILDING NO 30 CHANDRESH ACCORD, OPP: SILVER PARK, MIRA BHAYANDAR ROAD, MIRA ROAD 401107	533	105957	Mr SHAH AMIT BIPINCHANDRA 12, RAMESH PARK SOCIETY PANCHSHIL, USMANPURA, AHMEDABAD 380013
521	105080	Mr. NISHEETH NARENDRA NATH 4/2, NAVYUG NIKETAN 185, WALKESHWAR ROAD, TEEN BATTI, MALABAR HILLS, MUMBAI 400006	534	106068	Mr MANGESH SUHAS ANAOKAR D/28, PRAJAPATI SOCIETY, RAM NAGAR, BORIVALI WEST, MUMBAI 400092
522	105106	Mr AMOL VASANT KARVE NO.10, KANCHAN CHS, B W PATHARE MARG, SHIVAJI PARK, MUMBAI 400028	535	106132	Ms MAHALAKSHMI GANESH 11 SHOBHANA GOSHALA ROAD, MULUND (W), MUMBAI 400080
523	105189	Mrs. JACQUELINE MARTINS DA 271/A SENAULIM VERNA GOA.	536	106191	Mr SANJAY BASANT TAPARIA 701 GREEN RIDGE, TOWER NO.1 SIMPHOLI, CHIKU WADI, BORIVLI WEST, MUMBAI 400092
524	105322	Mr SURENDRA HANSRAJ KAPOOR 1ST FLOOR UNION CO OP INSURANCE BLDG, 23 SIR P M ROAD, FORT, MUMBAI 400001	537	106289	Ms. SANTHI A A-11, AMIT SAGAR PLDT NO.10, SECTOR 10-A, VASHI, NAVI MUMBAI 400703
525	105398	Mr EKNATH SHRIPAT MEDHEKAR NR ADARSH BALAK MANDIR SAMBHARJI NAGAR, AKURDI PUNE 411005	538	106295	Ms SWETA A PARIKH 2 MITTAL BHAVAN 62 A PEDDER ROAD, MUMBAI 400026
526	105554	Mr AMUL SURESH LALWAJI 108-A, SATYAPURAM SOCIETY PUNE SASWAD ROAD, PHURSUNGI PUNE 412308	539	106314	Mr MANOJ GOHINATHAN PILLAI 82 SREENATH NAGAR SOCIETY RANNAPARK, GHATLODIA, AHMEDABAD 380061
527	105566	Ms MEERA HARSHAD VASA 5TH FLOOR DARSHAN 103 NEHRU ROAD, SANTACRUZ EAST, MUMBAI 400055	540	106320	Mr JAIN SACHIN C/O MR ASHOK LODHA 402 A WING ACHOK NAGAR NEAR CHAZDA NAGAR, BORIVALI WEST, MUMBAI

541	106361	Ms NITA MOTIRAM KEWALRAMANI 82-B, SINDUNADI M G ROAD, GHATKOPAR - EAST, MUMBAI 400077	554	107098	Mr KETAN MANUBHAI JOSHI 37, PRATAPGUNJ 'VILAS' OUT HOUSE, VADODARA 390002
542	106415	Mr SATISHWAR BALAKRISHNAN F/233, RAILWAY QUARTERS, MURBAD ROAD, KALYAN 421301	555	107041	Ms SNIGDHA ASHOK GOKHALE B/2, AMARENDRA SOCIETY, GANESH MALA, SINHAGAD, PUNE 411030
543	106558	Ms D'SILVA VICTORIA "NAIGAON PARK" 2/12, NAIGAON WEST, NAIGAON 401207	556	107045	Mr. RODNEY S CASTELINO 102, RAJ KUTIR APARTMENTS B/H KES SCHOOL, KALINA, SANTACRUZ-E, MUMBAI 400098
544	106579	Mr RAVINDRA M VIJAYVARGIYA C/O CENTURY CHEMICALS (A DIV. OF CENTURY TEXTILES & INDUSTRIES 4TH FLOOR INDUSTRY HOUSE, 159 CHURCHGATE RECLAMATION, MUMBAI 400 020	557	107090	Mr LEO CHARLES IGNATIUS 73/A BANGANGA ROAD WALKESHWAR, MUMBAI 400006
545	106710	M. SABOO PREM PRAKASH 163 VARSHA SOCIETY AJWA ROAD, VADODARA 390019	558	107175	Mr KAMAL NAVINCHANDRA A/20 KAILASH NAGAR SHANKAR LANE, KANDIVLI WEST, MUMBAI 400067
546	106719	Mr. SHAH PARAG INDRAVADAN 204, AKIK, OPP. LIONS HALL MITHAKHALLI, ELLISBRIDGE, AHMEDABAD 380006	559	107222	Ms VIBHA MADHUKAR POTDAR D601 SUNFLOWER BLDG GUNDECHA VALLEY OF FLOWER, THAKUR VILLAGE, KANDIVALI EAST, MUMBAI 400101
547	106776	Ms SURABHI VIJAY MUJUMDAR 11, SHEEL MARIE, 25, KHAN ABDUL GAFFAR KHAN MARG, WORLI, MUMBAI 400018	560	107252	Mr HARSH RANJIT ACHARYA 12 BHARAT MAHAL LAJPATRAI ROAD, VILE PARLE WEST, MUMBAI 400056
548	106821	Mr. MOHAMMAD MUZAMMIL 533-A, MURTUZA COMPOUND GAURI PADA, DIST : THANE, BHIWANDI 421302	561	107259	Mr. JAIN ABHINAY 8/411, DR BALIGA NAGAR, OPP SBI, MAHIM EAST, MUMBAI 400017
549	106843	Mr AKHILESH BHAWANI SHANKAR QTR. F-2, MPF ORDNANCE FACTORY, AMBARNATH 421501	562	107323	Mr. M VENKET SHASTRI 1/SHG/3/38 SECTOR I CENTRAL BUSINESS DISTRICT, BELAPUR, NAVI MUMBAI 400 614
550	106861	Mr RAKESH KISHORE 3/13 SHEWANTI CHAYA UMESHNAGAR, DOMBIVALI 421202	563	107334	Mrs. MEETA HARISH LADDHA A-3, RAILWAY MEN'S HOUSING SOCIETY SECTOR -2, VASHI, NAVI MUMBAI 400703
551	106894	Mr RAJESH PARSHOTTAM 12/13, FRANK D'MELLO CHAWL J B M ROAD, NR D.MELLO PLAYGROUND, AMBOLI, ANDHERI - WEST, MUMBAI 400058	564	107389	Mr NILESH MANOHAR LULEY 246, SHANKAR NAGAR NAGPUR 440010
552	106975	Mr HEMANT PRAKASH JAIN C/O H.M. KACHHARA SECTOR-10, BUILDING NO. 19, FLAT NO. 103, SHANTI NAGAR, MIRA ROAD 401107	565	107399	Mr KUNJ DILEEPKUMAR VAIDYA 7, SAURABH, S.B.I. 40 FLATS, SRIPAL NAGAR, OLD PADRA ROAD, VADODARA 390020
553	106986	Mrs. MEDHA PRASHANT MAHAJAN B-2/48, "VRINDAVAN PARK" SURVEY NO.56, KOTHRUD, PUNE 411029	566	107420	Mr JAIN NARESH KUMAR A/6 SUTIRTH APTS BEHIND SONAL COMPLEX, VASTRAPUR ROAD, AHMEDABAD 380015

- | | | | | | |
|-----|--------|---|-----|--------|--|
| 567 | 107462 | Ms PATIATH LEENA LAKSHMANAN
601 PARIJAT 2
VASANT VIHAR,
THANE 400801 | 580 | 108091 | Mr. CHHAOCHHARIA GAUTAM
FLAT NO.401
ICICI APARTMENTS, A1/12,
FILM CITY ROAD, YASHODHAM,
GOREGAON - EAST, MUMBAI 400101 |
| 568 | 107463 | Mr SANDEEP KAILASH SITANI
N-25, JALVAYU VIHAR
HIRANANDANI GARDEN,
POWAI,
MUMBAI 400076 | 581 | 108099 | Ms ANITA NARAYANA PAI
NO 2 SATYA BHAVAN OPP 4TH PASTA LANE
COLABA,
MUMBAI 400005 |
| 569 | 107479 | Mr. RAVI GOVIND DOLE
PRICEWATERHOUSE COOP PVT. LIMITED
I FLOOR, NIRLON HOSUE,
DR. A.B. ROAD,
WORLI, MUMBAI 400025 | 582 | 108132 | Ms VANDITA VASUDEV BHAKTA
A/1 VANDANWALA SOCIETY
CHINCHOLI BUNDER ROAD,
MALAD (WEST),
MUMBAI 400 084 |
| 570 | 107557 | Mrs. GHAI AARTI
A-8/51, GREENFIELDS
MAHAKALI CAVES ROAD,
ANDHERI-E,
MUMBAI 400093 | 583 | 108147 | Mr RAMAKRISHNA NARAYANA
10, RAVI DARSHAN,
JAIN HIND COLONY,
GUPTA ROAD,
DOMBIVALI (WEST) THANE DIST., DOMBIVALI
421 |
| 571 | 107633 | Ms SHAMA ASHOK NAIK
ASHIRVAD HOUSE NO 549
VODLEM BHAT,
TELEIGAO,
TALEIGAO GOA 403002 | 584 | 108153 | Mr RAJNEESH SURESH CHANDRA
E-108 ROLEX SHOPPING CENTRE
OPP PRASHANT HOTEL,
STATION ROAD,
GOREGAON WEST, MUMBAI 400062 |
| 572 | 107648 | Mr PARMAR SANJAYKUMAR
KARANPARA 2 [TWO]
KRISHNA KUNJ,
RAJKOT 360001 | 585 | 108160 | Mr HARISH RAMANAN
ARTHUR ANDERSEN
17TH FLOOR, EXPRESS TOWERS,
NARIMAN POINT,
MUMBAI 400021 |
| 573 | 107692 | Mr SALIL BHARATKUMAR DESAI
403 POPULAR APARTMENTS NO 1
TAGORE ROAD,
SANTACRUZ WEST,
MUMBAI 400054 | 586 | 108189 | Mr. MANOJ KUMAR AGARWAL
KUBER VILLA
2 NAVYUG SOCIETY,
5TH ROAD J V PD SCHEME,
VILE PARLE WEST, MUMBAI 400049 |
| 574 | 107816 | Mr RITESH RAMKRISHNA TIWARI
D/1 BABUBHAI CHAWL
M G X ROAD NO 4,
KANDIVLI WEST,
MUMBAI 400067 | 587 | 108201 | Mr VIRAL BHUPENDRA SANGHANI
10/21, VERMA NAGAR,
OLD NAGARDAS RD,
ANDHERI-EAST, MUMBAI 400089 |
| 575 | 107939 | Mr. BHAGAT ASHISH
C/O RAYMONDLIMITED
185, CIVIL LINES,
RAVINDRANATH TAGORE MARG,
NAGPUR 440001 | 588 | 108236 | Mr ANAND VINAY SHAH
A 62 FLOWER QUEEN
VEERA DESAI ROAD,
ANDHERI W,
MUMBAI 400058 |
| 576 | 108013 | Ms SHAHEEN MOHAMMAD UMAR
7/GOLDEN FLOWER
KALINA KURLA ROAD,
SANTACRUZ EAST,
MUMBAI 400029 | 589 | 108249 | Mr DHARMESH SURESHBHAI SHAH
C/206 BHOOMI ENCLAVE
MAHAVIR NAGAR,
DAHANUKAR WADI,
KANDIVALI WEST,
MUMBAI 400067 |
| 577 | 108023 | Mr SANDIP RAJENDRA SHAH
7/71, VRINDAVAN SOCIETY
SHANKER SHETH ROAD,
PUNE 411037 | 590 | 108265 | Mr BALRAJ HIMATLAL KHAKHAR
A/7 NAVNEET
BHARDAWADI J P ROAD,
ANDHERI (W),
MUMBAI 400058 |
| 578 | 108036 | Mr SHAH KANANBHAI
U/1 VIKRAM APARTMENTS
NR SHREYAS CROSSING,
AMBAWADI,
AHMEDABAD 380015 | 591 | 108326 | Mr PURSHOTTAM N SHARMA
404 GREEN AVENUE 1
RAHEJA ESTATE,
KULUPWADI,
BORIVALI EAST,
MUMBAI 400086 |
| 579 | 108052 | Mr LADDHA SATYANARAYAN
26 KAILASH DHAM SOCIETY
NEAR ABHILASHA CHAR RASTA,
NEW SAMA ROAD,
VADODARA 390008 | | | |

592	108387	Mr KIRTIKUMAR SURESH 123/4053 NEHRU NAGAR KURLA EAST, MUMBAI 400024	605	109464	Mr SANJAY NAGARMAL AGI WAL E-17 SUKHADAYAK CO-OP SOC J.B. NAGAR, ANDHERI (E), MUMBAI 400059
593	108421	Mr ROHAN RAMAN SETH 3/1125 NAVJIVAN SOCIETY LAMINGTON ROAD, MUMBAI 400 008	606	109470	Mr JIGISHKUMAR SHANTILAL 1003 CAPRI HIRANANDANI ESTATE, PATTILPADA, THANE WEST, THANE 400607
594	108426	Mr VIVEK G SHUKLA 121, RAMJIHARUKHA V P ROAD, ANDHERI W, MUMBAI 400058	607	109492	Ms VINITA DHANRAJ PHERWANI 204-B, SABARI CASTLE, CHIRAI, RC MARG, CHEMBUR, MUMBAI 400071
595	108521	Mr KAPIL KAMAL JAIN 1002, GANESH DARSHAN, OPP. SHRI SAGAR HOTEL, L.T. RD, BORIVLI WEST, MUMBAI 400092	608	109561	Mr SIDDHARTHA SHAMBHUNATH B - 6, 701 SAKET, KISHAN KOHLI MARG EXTN, WEST, THANE 400601
596	108582	Mr SANTOSH KANHAIYALAL VYAS B-18 FRIENDS PARK SENAPATI BAPAT ROAD, CHHATURSHINGI, PUNE 411016	609	109591	Mr ASHRAF ABDUL AZIZ PRITI VILLA, FLAT NO.8, L.T. VILLAGE, WEST, VASAI 401202
597	108599	Ms AARTI CHUNILAL FOTARIYA 506, NEELDHARA DEVIDAS LANE, BORIVLI(W), MUMBAI 400103	610	109618	Mr SURENDRA KUMAR C/O. R L RATHI, KRISHNA KUNJ BUILDING, NEAR BABULNATH TEMPLE, MUMBAI 400007
598	108668	Ms NIVEDITA AVINASH SMITA APTS #8 - 9 40/2, BHONDE COLONY, ERANDAWA, PUNE 411004	611	109620	Mrs. REWA SANJAY DIXIT 6, VASANT TARA APT., APTE ROAD, NEAR HOTEL SURYA, SHIVAJI NAGAR., PUNE 411004
599	108752	Mr ASHISH ASHWIN PATEL 320 SAFFRON COMPLEX OPP CAMPS CORNER, FATEGUNJ, VADODARA 390002	612	109649	Mr. V R UMESH SR. ACCOUNTS OFFICER, RELIANCE INDUSTRIES LTD., SRM COMPOUND, GANPATH RAO KADAM MARG, WORLI, MUMBAI
600	108773	Mr. N V ARUNACHALAM C/101 SHRADDHA APPT GUNJAN., GIDC, VAPI 396195	613	109650	Mr. MANGESH VIDYADHAR A 202, DHAWAL APTS. NAVCHAR, VASAI (E), 410210
601	108782	Mr. RAJDEEP PREMKUMAR PAI 4TH FLOOR, 7A DEVASHREE HEIGHTS, VAIDYAWADI, HADAPSAR, PUNE 411013	614	109684	Mr SHREYANS KUMAR GANG 504 NARNARAYAN COMPLEX SWASTIK CROSS ROAD NAVRANGPURA, AHMEDABAD 380009
602	109410	Mr AMIT GULECHA M/S LODHA & CO. 6 KARIM CHAMBERS, 40 A.DOSHI MARG, MUMBAI 400023	615	109736	Mr ANANDKUMAR RAMKUNWAR 4TH FLOOR MOTWANI MANSION OPP K C COLLEGE, CHURCHGATE, MUMBAI 400020
603	109430	Ms ALPA VINOD ACHARYA A/9 SUYASH APTS GOKHALE ROAD DADAR, MUMBAI 400028	616	109753	Mr NILESH MADHUKAR MEJARI 2/52, PRATIRAKSHA NAGAR VAKOLA BRIDGE, SANTACRUZ (E), MUMBAI 400055
604	109441	Ms SHIKHA RAMAWATAR JALAN 1, MADHAV KUNJ, DIXIT ROAD, VILE PARLE E, MUMBAI 400057			

617	109757	Mr. SANJEEV KUMAR KIYAWAT S-5 SAHGOVIND COMPLEX II FLOOR GOGHA ROAD, NEAR GOGHA CIRCLE, BHAVNAGAR 364001	629	110010	Ms RENUKA VEERARAGHAVAN 212 TRIVENI CHS, OM NAGAR, PIPELINE ROAD, ANDHERI-EAST, MUMBAI 400096
618	109777	Mrs. AMRUTA SASWADKAR 971, "DATT KRIPI", OPP. BRAHMIN MANGAL KARYALAYA, SADASHIV PETH, PUNE 411030	630	110054	Ms KOEL SANTIRANJAN DUTTA 1106 TOWER 2 CHALLENGERS, THAKUR VILLAGE, KANDIVALI EAST, MUMBAI 400101
619	109803	Mr PRASHANT ISHWARLAL CHETANA, GOVINDNAGAR BEHIND HOTEL PRAKASH, MUMBAI NAKA, NASHIK	631	110105	Ms SHILPA OMPRAKASH C/O. MR N S CHANDAK 7, PRASAD RAHATEY COLONY, WARDHA ROAD, NAGPUR 440010
620	109848	Mr. ATANU KUMAR PAHAN 31/1076, CGS QTS., SECTOR - 7, ANTOP HILL, MUMBAI 400037	632	110125	Mr VIREN MANILAL DEDHIA A-1 609 ANAND LAXMI COOP SOC NR RAILWAY CROSSING SHAHIBAUG, AHMEDABAD 380004
621	109850	Mrs. PRIYANKA D GUPTA A/20 EVERSWEET APTS OPP PRATAP NAGAR, VERSOVA ROAD, ANDHERI, MUMBAI 400053	633	110177	Mr SAKET MEHRA B-301 INDRAPRASTHA TOWERS VASANT NAGRI, VASAI (EAST), DIST THANE, VASAI
622	109856	Mr RAVI ROKARIYA 88 SUNWILLA ROW HOUSE NEAR SARGON TOWERS, GURUKUL ROAD, AHMEDABAD 380052	634	110179	Mr SONU SHEDURAM GUPTA 6/8 DWARKA ASHISH IV FLOOR JAMBULWADI KALBADEVI RD, MUMBAI 400002
623	109862	Mr SAGAR PIYUSH MODY C/O VINAY MEHTA, 46B PEDDAR ROAD, 12-A ASHA MAHAL, MUMBAI 400026	635	110196	Mr RAHUL TAMBHI 102 GOPIVALLABH AVENUE TIMES OF INDIA ROAD, SATELLITE VAIZALPUR, AHMEDABAD 380015
624	109873	Mrs. NIMEESHA HEMANT C C CHOKSHI & CO MAFATLAL HOUSE, 6TH FLOOR, BACKBAY RECLAMATION, MUMBAI 400020	636	110280	Mr RAHUL SAMPAT DEORA 402/A, SAHAKAR APTS S V ROAD, MALAD-WEST, MUMBAI 400064
625	109876	Mr PARASHAR NACHIKET SHAH B/41 TEXTILA SOCIETY, BOMBAY DYEING COMPOUND, PRABHADEVI, MUMBAI 400025	637	110284	Mr MAHESH KUMAR AGAL D/51, NAND DHAM B P ROAD, NR. DAHISAR BRIDGE, DAHISAR, MUMBAI 400068
626	109924	Mr MOHAMMED KALIM SARWAR VAKHARIA & CO., CHARTERED ACCOUNTANTS, 137, BORABAZAR STREET, FORT, ML MBI 400001	638	110301	Mr NAMAN KIRAN DESAI 314 IIM CAMPUS VASTRAPUR, AHMEDABAD 380015
627	109966	Ms RUDRI BHARAT JOSHI MEHERISTAN 2ND FLR, AGARBAZAR, S K BOLE ROAD, DADAR, MUMBAI 400028	639	110347	Mr. RAVIPRAKASH RAJKUMAR 544/D-2 SWASTIC CO OP HSG SOC, SECTOR-5, CHARKOP KANDIVILI WEST, MUMBAI 400067
628	109995	Mr. DEVENDRA MOHANLAL C/O SATISH PATEL 6 UMIYA NAGAR SOCIETY, BEHIND PANCHAVATI JAKAT NAKA, GORWA RETMEY ROAD, VADODARA 395016	640	110378	Mr AJAY CHHOTELAL PASI BHEMNAGAR COLONY ROOM NO 4, J R BORICHA MARG, JACOB CIRCLE, MUMBAI 400 011
			641	110423	Mr. JAIRAM ANIL MEHTA 39/11 BHARTI, BEHIND DON BOSCO, KINGS CIRCLE, MUMBAI 400019

642	110426	Ms. KANAN AMAL ZAVERI AURNODAYA SAROJINI ROAD, VILE PARLE-W, MUMBAI 400056	654	110652	Mr PRAVEER SATISH SHENOY 448 KPMG HOUSE KAMALA MILLS COMPOUND, SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL, MUMBAI 400013
643	110436	Mr JATIN GORADIA 21/1, ROHIT VILLA SEWRI WADALA ROAD, BEHIND DON BOSCO SCHOOL, MATUNGA, MUMBAI 400019	655	110660	Ms USHMA H SHETH B/15 IRLA SOCIETY SOCIETY ROAD, IRLA, VILE PARLE (W), MUMBAI 400056
644	110441	Mr HITESH KUMAR F 101 AANGAN NEAR THAKUR COLLEGE, SAMTA NAGAR, KANDIVLI EAST, MUMBAI 400101	656	110662	Mr RAKESH SATYENDRA V-2 301 SUNDERNAGAR S V ROAD, MALAD (WEST), MUMBAI 400064
645	110472	Ms NIDHI KIRTIKUMAR DOSHI 3/7 B WING AVANTI APARTMENTS FLANK ROAD, SION EAST, MUMBAI 400022	657	110691	Mr RAHUL PRADIP PRATINIDHI OM AVISHKAR WING C FLAT NO 714 CTS NO 1127, SNEH PARADISE COMPLEX, NR MIT COLLEGE KOTHRUD, PUNE 411038
646	110543	Ms RADHIKA KALYAN 448 KPMG HOUSE KAMALA MILLS COMPOUND, SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL, MUMBAI 400013	658	110712	Mr JATINDERKUMAR JAGDISHRAI 405 STERLING CHAMBERS POONA STREET, MUMBAI 400 009
647	110548	Mr AJIT RAMESHKUMAR TOLANI RSM & CO 109-112 DALAMAL TOWERS, NARIMAN POINT, MUMBAI 400021	659	110747	Mr SANDEEP JAYANT POTDAR 4 PADWAL BHAVAN OPP: RAILWAY STATION, CHUNABHATTI, MUMBAI 400022
648	110565	Mr BHHADUR TIKA GYAN SHREE CHANDRAPRABHA MANDIR 86 DR, A B ROAD, WORLI, MUMBAI 400018	660	110800	Ms. JIGNA KIRAN SANGHAVI 8 ANUBHAV 93 GARODIA NAGAR, GHATKOPAR EAST, MUMBAI 400077
649	110594	Ms. DEEPA MARY CHERIAN 001 OLG VILLA MADONNA COLOY-6- NEAR BHAGAVATHI HOSPITAL, BORIVALI WEST, MUMBAI 400092	661	110846	Mr. PIYUSH JAJOO C/O INFOSYS TECHNOLOGIES LTD PLOT NO 1 PUNE INFOTECH PARK, HINJAWADI, TAL MULSHI, PUNE 411027
650	110624	Ms VAIDEHI ARVIND SHEVDE 1/7 GANESH KRIPA RAMNAGAR, N C KELKAR ROAD, DOMBIVLI (EAST) DIST THANE, DOMBIVALI 421201	662	110903	Mr. AMITKUMAR LALLUBHAI 3 SILVER STREAK GROUND FLOOR SUNDERNAGAR, NEAR CENTRAL PARK, AGASHI ROAD VIRAR (W), VIRAR 401303
651	110632	Mr RAJESH VASANJI GALIA N R DOSHI & CO P O BOX NO 13742, DUBAI UAE	663	110912	Ms JAGRITI VINOD KUMAR FLAT NO 7 ANAND ASHRAM GOKHALE ROAD, PUNE 411016
652	110635	Mr MAHESH CHANDRA SONI C/O SHRI ASHOK BHANDARI H 3 MAHESHWARI NAGAR, MIDC ANDHERI E, MUMBAI 400093	664	110926	Mr BADRINARAYAN S 17/B, CHETAN NAVGHAR ROAD, MULUND (E), MUMBAI 400081
653	110648	Mr AMIT GHANSHYAM RATHI 7B 601 ALICA NAGPUR LOKHANDWALA TOWNSHIP, AKURLI ROAD, KANDIVALI EAST, MUMBAI 400101	665	111858	Mr. PRAKASH CHANDRA C/O 796 SADASHIV PETH DHAN LAXMI PLAZA, PUNE 411630

- 666- 200403 Ms. RAJASHRI K
11/2 SHIV NIVAS
NEAR BANK OF MADURA,
R B MEHTA MARG GHATKOPAR (E),
MUMBAI 400077
- 667 200460 Mr. SASIKANTH B
403, B-12, BRAHMAPUTRA APARTMENTS,
SAFAL COMPLEX,
SECTOR 19A,
PLOT NO. 17, NERUL,
NAVI MUMBAI 400706
- 668 200526 Mr. VASUDEVA RAO A
C/O P. SRINIVASA BHAT
602/A, VIKRAMADITYA,
RAHEJA TOWNSHIP,
MALAD (EAST), MUMBAI 400097
- 669 201242 Mr. ANAND K SHAHA
B/7, FLAT NO. 5, GROUND FLOOR,
VEENA NAGAR NO. 2, VEENA NGAR,
L.B.S. MARG,
MULUND (WEST),
MUMBAI 400080
- 670 201270 Mr. ANANTHA PRASAD P S
FLAT D-24 AJINKAYA NAGARI
SURVEY NUMBER 6/61,
NEAR CORPORATION BANK,
KARVENAGAR,
PUNE 411052
- 671 202182 Ms. PRABHA GOVINDARAJAN
SHA 39
IIT,
POWAI,
MUMBAI 400076
- 672 202988 Mr. RAMKUMAR S
B-14, BUILDING NO 4
ANAND DEEP CO OP HOUSING SOCIETY,
PENDSE NAGAR,
DOMBIVLI - EAST,
DOMBIVALI 421201
- 673 203932 Mr. BALAJI A.
16F SECTOR 6
RPL TOWNSHIP,
GUJARAT,
JAMNAGAR 361140
- 674 203944 Mr. TIRUPATHI RAO VADDI
25, AHINSANAGAR,
OPP. AKASHWANI,,
JALNA RD.,
AURANGABAD 431001
- 675 204120 Mr. B M S VENKAT
C-204 SRADHA APT
GANJAN,
GIDC - GUJARAT,
VAPI 396195
- 676 204180 Mr. SRINIVASAN K S
DEUTSCHE BANK AG
PROJECT MANAGER,
KODAK HOUSE,
222 DR D N ROAD FORT,
MUMBAI 400001
- 677 204749 Mr. VISWANATH S
25 MAMTA A
APPASAHEB MARATHE MARG,
PRABHADEVI,
MUMBAI 400025
- 678 204890 Mr. KIDAMBI SURESH
TIMES OF MONEY
1ST FLOOR, TIMES OF INDIA BLDG,
D N ROAD,
MUMBAI 400001
- 679 205055 Mr. RAJARAMAN K S
NO 703 RISHIKESH TOWERS
MEM NAGAR,
NR SUBHASH CHOWK,
AHMEDABAD 380052
- 680 205412 Mr. SATHIANARAYANAN J
SR SOFTWARE ENGINEER
M/S LARSEN & TOUBRO INFOTECH LIMITED,
GATE NO. 2 SAKI VIHAR ROAD,
POWAI,
MUMBAI 400072
- 681 205436 Mr. R SURESH
ASSTT MANAGER, FIN
AMERICAN EXPRESS BANK LTD,
MAKER CHAMBERS IV, 7TH FL, N P,
MUMBAI 400021
- 682 205796 Mr. SUBASH KUMAR SAHOO
DEPUTY MANAGER FINANCE
VRW REFRATORIES (A DIVN OF SICAL),
PLOT NO 1513 GIDC KERALA INDL ESTATE,
NEAR BAVLA,
AHMEDABAD 382220
- 683 206367 Mr. HARIDATTA VARMA A P
B2 102 POLICE QUARTERS
THAKUR COMPLEX,
KANDVLI EAST,
MUMBAI 400067
- 684 206968 Mr. M A GIRISH SHARMA
TEAM MEMBER-PROJECT ENTRANS
TROMBAY HOUSE, BHARAT PETROLEUM,
TRG CENTRE, JUHU TARA ROAD,
JUHU, SANTACRUZ WEST,
MUMBAI 400049
- 685 207311 Mr. MANU PAUL
C/O PAUL A V
C-8 DIAMOND ESTATES,
CST ROAD,
KALINA SANTACRUZ (E),
MUMBAI 400098
- 686 207505 Mr. VINOD RAMANATHAN
C/O I.C.I.C.I. INFOTECH SERVICES LTD.,
ZENITH HOME,
KESHAV RAO KHADYE MARG.,
MUMBAI 400034
- 687 207546 Ms. SUDHA A PRAKASH
123/124 OXFORD HOUSE
OFF NEW LINK ROAD,
(NEW YAMUNA NAGAR),
OSHIWARA,
ANDHERI WEST,
MUMBAI 400058
- 688 207781 Mr. GIRIDHAR J
ASSISTANT MANAGER AUDIT
BPL MOBILE COMMUNICATIONS LTD,
BPL CENTRE, 127 TOKIDWADI,
MANMALA TANK ROAD,
MAHIM WEST,
MUMBAI

- 689 207868 Mr. VINOD SUBRAMANIAN
C/O VARMA & VARMA,
A-12, 4TH FLOOR, SUKHWANI PARK,
NORTH MAIN ROAD,
KOREGAON PARK,
PUNE 411001
- 690 208098 Mr. KAMESWAR RAO SUBUDHI P
BUILDING NO. X-2/ FLAT NO. 042
GEETA NAGAR PHASE IV
MIRA ROAD EAST,
MUMBAI 401107
- 691 208116 Mr. VIDHATHRAE K
HIKAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD.,
PLOT NO. 629/630,,
G.I.D.C.,
PANOLI, DIST: BHARUCH,
BHARUCH 394116
- 692 209084 Mr. ANAND K
F-82 MAKER KUNDAN GARDENS
JUHU TARA ROAD,
SANTA CRUZ (WEST),
MUMBAI 400049
- 693 209643 Ms. SAVITHRY M
D-402 SARNATH
UPPER GOVIND NAGAR,
MALAD (EAST),
MUMBAI 400097
- 694 209906 Mr. ASHISH T VERGHESE
72 SHIVRANJINI SOCIETY
132 FT RING ROAD,
SATELLITE,
AHMEDABAD 380015


(Dr. ASHOK HALDIA)

SECRETARY